

**ਪਹਲਾ ਖ਼ਾਡ**

“बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं।”

“तुम्हारा भाग्य।”

कर्ष्णम्मा से कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन उसने तुरन्त परिस्थिति पर काबू पा लिया। उसने कहा, “रूपये काफी नहीं हैं। क्या उद्धर दे सकते हो?”

हाथ खोलकर दिखाते हुए परो ने कहा, “मेरे पास रूपये कहाँ हैं?”

कर्ष्णम्मा हँस पड़ी और कहा, “तब अपने को छोटा मोतलाली क्यों कहते फिरते हो?”

“तुम मुझे छोटा मोतलाली कहकर क्यों पुकारती हो?”

“नहीं तो और क्या कहकर पुकारूँ?”

“सीधे परीकुट्टी कहकर पुकारा करो।”

कर्ष्णम्मा ने ‘परो’ तक कहा और खिलखिलाकर हँस पड़ी। परो ने पूरा नाम कहने का अनुरोध किया। कर्ष्णम्मा ने हँसी को रोका और गम्भीर भाव से असहमति प्रकट करने के लिए सिर हिला दिया। उसने कहा, “ऊँ हँस, मैं नाम लेकर नहीं पुकारूँगी।”

“तो मैं भी तुम्हे कर्ष्णम्मा कहकर नहीं पुकारूँगा?”

“तो फिर क्या कहकर पुकारोगे?”

“मैं तुम्हे बड़ी मल्लाहिन कहकर पुकारूँगा।”

कर्ष्णम्मा हँस पड़ी। परीकुट्टी ने भी ठहाका मारा, खूब हँसा। यो? दोनों इस तरह क्यों हँसे? कौन जाने! दोनों मानो दिल खोलकर हँसे।

“अच्छा, नाव और जाल खरीदने के बाद नाव में जो मछली आयगी उसे व्यापार के लिए मुझे देने को अपने बप्पा से कहोगी ?”

“अच्छा दाम दोगे तो मछली क्यों न मिलेगी ?”

फिर जोरों की हँसी हुई । भला इसमें इतना हँसने की क्याँ बात थी । कोई मजाक था क्या ! कोई भी बात हो, आदमी इस तरह कही हँसता है । हँसते-हँसते करूत्तमा की आँखे भर आई थी । हँफकते-हँफकते उसने कहा, “ओह, मुझे इस तरह न हँसाओ, मोतलाली !”

“मुझे भी न हँसाओ, बड़ी मल्लाहिन जी” —परीकुट्टी ने कहा ।

“बाप रे, कैसा आदमी है यह छोटा मोतलाली !”

दोनों फिर ऐसे हँस पड़े मानो एक ने दूसरे को गुदगुदा दिया हो । हँसी भी कैसी चीज है । यह आदमी को कभी गम्भीर बना देती है, तो कभी रुलाकर छोड़ती है । करूत्तमा का चेहरा लाल हो गया था । उसने शिकायत के तौर पर नहीं, गुस्से में कहा, “मेरी तरफ इस तरह मत ताको !” उसकी हँसी खत्म हो चुकी थी । भाव बदल गया था । ऐसा लगा, मानो परीकुट्टी ने अनजाने में कोई गलती कर दी हो ।

“करूत्तमा, तुम्हीने मुझे हँसाया और तुम्हीं ... ”

“धत्त”, करूत्तमा के मुँह से निकला । वह अपनी छाती को हाथों से ढकती हुई घूमकर खड़ी हो गई । वह एकाएक सकुचा गई । उसकी कमर में सिर्फ एक लुगी थी ।

“ओह, यह क्या है ? छोटे मोतलाली !”

इतने में घर से करूत्तमा को बुलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी । चक्की, उसकी माँ, जो मछली बेचने के लिए पूरब गई थी, लौट आई थी । करूत्तमा घर की ओर दौड़ गई । परीकुट्टी को लगा कि करूत्तमा नाराज होकर चली गई है । वह दुखी हुआ । उधर करूत्तमा को भी लगा कि वह परीकुट्टी के ही सामने क्यों, कही भी इस तरह नहीं हँसी थी । वह एक अजीब तरह का अनुभव था । कैसी थी वह हँसी ! दम घुटाने वाली, छाती फाड़ डालने वाली । करूत्तमा को लगा था कि वह नग्न रूप में

खड़ी है और एकदम अदृश्य हो जाना चाहती है। ऐसा अनुभव इसके पहले उसे कभी नहीं हुआ था। उस अनुभूति की तीव्रता में दिल को चुभने वाले कुछ कड़े शब्द उसके मुँह से निकल गए थे।

करुत्तम्मा का यौवन मानो जाग उठा था और प्रतिक्षण पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा था। परी की नजर अचानक जब करुत्तम्मा की छाती पर जा टिकी थी तब उसे लगा कि उसका सारा शरीर सिहर उठा है। क्या इसीसे हँसी की शुरूआत हुई थी? करुत्तम्मा एक ही कपड़ा पहने हुए थी, और वह भी पतला !

परीकुट्टी को लगा कि करुत्तम्मा नाराज होकर चली गई, उसके अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर चली गई। उसे यह भी डर लगा कि करुत्तम्मा फिर उसके पास नहीं आयगी।

परी ने सोचा कि वह करुत्तम्मा से माकी माँग के और उससे कह दे कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी।

दोनों को एक-दूसरे से क्षमा माँगने की ज़रूरत महसूस हुई। करुत्तम्मा जब समुद्र-तट पर सीप बटोरकर खेलने वाली चार-पाँच साल की एक छोटी बच्ची थी तब उसे जो एक छोटा साथी मिला था वह साथी परीकुट्टी ही था। पाजामे के ऊपर पीला कुर्ता पहने गले में एक रेशमी रुमाल बाँधे और सिर पर तुर्की टोपी लगाये परीकुट्टी को अपने बाप का हाथ पकड़े समुद्र-तट पर पहले-पहल जैसा उसने देखा था, वह उसे खूब याद था। उसके घर के दक्खिन की तरफ उन लोगों ने डेरा ढाला था। अब भी वह डेरा वही पर था। पर अब परीकुट्टी ही वहाँ का व्यापार चलाता था।

समुद्र के किनारे पड़ोस में रहते हुए दोनों बड़े हुए थे।

रसोईघर में बैठी चूल्हा जलाती हुई करुत्तम्मा को एक-एक बात याद हो आई। आग चूल्हे के बाहर जलने लाई। उसी समय माँ वहाँ आई और करुत्तम्मा की अन्यमनस्कता और बाहर जलने वाली लकड़ी-दोनों को थोड़ी देर तक देखती रही।

तब चक्की ने कर्त्तमा को एक लात लगा दी। कर्त्तमा मानो सपने में से चौक उठी। नाराजगी के साथ चक्की ने पूछा, “किसके बारे में बैठी-बैठी सोच रही है री ?”

कर्त्तमा का भाव देखकर कोई भी उससे ऐसा ही सवाल करता। चक्की का इसमें कोई दोष नहीं था। कर्त्तमा हँसरी ही दुनिया में थी।

“अम्मा, समुद्र-तट पर रखी हुई उस बड़ी नाव की आड़ में दिदिया खड़ी-खड़ी छोटे मोतलाली के साथ हँस रही थी”—उसकी छोटी बहन पचमी ने कहा। उसकी बात सुनकर कर्त्तमा एकदम चौक गई। वह दोषपूर्ण भेद—जो किसी को नहीं मालूम था, खुल गया। पचमी नहीं रुकी। उसने आगे कहा, “ओहो, कैसी हँसी थी अम्मा कुछ कहा नहीं जा सकता।” इतना कहकर वह कर्त्तमा को इशारे से जताती हुई कि उसके पीछे पड़ने का यही नतीजा है, वहों से भाग गई।

कर्त्तमा पचमी को घर पर छोड़कर नाव की तरफ गई थी। इस कारण पचमी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकी थी। चेम्पन (बाप) का आदेश था कि कभी ऐसा न हो कि घर में एक आदमी भी न रहे। नाव और जाल खरीदने के लिए वह कुछ रुपये बचाकर घर में रखे हुए था। इस कारण पचमी को घर पर रहना पड़ा था। उसीका उसने कर्त्तमा से गुस्सा उतारा।

इस तरह की बात सुनकर क्या कोई माँ चुप रह सकती है। चक्की ने कर्त्तमा से पूछा, “अरी, मैं क्या सुन रही हूँ ?”

कर्त्तमा ने कोई उत्तर नहीं दिया।

“तू क्या करने पर तुली हुई है री ?”

कर्त्तमा के लिए जवाब देना चर्छरी हो गया। एक जवाब उसे सूझ गया, “यो ही समुद्र-तट पर जब गई — — ”

“समुद्र-तट पर जब गई — — ?

“छोटे मोतलाली नाव पर बैठे थे।”

“उसमें तेरे हँसने की क्या बात थी ?”

करुत्तमा को एक और जवाब सूझा, “नाव और जाल खरीदने के लिए रुपया जो कम है वह मैं मोतलाली से पैसा माँग रही थी।”

“अरी उससे रुपये माँगने का तेरा क्या काम था ?”

“उस दिन बप्पा और तुम आपस मे बाते नहीं कर रहे थे कि मोतलाली से रुपया माँगना है ?”

वह सब तर्क व्यर्थ था । वह जवाब मे कुछ-न-कुछ कहने की करुत्तमा की कोशिश-भान्नी थी । चक्की ने बेटी को एड़ी से चोटी तक ध्यान से देखा ।

चक्की भी उस उम्र से होकर गुजर चुकी थी । यह भी हो सकता है कि जब चक्की करुत्तमा की उम्र की थी तब तट पर डेरा डाले कुछ मोतलाली लोग भी रहते होंगे । उन्होने भी किनारे पर रखी नाव की आड मे चक्की के मन को गुदशुदाकर उसे हँसाया होगा । लेकिन चक्की एक ऐसी मल्लाहिन थी, जो उसी समुद्र-तट पर जन्म लेकर बड़ी हुई थी । इसलिए वह वहाँ के परम्परागत तत्त्व-ज्ञान की अधिकारिणी थी ।

प्रथम मल्लाह जब पहले-पहल लकड़ी के एक टुकडे पर चढ़कर समुद्र की लहरों और ज्वार-भाटे का अतिक्रमण करके क्षितिज के उस पार गया तब उसकी पत्नी ने तट पर ब्रत-निष्ठा के साथ पश्चिम की ओर देखकर खड़े-खड़े तपस्या की । समुद्र मे तूफान उठा, शार्क मुँह बाये नाव के पास पहुँचे, हँड़े ने नाव को पूँछ से मारा और जल की अन्तर-धारा ने नाव को एक भौंवर मे खोच लिया । लेकिन आश्चर्यजनक रीति से वह मल्लाह सब सकटो से बचकर एक बड़ी मछली के साथ किनारे पर लौट आया । उस तूफान के खतरो से वह कैसे बचा ? शार्क उसे क्यों नहीं निगल गया ? हँड़े की मार से उसकी नाव क्यों नहीं ढूब गई । भौंवर से उसकी नाव कैसे निकल आई ? यह सब कैसे हुआ ? समुद्र-तट पर खड़ी उस पतिव्रता नारी की तपस्या का ही वह फल था ।

समुद्र-माता की पुत्रियों ने इस तपश्चर्या का पाठ पढ़ा । चक्की को भी इस तत्त्व-ज्ञान की सीख मिली थी । यह भी सम्भव है कि जब चक्की एक नवयुवती थी तब एक मोतलाली ने उसे भी ऑख गड़ाकर देखा होगा

और चक्की की माँ ने उस समय उसको भी समुद्र-माता की पुत्रियों की तपश्चर्या की कहानी और जीवन का तत्त्व-ज्ञान समझाया होगा।

चक्की ने करुत्तम्मा की गलती समझी हो या नहीं उसने आगे कहा, “बिट्या, अब तू छोटी बच्ची नहीं है। एक मल्लाहिन हो गई है। परीकुट्टी के शब्द ‘बड़ी मल्लाहिन’ करुत्तम्मा के कानों में गूँज गये।

चक्की ने आगे कहा, “इस महासागर में सब-कुछ है बिट्या, सब-कुछ। इसमें जाने वाले लोग कैसे लौटकर आते हैं यह तुझे क्या मालूम। तट पर उनकी स्त्रियों के पवित्रता से रहने से ही यह होता है। वे पवित्रता का पालन न करे तो मल्लाह नाव सहित भैंर में पड़कर खस्त हो जाय। मछुआरों का जीवन वास्तव में तट पर रहने वाली उनकी स्त्रियों के हाथ में ही है।”

यह पहला अवसर नहीं था जब कि करुत्तम्मा ने उपर्युक्त आशय की बात सुनी हो। जहाँ चार मल्लाहिन इकट्ठी होती वहाँ इन शब्दों को दुहराना एक मामूली बात थी।

फिर भी परीकुट्टी के साथ हँसने में वया गलती हुई थी? किसी मछुआरे का जीवन उसे सौंपा तो गया नहीं था। जब सौंपा जायगा तब उसकी रक्षा वह जरूर करेगी। कैसे करना है यह भी उसे मालूम था। मल्लाहिनों को यह किसी से सीखने की जरूरत नहीं है।

चक्की ने आगे कहा, “क्या तुझे मालूम है कि यह समुद्र कभी-कभी क्यों रंग बदलता है? समुद्र-माता क्रोध आ जाने पर एक साथ सब नष्ट कर डालती है। नहीं तो अपनी सन्तान के लिए सब-कुछ देती है। इसमें सोने की खान है बेटी, सोने की खान।”

चक्की ने बेटी को फिर एक बड़ा उपदेश दिया, “पवित्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है, बेटी! मल्लाह की असली सम्पत्ति मल्लाहिन की पवित्रता ही है। कभी-कभी छोटे मोतलाली लोग समुद्र-तट को अपवित्र कर देते हैं। पूर्व से स्त्रियाँ ज़िंगी पीटने और सूखी मछली को बोरो में भरने के लिए आया करती हैं और वह तट को अपवित्र कर देती है। समुद्र-तट की

पवित्रता का महस्त उन्हे क्या मालूम ! वे समुद्र-माता की सन्तान तो हैं नहीं । लेकिन उसका फल भोगना पड़ता है मछुआरों को । तट पर रखी हुई बड़ी नावों की आड और यहाँ की ज्ञाडियाँ बहुत खतरनाक जगह हैं । वहाँ सतर्क रहने की जरूरत है ।”

इतना कहकर चक्की ने बेटी को गम्भीरता पूर्वक सावधान किया, “तेरी अब उम्र हो गई है । छाती भर आई है । चेहरा-मोहरा सब हृष्ट-पृष्ट हो गया है । हो सकता है छोटे मोतलाली लोग और दूसरे नासमझ जवान लड़के तेरी ओर नज़र गड़ाकर देखे ।”

यह सुनकर करुत्तमा चौक गई । नाव की आड मे ठीक वही बात हुई थी । उसके मन मे उस समय विरोध की जो भावना उठी थी, वह शायद परम्परा से प्राप्त भावना थी । यदि कोई छाती की ओर या नितम्बों की ओर आँख गड़ाकर देखे तो वह बात समुद्र-माता की सन्तान की मर्यादा के विरुद्ध होगी ही ।

“बिठिया मेरी, तू समुद्र मे तूफान उठाकर मछुआरों की जीविका नष्ट न कर !”

करुत्तमा डर गई । चक्की ने आगे कहा, “वह तो <sup>“</sup>विघर्मी है । उसे इन बातों की क्या परवाह होगी !”

चक्की इस तरह बोल रही थी मानो वह सारी बाते समझ गई हो । उस रात को करुत्तमा को नीद नहीं आई । पचमी पर, जिसने उसका भेद खोल दिया था, उसे कोई गुस्सा नहीं आया । उसने यह भी नहीं सोचा कि पचमी ने क्यों कह दिया । क्योंकि उसने अपनी गलती महसूस की । समाज मे सदियों से अदिच्छन्न रूप से चला आने वाला तत्त्व-ज्ञान उसमें भी अवश्य था । शायद वह निश्चित रूप धारण कर रहा था । वह शायद डरती भी होगी कि वह पथ-भ्रष्ट हो जायगी । जब यह डर था तब तो पचमी से नाराज होने का कोई कारण ही नहीं रहा । करुत्तमा जहाँ थी वहाँ से मानो उसे उखाड़ फेकने की नीयत से एक गीत की कुछ कड़ियाँ समुद्र-तट की ओर से आकर उसके कानों मे समा गईं ।

करुत्तम्मा ने ध्यान से सुना ।

गाना परीकुट्टी गा रहा था । वह कोई गायक नहीं था । फिर भी नाव के एक तर्खे पर बैठा वह गा रहा था । अपने वहाँ बैठने की जो खबर देना चाहता था वह और किसी जरिये दे सकता था । जिसके लिए खबर थी, उसे खबर मिल गई । तीर निशाने पर जा लगा । करुत्तम्मा का मन विचलित हो उठा । ‘चुपके से उठकर चली जाय तो ।

‘परीकुट्टी फिर नजर गड़ाकर उसकी छाती और नितम्बो की ओर देखेगा ।

जाना भी उसे नाव की आड़ में होगा । और वह खतरनाक जगह है ।

परीकुट्टी विधर्मी भी तो है ।

गाने की बे कडियाँ मल्लाहों के एक गीत की कडियाँ थीं । थोड़ी देर और सुनती रहे तो वह जरूर निकलकर चली जायगी, ऐसा करुत्तम्मा को लगा । हृदय के भीतर घुस जाने वाली उन पैनी नज़रों का प्रहार सहन करने में भी एक आनन्द था । वह पट लेट गई और कानों में उँगलियाँ डालकर उन्हें बन्द कर दिया । फिर भी वह गाना भीतर घुसता रहा ।

करुत्तम्मा रो पड़ी ।

उस कोठरी का कमज़ोर दरवाजा खोला जा सकता था । वह टूट कर गिर भी सकता था । लेकिन करुत्तम्मा थी एक ऐसे घेरे के भीतर, जिसकी दीवार किसी भी तरह तोड़ी नहीं जा सकती थी । वह घेरा था समुद्र-माता की सन्तान के तत्त्व-ज्ञान की ऊँची और मोटी दीवार का घरा । उसमे न खिडकियाँ थीं, न दरवाज़े ।

। लेकिन क्या शरीर का गर्म खून उसे तोड़ नहीं देगा ? इस तरह का घेरा कभी टूटा नहीं है ?

परीकुट्टी का गाना उस निर्जन समुद्र-टट पर फैल गया । वह एक मल्लाहिन को, रात के समय दरवाजा खुलवाकर बाहर निकालने के लिए तैयार किया हुआ गाना नहीं था । उसमे न लय थी, न ताल । गाने वाले की आवाज़ भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसमे एक विशेष आकर्षण

था। परीकुट्टी का इरादा सिर्फ यह जता देना था कि वह वहाँ बैठा है। ।  
उसे तो कर्ष्णम्मा से माफी माँगनी थी। गाते-गाते उसका गला ढुखने  
लगा।

कर्ष्णम्मा ने कानों से उँगलियाँ निकाल ली। बगल की कोठरी में  
उसके माँ-बाप आपस में बात कर रहे थे, नहीं झगड़ रहे थे। कर्ष्णम्मा  
के कान खड़े हो गए। वे उसीके बारे में बाते कर रहे थे।

चेम्पन ने कहा, “मैं सब-कुछ जानता हूँ। तेरे कुछ कहने की ज़रूरत  
नहीं है, मैं भी तो आदमी हूँ।”

चक्की गुर्हाई—“ओ, आदमी हो! जान लेना ही काफी नहीं है।  
बिटिया कलकित हो जायगी तब?”

“जा, जा उसके पहले ही मैं उसे भेज दूँगा।”

“सो कैसे? बिना रूपये लिये कौन ले जाने के लिए आयगा?”

“सुन!” कहकर चेम्पन ने अपनी सारी योजना सुनानी शुरू की।  
कर्ष्णम्मा वह चिवरण सौ बार पहले भी सुन चुकी थी।

चक्की ने दुख और रोष से कहा, “अच्छा तो नम्र और जाल  
खरीदते रहो।”

चेम्पन ने अपना निश्चय दुहराया—“कुछ भी हो, मैं उन रूपयों में  
से चार पैसे भी नहीं निकालूँगा, तुम उन पर बौख मत लगाओ।”

चक्की ने यह कहकर अपना गुस्सा उतारा, “बिटिया को कोई विधर्मी  
कुमार्ग पर ले जायगा। अब यह हैने जा रहा है।”

चेम्पन ने कोई जवाब नहीं दिया। चक्की के डर की गुरुता उसके  
दिमाग में कैसे नहीं घुसती। थोड़ी देर बाद उसने कहा, “मैं एक  
लड़का लाऊँगा।”

“बिना पैसे के ही?”

चेम्पन ने हुकारी भर दी।

चक्की ने कहा, “कोई ऐरा-गैरा होगा।”

“तू देखती रहना!”

सन्तुष्ट न होकर चक्की ने आगे कहा, “ऐसा ही है तो लड़की को वाँधकर समुद्र में फेक देना अच्छा होगा।”

चेम्पन ने फटकारा, “धत् तेरे की।”

“यह नाव और जाल सब किसके लिए है ?”

चेम्पन ने जवाब नहीं दिया।

चक्की ने सुझाया, “उस वेल्लमणली वेलायुधन् के बारे में क्यों नहीं सोचते ?”

“नहीं, वह नहीं चाहिए।”

“क्यों, उसमें क्या कमी है ?”

“वह सिर्फ एक मल्लाह है, मामूली मल्लाह।”

“तब विटिया के लिए मल्लाह नहीं तो और किसे लाने जा रहे हो ?”

इसका कोई जवाब नहीं था।

माँ की यह बात कि कोई विधर्मी बेटी को कुमार्ग में ले जायगा, करुत्तमा के कानों में गूज गई। लेकिन उसके बाप को उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आया। करुत्तमा का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो फट जायगा। विधर्मी ने क्या उस समय भी उसे कुमार्ग की ओर खोच नहीं लिया था।

१९४८-१९४९  
 ३१ JUN 1982  
 २

दूसरे दिन करुत्तमा घर से बाहर नहीं निकली। परीकुट्टी के डेरे में उस दिन काम की भीड़ थी। डेर लगाकर रखी हुई मछलियों को बोरो में भरने के लिए पूरब से औरते आई हुई थीं।

जब करुत्तमा अकेली बिना काम के बैठी तब उसके मन में एक विचार विजली की तरह कौध गया। क्या परीकुट्टी उन औरतों की छाती की ओर भी नजर गडाकर देखता होगा।

दोपहर को, समुद्र में गई हुई सब नावे लौटकर किनारे पर लग गईं। चक्की टोकरी लेकर समुद्र-नट की ओर चली गईं। चलते समय उसने करुत्तमा को फिर सावधान किया, “बिटिया, मैंने जो-जो कहा है सब याद रखना!”

करुत्तमा को मालूम था कि क्या-न्या याद रखना है।

थोड़ी देर के बाद चेम्पन घर आया। करुत्तमा ने भात परोस दिया। आज चेम्पन ने बेटी को जरा गौर से देखा, जैसा इसके पहले कभी नहीं किया था। वह तो रोज ही उसे देखता था, लेकिन आज उस तरह देखने का क्या मतलब था? करुत्तमा डर गई कि बाप को भी कही उसका रहस्य मालूम तो नहीं हो गया है! लेकिन यदि मालूम हो भी गया होता तो वह जरूर गुस्सा दिखाता। उसके भाव में गुस्सा नहीं था।

चक्की ने पिछली ही रात को उसे याद दिलाया था कि घर में बेटी ब्याही जाने लायक बड़ी हो गई है। चेम्पन ने जब से होश सँभाला था तब से अपनी नाव और जाल खरीदने की ही कोशिश में रहा है। अब एक और मुख्य बात की ओर उसका ध्यान खीचा गया है। बेटी अब युवती

हो गई है। चक्की ने कहा था कि कोई विधर्मी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। यही सब याद करके चेम्पन ने बेटी को ध्यान से देखा था।

वह आज भी दूसरे की नाव में काम करके अपना हिस्सा कमा लाता था। शुरू में वह नाव में डॉड चलाने का काम करता था। अब वह पत-वार-चालक का काम करता है। उसके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य था। अपनी कमाई का एक पैसा भी वह फिजूल खर्च नहीं करता था। अब तक उसने कुछ जमा भी कर लिया था। लेकिन नाव और जाल सर्रीदने के लिए वह काफी नहीं था।

लड़की पुकती हो गई है। उससे गलती भी हो सकती है। चक्की ने जो कहा है, सो ठीक ही कहा है। उसका डर बिना कारण नहीं था। नाव और जाल खर्रीदना चाहिए या बेटी की शादी कर देनी चाहिए, यह अब सोचने का विषय हो गया। चेम्पन ने भी बेटी से कुछ कहना जरूरी समझा—“बिट्या, तुझे अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है।” वाप ने भी कह ही दिया।

करुत्तम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चेम्पन ने भी जवाब की प्रतीक्षा नहीं की।

शाम को मजदूरों को भेज देने के बाद परीकुट्टी नाव के तख्ते पर जा बैठा था। आज भी शायद वह करुत्तम्मा की राह देखता होगा।

चेम्पन परीकुट्टी के पास पहुँचा। करुत्तम्मा ने दोनों को बहुत देर तक बाते करते देखा। वे किस विषय पर बाते करते होंगे, इसका उसने अन्दाज लगाया। उसको लगा कि उसका वाप परी से कर्ज माँगता होगा।

उस रात को पति-पत्नी ने बहुत देर तक आपस में गुप्त रूप से बाते की। वे क्या बाते कर रहे थे यह जानने की करुत्तम्मा की बड़ी इच्छा हुई।

परी ने उस दिन भी गाना गाया। अपनी टूटी झोपड़ी के अन्दर चुप-चाप लेटी हुई करुत्तम्मा ने उसे सुना। उसे परी से अब तक एक ही बात कहनी थी कि वह उसकी छाती की ओर नजर गड़ाकर न देखे।

अब उसे एक और बात कहनी है कि वह गाना भी न गावे ।

दो दिन पहले तक वह एक तितली की भाँति सोल्लास दौड़ती फिरती थी । लेकिन दोही दिन मे उसमे कैसा परिवर्तन हो गया । बैठकर सोचने के लिए कोई बात मिल गई । वह अब अपने को पहचानने लगी है । क्या वह जीवन को गम्भीर बनाने वाली बात नहीं थी ? वह अपने को जाँचने लगी । एक-एक कदम सोच-विचारकर आगे रखना था । पहले की तरह स्वच्छन्दता पूर्वक दौड़ती फिरना अब सम्भव नहीं था । एक मर्द ने उसकी छाती की ओर देखा है और वह बच्ची से अब एक स्त्री हो गई है ।

तीसरे दिन परीकुट्टी का गाना नहीं सुनाई पड़ा । उस दिन भी चाँदनी फैलकर मन को लुभा रही थी । समुद्र का एक रहस्यपूर्ण गीत नारियल के पत्तों मे हिलोरे लेता हुआ पूरब की ओर फैल रहा था । अब जब परीकुट्टी गा नहीं रहा था, करुतम्मा के कान उसका गाना सुनने के लिए व्यग्र हो उठे । क्या वह आगे गायगा ही नहीं ?

रात का खाना खाने के बाद चेम्पन कहीं बाहर चला गया । चक्की सोई नहीं । करुतम्मा ने कारण पूछा । माँ ने बेटी से सो जाने को कहा । लेटे-लेटे करुतम्मा की आँखे लग गई ।

एकाएक वह जाग उठी । कोई पूछ रहा था, “करुतम्मा अभी सोई नहीं है ?”

आवाज मे सिर्फ उसीकी पहचान मे आने वाला जो कम्पन था उससे करुतम्मा ने आदमी को पहचान लिया । वह परीकुट्टी था ।

चक्की ने जवाब दिया—“वह सो गई है ।”

चक्की की आवाज मे जो एक सकोच था सो भी करुतम्मा ने समझ लिया । उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया । उसने उठकर टूटी दीवार की दरार से बाहर झौंका । परीकुट्टी और चेम्पन दोनों मिल-कर एक भारी बोझ उठाकर भीतर रख रहे थे । एक नहीं, दो नहीं, छह-सात भरे हुए बोरे थे । सबमे सूखी मछलियाँ थीं ।

करूत्तम्मा का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो फट जायगा। बाहर अँगन मे चक्की, परीकुट्टी और चेम्पन तीनो आपस मे धीरे-धीरे बाते कर रहे थे।

दूसरे दिन करूत्तम्मा ने माँ से उन बोरो के बारे मे पूछा। चक्की ने जरा छल के साथ जवाब दिया, “छोटे मोतलाली ने लाकर रखे हैं।”

करूत्तम्मा ने पूछा, “अपने यहाँ क्या वह नहीं रख सकता था ?”

“इधर रखन मे तुझे क्या एतराज है ?” चक्की ने पूछा। कुछ क्षण के बाद उसने कडककर आगे कहा, “इस तरह पूछ-ताछ करने के लिए वह तेरा कौन है री ? तू अपने को सँभालकर रख। समझी !”

करूत्तम्मा का बहुत-कुछ पूछने का मन था। परीकुट्टी उसका कोई नहीं था। लेकिन क्या वह चोरी नहीं थी ? उसका मतलब था परीकुट्टी का कर्जदार बन जाना। बाप ने मर्यादा की रक्षा करने की चेतावनी दी है। लेकिन इस तरह के काम से उसका कर्जदार बन जाय तो !

पर करूत्तम्मा ने कुछ कहा नहीं।

दूसरे दिन उन सूखी मछलियो की बिक्री हो गई। उसके बाद के दिन समुद्र मे मछुआरो को बड़ी आमदनी हुई। चेम्पन की नाव किनारे पर एक बार ढेर लगाकर, दुबारा गई। चक्की माल बेचने के लिए पूरब गई थी। पचमी भी घर पर नहीं थी। करूत्तम्मा अकेली थी।

परीकुट्टी आया।

करूत्तम्मा दौड़कर भीतर चली गई। परीकुट्टी बिना कुछ बोले ही थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। उसे भी सकोच हो रहा था। उसका मुह और कण्ठ सूख गया था। उसने इतना ही कहा, “नाव और जाल खरीदने के लिए रुपये दे दिए हैं।”

कोई जवाब नहीं। रफी ने आगे कहा, “अब मुझे व्यापार के लिए मछली मिलेगी न ? दाम दूँगा।”

‘अच्छा दाम दौगे तो ले सकोगे’, यही जवाब मिलना चाहिए था।

यही जवाब करूत्तमा ने पहली बार दिया था। पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन इस तरह की बातचीत के सिलसिले में दोनों खूब जोर से हँसे थे। परी ने सोचा भी होगा कि वह हँसी फिर दुहराई जायगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। करूत्तमा एकदम चुप थी।

परी ने पूछा, “करूत्तमा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या मुझसे कुट्टी कर ली है?” परी को लगा कि वह भोतर-ही-भीतर रो रही है। उसने पूछा, “रो रही हो करूत्तमा?” उसने आगे कहा, “मेरा आना पसन्द नहीं है तो मैं जाता हूँ।”

इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तब रुँधे हुए कण्ठ से परीकुट्टी ने पूछा, “क्या मैं जाऊँ करूत्तमा?”

“मोतलाली! तुम एक विधर्मी हो”, करूत्तमा ने जवाब दिया मानो परी का आखिरी सवाल उसके हृदय में कही लग गया हो।

परीकुट्टी की समझ में बात नहीं आई। उसने पूछा, “इससे क्या?”

इसका कोई जवाब नहीं था। करूत्तमा के मन में भी यह सवाल उठा, ‘विधर्मी है तो क्या?’ जट से उसके मुँह से एक वाक्य निकला, “‘डेरे पर काम के लिए आने वाली मजदूरिनों की छाती की ओर जाकर नजर गडाओ!’”

परी को लगा कि करूत्तमा ने उस पर भारी आरोप लगाया है। उसको लगा कि करूत्तमा सोचती है कि काम के लिए आने वाली मजदूरिनों के साथ उसका अनुचित सम्बन्ध है और इसीलिए वह नाराज है। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे अपनी निर्दोषिता का प्रमाण दे। उसने किसी को भी उस नजर से नहीं देखा था। उसने सचाई से कहा, “‘अल्लाह की कसम, मैंने किसी को भी उस नजर से नहीं देखा है।’”

परीकुट्टी अच्छा आदमी है, यह सावित ही जाता तो करूत्तमा को बड़ी खुशी होती, इसमें कोई सन्देह नहीं था। लेकिन वह अपने लिए परीकुट्टी से यह नहीं चाहती थी कि वह दूसरी औरतों को न देखे। वह

क्या चाहती थी यह वह उसे कैसे कहे, यह वह खुद नहीं जानती थी। उसे कैसा जीवन विताना है, यह भारी तत्त्व-ज्ञान, सारा-का-सारा सुनाना पड़ेगा और यह काम उससे नहीं होगा। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी।

नि शब्दता में काफी समय बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी की अवधि बढ़ जायगी मानो इसी डर से करूत्तम्मा ने कहा, “अम्मा अब आयगी।”

“इससे क्या ?”

डरकर उसने कहा, “बाप रे बाप, यह गलत है, यह अपराध है।”

“तुम भीतर हो, मैं बाहर हूँ। फिर क्या ?”

यह भी उसे समझाना होगा ! कैसे ? कहना शुरू करती तो कितना कहना पड़ता !

परी ने पूछा, “करूत्तम्मा ! तुम मुझसे प्रेम नहीं करती ?”

करूत्तम्मा ने झट से जवाब दिया, “करती हूँ।”

परीकुट्टी ने आवेश के साथ पूछा, “तब तुम बाहर क्यों नहीं आती ?”

“मैं नहीं आती।”

“हँसाऊँगा नहीं। जरा देखकर चला जाऊँगा।”

निस्सहाय भाव से करूत्तम्मा ने इतना ही कहा, “नहीं, नहीं। बाप रे बाप !”

“तो मैं जाता हूँ।”

जवाब के तौर पर भीतर से आवाज आई, “मैं सदा-सर्वदा प्रेम करती रहूँगी।”

इससे बढ़कर कौन-सी प्रतिज्ञा चाहिए थी ? परी वहाँ से चला गया। उसके चले जाने पर करूत्तम्मा को लगा कि जो कहना चाहिए था सो तो कहा नहीं और जो नहीं कहना चाहिए वही कह दिया।

उस रात को करूत्तम्मा ने माँ-बाप दोनों को रोशनी जलाकर रूपया गिनकर रखते देखा। अब भी रूपया कम था। तो भी चेम्पन को तसल्ली थी। उसने कहा, “औरेप्प या किसी और गला काटने वाले के पल्ले

पडे बिना ही इतना तो हो गया ।

चक्की ने भी सहमति प्रकट की—“मछुआरों को धोखा देने के लिए जेब में रुपये डालकर धूमने वालों से रुपया लिया होता तो — — —”

“तब तो न नाव रहेगी, न जाल, न लगाया हुआ रुपया ही मिलेगा ।”

औसेप्प और गोविन्दन् हाल में भी पूछ रहे थे कि कर्जा चाहिए क्या । चेम्पन ने जवाब में ‘ना’ कह दिया था । उनसे लेने पर कर्जा कभी चुकता ही नहो । इतना ही नहीं, नाव और जाल भी जल्दी ही उन्हींका हो जाता । गरीब मछुआरों के साथ ऐसा ही होता आया है । अभी रुपया कम है तो उसका क्या उपाय है ?

चेम्पन ने कहा, “छोटा मोतलाली ही बाकी रुपया क्यों नहीं दे देता ?”

जीवन में पहली बार करुत्तम्मा के मन में माँ-बाप के प्रति धृणा उत्पन्न हुई । माँ ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया ? इस विचार ने उसे और भी परेशान कर दिया ।

परी के घर में, इसके बाद, मछली सुखा-सुखाकर बोरी में भरने का काम बड़ी तेजी से होने लगा । इसका रहस्य करुत्तम्मा को मालूम था । थोडे ही दिनों में वह काफी होशियार हो गई थी ।

जीवन में अभिवृद्धि लाने वाले परिवर्तन की खुशी में चक्की ने करुत्तम्मा से कहा, “बेटी, हमारी नाव और जाल के आने का समय आ गया ।”

करुत्तम्मा ने कुछ नहीं कहा । उस खुशी में वह भागीदार नहीं हो सकी । उसकी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी ।

चक्की ने कहा, “समुद्र-माता ने कृपा की है ।”

करुत्तम्मा के मन में जो गुस्सा भरा था वह प्रकट हो गया, उसने कहा, “लोगों को धोखा देने से समुद्र-माता नाराज़ नहीं होगी क्या ?”

चक्की ने करुत्तम्मा की ओर शौर से देखा । करुत्तम्मा विचलित नहीं हुई । उसे और भी पूछना था, “उस बेचारे को धोखा देकर नाव और जाल नहीं लाना चाहिए अम्मा ? यह तो अन्यथा है ।”

“क्या कह रही है री ? कि धोखा दिया है ?”

करुत्तम्मा ने हिम्मत के साथ कहा, “हाँ ।”

“किसने ?”

करुत्तम्मा की चुप्पी ही इसका जवाब था । चक्की ने कहा, “औसेप्प से कर्जा लिया जाता तो नाव और जाल उसीके हो जाते ।”

“नहीं अम्मा, औसेप्प को सिर्फ सूद के साथ उसका रूपया लौटा देना पड़ता ।”

“यह नहीं लौटाना है क्या ?”

करुत्तम्मा ने चक्की से सीधे ढग से पूछा, “यह, यह—लौटाने के लिए लिया गया है क्या ?”

चक्की ने कहा कि परी से सूखी मछली लेने में कोई धोखेबाजी नहीं थी । चेम्पन ने तो सिर्फ पूछा था, ज्ओर नहीं दिया था । झूठ भी नहीं बोला था । न धोखा ही दिया था । उसका रूपया जरूर लौटाया जायगा ।

करुत्तम्मा ने पूछा, “आधी रात के समय बोरे उठवाकर रखे जाते हैं । यह लौटा देने के लिए है ? ऐसा है तो दिन के समय लाने में क्या हर्ज़ था ? ऐसे ही कामों से समुद्र में तृफान उठता है ।”

करुत्तम्मा की अन्तिम बात जरा ज्यादा हो गई । चक्की को गुस्सा आ गया । उसने पूछा, “तू क्या कहती है री ? तेरे बाप ने चोरी की है ?”

करुत्तम्मा चुप रही । माँ के अधिकारपूर्ण स्वर में चक्की ने आगे कहा, “वह विधर्मी छोकरा तेरा कौन है री ? तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है ?”

करुत्तम्मा कहना चाहती थी कि ‘वह उसका कोई नहीं है ।’ लेकिन उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला । उसे लगा कि वह क्यों कहे कि परी उसका कोई नहीं है । क्या सचमुच वह उसका कोई नहीं है ? .. . उस समय उसे लगा कि परी वास्तव में उसका सब-कुछ है ।

चक्की ने अपना सबाल डुहराते हुए कहा, “बाप रे बाप ! लगता है कि लड़की समुद्र-तट का सर्वनाश कर बैठेगी ।”

करुत्तम्मा ने दृढ़ता के साथ माँ का विरोध किया—“मैं अपनी

मर्यादा छोडने वाली नहीं हूँ।”

“फिर तुझे उसके लिए क्यों इतना दर्द होता है ?”

“इस हिसाब से तो उसे यहाँ से अपना डेरा-डण्डा सब उठाकर चल देना होगा ।”

चक्की ने बेटी को फटकारकर खूब डाटा । करुत्तम्मा चुपचाप सुनती रही । उसे ज़रा भी नहीं अखरा । चक्की उसी तरह बोलती गई । जब उसकी डाट-फटकार सीमा पार करने लगी तब करुत्तम्मा ने माँ से पूछा, “क्या उसने बप्पा पर विश्वास करके ही पैसा दिया है ?”

“नहीं तो फिर किस पर ?”

एकाएक चक्की को याद आया कि करुत्तम्मा ने उससे रुपया माँगा था और गायद वही बात याद करके वह पूछ रही है । उसने झल्लाकर कहा, “क्या तेरे माँगने से दिया है ?”

करुत्तम्मा यह नहीं कह सकती थी कि उसीके माँगने से परी ने रुपया दिया है । लेकिन वह जानती थी कि परी उसे प्यार करता है । उसने कहा, “मुझसे कुछ मत कहलवाओ अम्मा ।”

“हूँ ऊँ ! क्या कहलवाना है परी ?” जरा रुककर चक्की ने फिर कहा, “तू यहीं कहना चाहती है कि मैं ही उसके पास नाचती हुई दौड़ी गई रुपया माँगने के लिए ?”

“अम्मा, मुझे इतना उपदेश देकर उससे रुपया क्यों लिया ?

अब उसका कर्जदार होकर ।”

आगे कुछ कहने मे वह असमर्थ हो गई । उसका गला रुँध गया । चक्की का भी दिमाग जरा ठिकाने आ गया । करुत्तम्मा के कथन मे तथ्य था । थोड़ी देर के लिए चक्की को भी बुरा लगा । उसे लगा कि कुछ गलती हो गई है और खतरे की ओर कदम बढ़ा दिया गया है । उसने पूछा, “क्या है बेटी, क्या हो गया ?”

करुत्तम्मा रोती रहीं ।

“क्या वह यहाँ आया था बिटिया ?”

करुत्तम्मा ने एक भारी झूठ बोल दिया, “नहीं।”

“तब क्या है बिटिया ?”

“अगर आवे तो मुझे क्या करना चाहिए अम्मा ?”

चक्की ने अपने को निरपराध सावित करना चाहा ! उसका तर्क था कि यह नहीं सोचा गया था । परी से सहायता माँगी और उसने सहायता दी । लौटाने के खयाल से ही उससे रुपया लिया गया है । तो भी करुत्तम्मा का डर ठीक था । परी बदचलन नहीं था, इसका चक्की को पूरा भरोसा था । फिर भी उसकी उम्र तो कम ही थी । चक्की का मन एकाएक अशान्त हो गया । उस समय उसे लगा कि परी से रुपया नहीं लिया गया होता तो अच्छा होता । लेकिन चेम्पन को यह सब कहाँ मालूम था ।

उस दिन भी करुत्तम्मा की शादी की बात को लेकर चक्की ने पति को तग किया । उसने जोर देकर कहा कि वेलायुधन् से बाते करके देखना चाहिए । पहले यही काम होना चाहिए । नाव और जाल लेने के बारे में बाद में सोचना ठीक होगा । लेकिन चेम्पन इसके लिए तैयार नहीं था ।

उससे सब-कुछ खोलकर कैसे कहे ! उसने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, “अब तक तुम्हारे जाल और नाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के विचार से मैं टोकरियाँ भर-भरकर बेचने जाया करती थी । आगे इस आमदनी की आशा मत रखना !”

चेम्पन ने अलक्ष्य भाव से चक्की की ओर देखकर कहा, “बिना सोचे-विचारे ही तू क्या बोल रही है ?”

चक्की ने चिढ़कर कहा, “मैं ठीक ही बोल रही हूँ ।”

“क्या ?”

“मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है ।”

“माने ?”

“उसकी अब उम्र हो गई है । उसे घर पर अकेली छोड़कर कही जाने का मेरा मन नहीं है । नहीं तो बेटी की शादी करा दो ।”

चेम्पन चुप रहा, मानो उसकी समझ मे बात आ गई। चक्की बेचने जाने का काम नहीं करेगी तो बड़ा घाटा होगा, यह निश्चित था। उसने पूछा, “क्यों री, कोई गडबडी हो गई है?”

“नहीं, लेकिन हो जाय तो ?”

सावधान रहने की जरूरत तो थी ही। लेकिन चेम्पन का पूरा विश्वास था कि कहतम्मा सुशील है, उच्छृंखल नहीं है, अकेली रह जाने पर भी वह कोई गलती नहीं करेगी।”

चक्की ने पूछा, “गलती करने के लिए कितना समय चाहिए?”

चेम्पन ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन चक्की पूरब नहीं गई। चेम्पन ने भी जोर नहीं दिया।

उस रात को भी सूखी मछलियाँ लाने की बात थी। लेकिन इस बार चक्की ने विरोध किया, “हमें वह नहीं चाहिए।”

चेम्पन ने पूछा, “क्यों?”

“उस लड़के को क्यों धोखा दे रहे हो?”

“किसने कहा है कि धोखा दे रहा हूँ?”

“नहों तो क्या उसका रुपया लौटा दोगे?”

चेम्पन ने ‘हौं’ कह दिया।

कहतम्मा को लगा कि परी को बता देना चाहिए कि रुपया बापिस नहीं मिलेगा। वह गुप्त रूप से यह बात उसे बता देने के मौके की ताक में रही। लेकिन मौका नहीं मिला।

रात को परी कुछ बोरे ढोंद्र लाया और यिना किसी सकोच के चेम्पन ने सब उठाकर घर मे रख लिए। परी से यह भी नहीं कहा कि कब उसका रुपया लौटा देगा। कहतम्मा को लगा कि उसमे बाप के सामने भी बोलने की हिम्मत है। उसने माँ को ही इसमे ज्यादा कसूर बार समझा।

कहतम्मा को लगा कि सब दिन के लिए झुका देने वाला भार उठा लिया गया है।

चेम्पन के पास पूरे रुपये जमा हो गए। वह रुपया लेकर नाव और जाल खरीदने चला गया।

समुद्र-तट पर यह एक चर्चा का विषय हो गया। किसी ने कहा कि चेम्पन को कोई निधि मिल गई है। एक दिन जब वह समुद्र-तट पर गया तो उसे पथर के टुकड़े-जैसी कोई चीज मिली थी, जो वास्तव में सोने का एक ढेला था। इसरों ने असली बात का समर्थन किया कि उसने बड़ी होशियारी से बचा-बचाकर रुपया जमा किया है। लेकिन यह बात सबों के विश्वास करने योग्य नहीं थी। उनका कहना था कि सब लोग चेम्पन की तरह ही कमाने वाले हैं। जब उन्हे खर्च के बाद कुछ बचत नहीं होती, तब सिर्फ चेम्पन ही कैसे इतना बचा सकता था।

अच्छन चेम्पन की उम्र का था। चेम्पन के घर से सटा हुआ ही उत्तर में उसका घर था। दोनों बचपन के साथी थे। सब लोग अच्छन से सवाल करने लगे कि चेम्पन कितना रुपया लेकर गया है, कहाँ से इतना रुपया आया है, नाव और जाल आयगा तब कौन-कौन नई नाव में काम करेगे इत्यादि।

अच्छन को कुछ मालूम नहीं था। तब भी उसने जानकार होने का भाव प्रकट किया। चेम्पन का महत्त्व बढ़ रहा था, तब उसके दिली दोस्त का भी महत्त्व बढ़ना ही चाहिए। अच्छन ने अपनी समझ के अनुसार सब सवालों का जवाब दिया और अपना महत्त्व प्रकट किया।

कोच्चू वेलु ने एक सवाल पूछा, “भाई सुनने में आया है कि तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है। क्या यह बात ठीक है?”

यह सवाल अच्चन को पश्चीपेश में डालने वाला था। फिर भी वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, “‘है’, यह भी नहीं कह सकता और ‘नहीं’ है—यह भी नहीं कह सकता।”

अच्चन का भाव देखकर उसे बनाने के ख्याल से ही बेलू ने वह सवाल किया था। उसका जवाब सुनकर सब ठाकर हँस पडे। अच्चन शरमा गया।

एक होशियार आदमी ने पूछा, “तुम लोग हँस क्यों रहे हो जी? अच्चन चाहे तो अपने लिए नाव और जाल नहीं खरीद सकता? फिर हिस्तेदार क्यों बने?”

अच्चन को अपनी झेप से ही एक जवाब सूझ गया—“सब लोग नाव और जाल खरीदेंगे तो काम कौन करेगा?”

अपनी हँसी को रोकते हुए कोच्चवेलू ने कहा, “ठीक ही है। इसीलिए अच्चन भय्या नाव और जाल नहीं खरीदता।”

अच्चन की समझ मे अब वात आ गई कि साथी सब जान-बूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद जब कोई उससे चेम्पन की नाव और जाल के बारे मे पूछता तब वह उसे खूब फटकार देता। लोग, उससे तैश मे आकर डाट-फटकार सुनाते देखने के लिए, कुछ-न-कुछ पूछ लिया करते।

एक दिन मछुआरों की आमदनी कम हुई। अच्चन को तीन ही रुपये मिले। चाय वाले अहमद का पुराना कर्जा उस पर चला आता था। उस दिन अहमद ने उसे रोककर अपना पैसा वसूल कर लिया। इस तरह उस दिन उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा।

घर मे उस दिन रात को खाना बनाने का उपाय न देखकर नल्लम्मा उसकी राह देखती बैठी थी। पति-पत्नी मे खूब झगड़ा हुआ। नल्लम्मा की शिकायत थी कि पति जो भी कमाता है सो चाय या शराब मे खर्च कर देता है। अच्चन की सचाई पर उसे विश्वास नहीं था। शराब नहीं पी है यह प्रमाणित करने के लिए अच्चन ने पत्नी की नाक के पास जाकर अपना

मुँह खोलकर सुँधाया। फिर भी नल्लम्मा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, “जो कमाता है सो पूरा पीने में ही खर्च हो जाता है। तुम्हे होश-हवास नहीं है। कैसे जिन्दगी कटेगी?”

“अरी आज मैंने नहीं पी है? झूठ बोलती है?”

“आज नहीं पी तो क्या हुआ? जब कमाते हो तब पी ही लेते हों न।”

घर वाली ने घर-खर्च के लिए पैसा न होने के कारण शिकायत की थी। लेकिन अच्चन ने अधिकार पूर्वक डाट के साथ कहा “अरी, इस तरह बेअदबी से बोलती रहेगी?”

“बेअदबी? बचपन के साथी के पास अब अपनी नाव और जाल हो गए और तुम यहाँ खाने का खर्च भी नहीं जुटा पाते। इतना कहना बेअदबी की बात हो गई?”

इसका जवाब अच्चन ने बोलकर नहीं, बल्कि पत्नी की पीठ पर कस-कर दो थप्पड़ लगाकर दिया। उसकी कैसी दुर्गति हो रही थी! चेम्पन ने नाव और जाल खरीदा तो उसके लिए तट पर सबोने उसकी हँसी उड़ाई। घर पर भी उसकी बात को लेकर उसको परेशानी।।

“अरी, कोई नाव और जाल खरीदे तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कौन-सा प्रायशिच्छत करूँ? चेम्पन ने पेट काटकर पैसा जमा किया है। उस तरह मुझ्ही से क्या, यहाँ किसी और से भी नहीं हो सकता।”

चक्की और करूतम्मा अपने घर से यह ज़गड़ा सुन रही थी। चक्की ने पुकारकर कहा, “अच्चन भाई! हम लोग भूखे रहते थे तो एक जून भी तुम्हारे यहाँ माँगने नहीं गये?”

अच्चन चक्की की ओर धूमा—“बस, बस। चेम्पन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बचपन से ही जानता हूँ।”

“तुम क्या जानोगे! आज तुम्हारे यहाँ आग तक नहीं जलाई गई है न! यह तुम्हारे और तुम्हारी औरत के मन की बुराई का फल है।”

“औरत ने क्या किया है री? औरत के बारे में कुछ कहोगी तो . . . . हाँ आ . . . ,”—नल्लम्मा ने कहा।

“अरी कौन-सी बुराई है ?”—अच्चन ने चक्की से पूछा ।

“ईर्ष्या ।”

“किससे ? तुम्हारे मल्लाह से ?”

अपनी गहरी अवज्ञा प्रकट करने के लिए अच्चन ने खखारकर थूक दिया और कहा, “अरी उस घृणित आदमी से मर्दों को ईर्ष्या हो सकती है ?”

चक्की को गुस्सा भी चढ़ा, “अगर अट-शट बोलोगे तो—हाँ ।”

अच्चन ने पूछा, “क्या करोगी ?”

“पूछते हों, क्या करूँगी ।”

“अरी, चार पैसे पास मे हो गए तो इसीसे इतना घमण्ड ।”

झगड़ा बढ़ता देखकर करुत्तम्मा घवराई । उसने माँ का मुँह अपने हाथ से बन्द किया । अच्चन रुकता नहीं था । चक्की का भी दम फूल रहा था । करुत्तम्मा माँ को घर के भीतर खींच ले गई ।

जब गुस्सा जरा ठण्डा हुआ तब अच्चन ने ध्यान से एक-एक बात पर विचार किया । उस दिन घर मे खाना नहीं बना था । इसके भी उस झगडे ने उसे अधिक दुखी बना दिया । औरते कभी-कभी आपस मे भिड जाती थीं, लेकिन वह खुद उस दिन तक न तो चेम्पन से झगड़ा था, न चक्की से, आज वह भी हो गया, उसे रात को नीद नहीं आई ।

दूसरे दिन सबेरे समुद्र मे जाने के पहले उसने नाव बाले से दो रुपया उधार लेकर घर दे दिया । दोपहर को कमाई का अपना हिस्सा पूरा-का-पूरा लाकर नल्लम्मा के हाथ मे देते हुए वहा कि आगे से उसने ऐसा ही करने का निश्चय किया है ।

“अरी, सुन, जो कमाऊँगा सब लाकर दे दिया करूँगा । हिफाजत से रखा करना ! हम भी जरा देखे कि चार पैसा बचा सकते हैं कि नहीं ।”

यह विचार नल्लम्मा को बहुत पसन्द आया । उसने कहा, “तब तो अगर नाव और जाल न भी ले सके, शाम को भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा ।”

“कौन कहता है कि नाव और जाल नहीं ले सकेगे ? यह निश्चय

से कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम भी ले ले।”

नल्लम्मा को लगा कि अच्चन ठीक कहता है। कोशिश करने का उसका भी मन था। उसने कहा, “कल तक एक समान रहने वाले को देखा नहीं? अब वे बात भी नहीं करेगे।”

अच्चन को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, “तुम क्यों दूसरों के बारे में बोला करती हो? हमारे लिए अपना ही काम देखना काफी है।”

“नहीं, मैं तो यो ही कह रही थी। मालूम होता है कि चक्की अब बहुत घमण्डी हो गई है।”

अच्चन ने उपदेश दिया, “तुम अपना मुँह बन्द रखा करो तो बहुत अच्छा होगा।”

“मैं कुछ भी बोलने नहीं जाती।”

“हाँ वही अच्छा होगा, हम भी जरा देखे।”

नल्लम्मा को एक ही पछतावा रहा कि अच्चन को ऐसा पहले क्यों नहीं सूझा।

अच्चन ने हाथी भरी। नल्लम्मा ने ठीक ही कहा था। फिर भी मानो अपनी तसल्ली के लिए अच्चन ने कहा था, “अरी, मल्लाह को क्यों बचाकर रखना चाहिए? उसकी सम्पत्ति पश्चिम में फैली हुई पड़ी है। बाप-दादों का कहना था कि नाव और जाल धाट के सामूहिक काम के लिए है। लेकिन अब तो यह बात नहीं रही। कोशिश करने पर नाव और जाल कौन मल्लाह नहीं रख सकता?”

“फिर भी बचपन के साथी के पास अब नाव और जाल हो गया ना,” अच्चन ने कहा, “चेष्टन होशियार है। उसका यही लक्ष्य रहा है।”

फिर उसने हुकारी भरते हुए कहा, “देखूँगा।”

यह उसका निश्चय था।

शाम को जाल की मरम्मत करने के लिए उसे समुद्र पर जाना था। जाल के फटे रहने से उस दिन बहुत-सी मछलियाँ बाहर निकल गई थीं।

जब अच्चन तट पर पहुँचा तब बाकी सब पहुँच चुके थे और काम मे हाथ भी लगा चुके थे। वहाँ पर भी चेम्पन ही बातचीत का विषय था।

अच्चन ने कहा, “साथियों, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? दूसरों के बारे मे कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं तो बोलते जाओ! उसका पाप कटने दो!”

अच्चन ने पूछा, “तुम्हे इतना दुख क्यों होता है?”

अच्चन ने शान्त भाव से कहा, “कहो, मेरा कहना गलत है?”

रामन् मूप्पन न न्याय की एक बात उठाई “चेम्पन के बारे मे कुछ कहन का हमे अधिकार नहीं है?”

“कैसा अधिकार?”

रामन् मूप्पन को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, “सुनो भाई, कोई नौजवान इस तरह का सवाल करता तो समझ मे आ सकता था। तुम तो एक पुराने मल्लाह हो न!”

अच्चन की समझ मे बात नहीं आई। उसने सिर्फ दूसरों की बुराई न करने की बात कही थी। वह अच्छी ही बात तो थी। उसने पूछा, “क्यों, ऐसा तुमने क्यों कहा मूप्पन?”

डोरा नीचे रखते हुए मूप्पन ने कहा, “समुद्र-तट के कुछ कायदे-कानून भी हैं कि नहीं?”

अच्चन ने हामी भरी, “क्या चेम्पन पर वे लागू नहीं होते?”

अच्चन ने ठीक समझा नहीं कि किस बात को लेकर वे सब व्यग कर रहे हैं। रामन् मूप्पन ने सवाल खोल दिया, “इस घाट पर पुराने जमाने मे क्यों, हाल तक भी क्या बड़ी उमर हो जाने पर लड़कियाँ घर मे अविवाहित रहा करती थीं?”

अच्चन ने बात पूरी की, “घाट पर उन दिनों घटवार रहता था।”

मूप्पन ने आगे सवाल उठाया, “बयस्क लड़की जब घर मे है तब कौन नाव और जाल खरीदने की बात सोच सकता है?”

पुराने जमाने मे घटवार लड़कियों को ऐसे अविवाहित नहीं रहने

देता था। घाट के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। घटवार इस सम्बन्ध में हमेशा सावधान रहा करता था। उन नियमों का विशेष उद्देश्य था। वे मल्लाहों के कल्याण के लिए बने थे।

अच्चन ने पूछा, “नियम के अनुसार किस उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए ?”

बूढ़े मूप्पन ने कहा, “दस साल की उम्र में।”

वेल्लमण ली वेलायुधन् ने पूछा, “दस साल की उम्र में शादी नहीं हुई तो ?”

जानकारी के लिए यह सचाल नहीं पूछा गया था। उसकी ध्वनि में नियम के खिलाफ आवाज उठाने का भाव स्पष्ट था।

रामन् मूप्पन ने ही उसे जवाब दिया, “पूछते हो ‘नहीं हुई तो ?’ ऐसा तो होने नहीं दिया जाता था।”

वेलायुधन् ने आगे पूछा, “घटवार क्या करेगा ?”

“हुक्का-तम्बाकू बन्द कर देगा और फिर घटवार पर रहना भी नहीं हो सकेगा।”

एक-दूसरे नौजवान पुण्यन् ने कहा, “ये सब पुराने जमाने की बाते हैं।”

अच्चन ने गुस्से से कहा, “नहीं रे, आज भी वैसा ही होगा। तुम देखोगे। हाँ, दिखा देगे। अब चेम्पन को परेशान होकर इधर-उधर ढौँडते दिखा देगे।”

रामन् मूप्पन ने इसका समर्थन किया और आगे पूछा, “सबोंको नाव और जाल रखने का अधिकार है क्या ? अच्चन ?”

अच्चन ने जवाब दिया कि सब को अधिकार नहीं है। मूप्पन ने उस सचाल के जवाब को और भी स्पष्ट किया। समुद्र-माता की सन्तान तो अनमोल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी है। उनका हाथ भरा-पूरा रहना साधारण-सी बात है। तब सबमें नाव और जाल रखने की शक्ति है ही। लेकिन घाट पर जितने भी लोग हैं यदि वे सब नाव और जाल रखने ले गे

तो काम पर कौन जायगा ! उसने पूछा, “इस घाट पर कौन ऐसा है जो चाहे तो नाव और जाल नहीं खरीद सकता ?”

बात तो ठीक थी । पर अच्चन ने एक भारी सवाल पेश किया, “तब सबके पास नाव और जाल क्यों नहीं हैं ।”

इसका भी कारण था । मछुआरे पॉच जाति के हैं, अरथन, ‘जालवाला’, मछुआ, मरकान और एक पचम जाति । इन सबके ऊपर पूरब के बालन हैं । इनमें ‘जालवाले’ को ही नाव और जाल रखने का अधिकार है । पुराने जमाने में घटवार ‘जालवाले’ को ही नाव और जाल खरीदने की अनुमति देता था । वह तब भी, जब कि ‘जालवाला’ नजराना देता था ।

वेलायुधन् ने पूछा, “चेम्पन काका इनमें किस जाति के हैं ?”

पुण्यन् ने मुस्करा दिया ।

मूष्पन ने जवाब दिया, “मछुआरे ।”

पुण्यन् ने मुस्कराते हुए कहा, “हाँ, चेम्पन काका की जाति-पॉति तो अब यह पूछेगा ही ।”

अच्चन ने कारण पूछा । पुण्यन् ने कहा, “उस लड़की से शादी की बात उठी है । इसीसे ।”

अच्चन ने कहा, “अच्छा है । लड़की बड़ी अच्छी है ।”

अच्चन को अच्छा नहीं लगा । उसने कहा, “अच्चन को तो ऐसे भी चेम्पन का सब-कुछ अच्छा ही लगता है ।”

फिर उसने वेलायुधन् को एक चेतावनी दी, “उस कजूस से तो तुम्हे एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी । यह याद रखना । वह लड़की भी कम नहीं है ।”

अच्चन को गुस्सा आया । उसने कहा, “तुम क्या कह रहे हो जी ? लड़की की शादी तय होती है तो उसे तोड़ना चाहिए ? यही मछुआरे का काम है ?”

अच्चन ने कहा, “मैं सच्ची बात बता रहा था ।”

आण्टी ने, जो अब तक चुप था, एक सवाल पूछा और उससे बातचीत

का विषय बदल गया। उसने जानना चाहा कि 'जालवाले' के अलावा और भी किसी व्यक्ति ने नाव और जाल खरीदा था। उसे जवाब मिला कि ऐसा हुआ है, लेकिन खरीदार उसका बहुत दिन तक उपभोग नहीं कर सका। अच्छन ने पूछा कि प्रत्येक घाट पर 'जालवाले' के कौन-कौन परिवार हैं।

इसका जवाब रामन् मूर्पन ने दिया, "चेर्टला में पल्लिकुन्नम 'जालवाला', आलपुषा में पहत्तिकबल 'जालवाला' और यहाँ कुन्नल रामन् का परिवार। यह कम है।"

पुण्यन् ने सवाल किया कि जाल खरीदने के लिए घटवार को नजराने के तौर पर क्या दिया जाता है। उसका जवाब था, "तम्बाकू के चार पत्ते और पन्द्रह रुपये।"

इसके बाद घटवार के अधिकार और हक के बारे में बाते शुरू हुईं। घटवारों का अधिकार बहुत बड़ा था। उसका विरोध करने के भाव से वेलायुधन् ने पूछा, "अपना पैसा लगाकर जब आदमी नाव और जाल खरीदे तब भी घटवार को कुछ देना ही चाहिए?"

पुण्यन् ने जोड़ा, "देखो, देखो, यह चेम्पन काका का दामाद बन चुका है।"

अच्छन ने समर्थन करते हुए कहा, "घटवार को नजराना नहीं देगा तो नाव और जाल आने पर समुर-दामाद दोनों मिलकर घटवार का सामना भी तो करेंगे। उस समय देखा जायगा।"

यह एक चुनौती थी। चेम्पन जब नाव और जाल लायगा तब बिना घटवार की अनुमति के नाव कैसे समुद्र में जायगी, यह तो देखने ही लायक होगा। अच्छन ने स्पष्ट कह दिया कि यह नहीं हो सकता। वेलायुधन् ने उस चुनौती को स्वीकार करना चाहा। लेकिन किस अधिकार से करता। फिर भी उसने विरोध में कहा, "तुम लोगों को ईर्ष्या हो गई है?"

"मछुआरे को ईर्ष्या!"

"नहीं तो और क्या है?"

ऐसा लगते लगा कि यह बातचीत एक ज्ञागड़े का रूप धारण कर लेगी । अच्चन ने बीच मे पड़कर वेलायुधन् को चुप कराया । थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा ।

घाट पर जब इस तरह की अप्रत्याशित बाते हो रही थी तब चक्की घर मे दिवा-स्वप्न देख रही थी । जल्दी ही वह एक नाव के मालिक की स्त्री कहलायगी । जीवन की एक बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही थी । इसके लिए पति-पत्नी ने काफी परिश्रम किया था । पडोस की किसी भी स्त्री से वह देखने मे अच्छी थी, नाव का मालिक होने के बाद, करुत्तमा के लिए अभी जैसा लड़का मिल सकता था, उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है ।

माँ ने बेटी से कहा, “तेरे बाप की बड़ी-बड़ी अभिलापाएँ हैं । इस साल की आमदनी से जमीन और घर की व्यवस्था करेंगे । तब तेरी शादी करेंगे ।”

करुत्तमा को कुछ कहना नहीं था । चक्की ने अपने-आप ही आगे कहा, “समुद्र-माता की कृपा से किसी का कोई कर्जा नहीं है । आमदनी कम हो जाय तो भी यह तसल्ली रहेगी कि कोई तग करने वाला नहीं है ।”

चक्की का बोलना खत्म होने के पहले ही करुत्तमा न पूछा, “अम्मा, तुम्हीं कहती हों कि कोई कर्जा नहों है ।”

चक्की समझ गई कि परी के रूपयों का खयाल करके ही करुत्तमा ने सत्राल उठाया है । वह जरा झेप गई । फिर किसी तरह एक जवाब दिया, “नहीं, उसे एक कर्जे के रूप मे मानने की जरूरत नहीं है ।”

करुत्तमा ने जरा कड़ी आवाज मे पूछा, “जरूरत क्यों नहीं है ?”

“अरी, नहीं-नहीं, ऐसा नहीं । उसे तुरन्त नहीं भी चुकाये तो भी नाव और जाल कोई हड्डप नहीं सकता ।”

“ऐसा इसीलिए कहती हो न कि वह मोतलाली बड़ा सीधा-सादा आदमी है ?”

चक्की ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, “इसका क्या मतलब है री ?

जब भी तू छोटे मोतलाली का नाम लेती है, तेरी आवाज़ इतनी मोटी क्यों हो जाती है ?”

करुत्तम्मा ने कुछ नहीं कहा, माँ के प्रश्न से उसमे कोई भाव-परिवर्तन भी नहीं हुआ। चक्की ने आगे कहा, “अपनी मर्यादा के भीतर ही रह ! तभी तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं तो तेरा भाग्य जैसा है वैसा ही होगा।”

करुत्तम्मा जरा भी विचलित नहीं हुई। दृढ़ स्वर मे उसने पूछा, “अम्मा, मुझ ही मे मर्यादा की कमी है ?”

चक्की ने सवाल किया मानो उसने सुना ही नहीं “छोटा मोतलाली तेरा कौन है री ?”

करुत्तम्मा ने यह नहीं कहा कि वह उसका कोई नहीं है। फिर भी उसकी ओरें भर आईं।

करुत्तम्मा ने क्या गलती की थी ? कुछ भी तो नहीं। यह चक्की को भी मालूम है। आज तक उसने कोई गलती नहीं की। वह एक बहुत सुशील और सहनशील लड़की रही है। परी का कर्जदार बनना ठीक नहीं था। उसका रुपया लौटा देने की बात जो करुत्तम्मा करती है उसमे गलती ही क्या है ? फिर भी करुत्तम्मा के मन मे परी के प्रति प्रीति है। पहले ही शादी कराकर उसे भेज देना चाहिए था। लेकिन इसका मर्म बाप को कहाँ मालूम था ! .. . चक्की ने आगे कहा, “बिटिया, तेरे ही लिए तेरा बाप इतना कष्ट उठा रहा है। बिटिया मेरी, तू यह सब व्यथे न कर !”

करुत्तम्मा चुप रही। चक्की ने पूछा, “बेटी, एक बात पूछूँ ? सच-सच कहना ! तू उस विधर्मी से प्रेम करती है ?”

करुत्तम्मा ने जहाँ ‘नहीं’ कहना चाहिए वहाँ कुछ नहीं कहा। उसके निश्चित मौन ने माँ को डरा दिया। चक्की की मानसिक शान्ति भग हो गई। उसने विलाप करते हुए कहा, “हे भगवान्, उस महापापी ने मेरी बेटी को जाहू-टोने से वश मे कर लिया है, ऐसा लगता है।”

चक्की का मन यहाँ तक चला गया। करुतम्मा ने अपने हाथ से चक्की का मुँह बन्द करते हुए कहा, “यह कैसा पागलपन है अम्मा !”

चक्की ने कातर भाव से बेटों की ओर देखा और गिंदगिड़ाकर कहा, “बिटिया, माँ को धोखा न देना !”

इतना होने पर भी करुतम्मा ने यह नहीं कहा कि वह परी से प्रेम नहीं करती।

उस शाम को अच्छन चेम्पन के घर आया। घाट पर जो-जो बातें हुई थीं सब उसने चक्की को सुना दी। वहाँ लोगों ने गडबड़ों पैदा करने का निश्चय किया है। अच्छन और मूूपन उनमें मुख्य हैं। लौटने पर चेम्पन को सबसे पहले इस नये सकट से बचने का उपाय करना चाहिए। उसने आगे कहा, “हम दोनों बचपन के साथी हैं। यह सब सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता था।”

अब चक्की के मन की बच्ची-खुची शान्ति भी काफूर हो गई। घाट के किसी के खिलाफ ही जाने का क्या मतलब है, यह चक्की जानती थी। उसके मन में सवाल उठा :

‘इस तरह की सजा के लिए हमने क्या कसूर किया है ? क्या बेटी की शादी अभी तक नहीं की है—यही ?’

: ४ :

घाट चालो के प्रतिनिधि के तौर पर रामन् मूप्पन और अच्चन दो और आदमियों के साथ मुलाकात के लिए घटवार के पास गये। घाट की एक बड़ी अनिष्टकारी बात के सम्बन्ध में उन्हें शिकायत करनी थी। चेम्पन की बेटी बड़ी हो गई है; चेम्पन ने अभी तक उसकी शादी नहीं की और वह स्वतत्र रूप से घाट पर धूमती फिरती है। यहीं वह बड़ी शिकायत थी। घटवार ने सब बातें ध्यान से सुनी और कहा कि वह उचित कार्यवाही करेगा।

अच्चन को लगा कि शिकायत को सुनकर घटवार पूरा प्रभावित नहीं हुआ है। घटवार के जवाब देने के बाद भी सब वही खड़े रहे। घटवार ने पूछा, “अब क्यों खड़े हो ?”

अच्चन को कुछ और शिकायत करनी थी, “जब बेटी घाट का सर्वनाश करने पर तुली है तब बाप नाव और जाल खरीदने गया है।”

घटवार को यह बात नहीं मालूम थी। उसने पूछा, “इसके लिए उसके पास रुपया कहाँ से आया ?”

मूप्पन और अच्चन आदि को भी यह नहीं मालूम था। अच्चन ने सचिनय एक प्रश्न किया, “चेम्पन ‘मछुआ’ है। आपने उसे नाव और जाल खरीदने की अनुमति दी है क्या ?”

“नहीं तो। हमसे तो पूछा भी नहीं है।”

“हम घाट चाले क्या करे ?”

घटवार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, “वह सोचता होगा कि ज़माना अब बदल गया है।”

अच्चन ने हाथी भरी। घटवार ने अपना निर्णय सुनाया, “नाव और जाल लाने दो। उसमें काम पर कोई भी हमसे पूछे बिना न जाय।”

अच्चन ने कहा, “ऐसा ही हो गा।”

घटवार ने अपना विचार प्रकट किया, “लेकिन कुछ नौजवान लोग हैं, उनका कथा रुख होगा, मालूम नहीं।”

अच्चन के मन में उस समय वेलायुधन् का ख्याल आया। घटवार के लिए यह कोई बड़ा सबाल नहीं था। क्योंकि वह जानता था कि खुल्लम-खुल्ला उसका विरोध करने की हम्मत किसी को नहीं हो सकती। उसने कहा, “अच्छा, इसका उपाय मैं स्वयं करूँगा। तुम लोग सब घाट वालों को सूचना-मात्र दे देना कि नाव और जाल खरीदने की अनुमति मैंने नहीं दी है।”

मूष्पन और अच्चन की अपनी जीत हो गई—ऐसा भाव लेकर मूष्पन और अच्चन लौट आए। घर-घर जाकर उन्होंने घटवार की सूचना सबको दे दी। अच्चन का ख्याल था कि सिर्फ वेलायुधन् ही घटवार की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और उसका फल भोगेगा।

चक्की को सब बात मालूम हो गई।

घाट वालों के क्रोध का पात्र बनने से घर डुबा देने की कहानी उसने सुनी थी। रातो-रात परिवार-के-परिवार घाट छोड़कर भाग भी गये हैं। इस तरह घाट छोड़कर आने वाले दूसरी जगह जाकर मछुआरे के रूप में जम जायें और अपनी जोविका चलायें, ऐसा नहीं हो सकता था। वे जहाँ कहीं भी जायें सामाजिक नियमों का प्रतिबन्ध लगा ही रहता था। इसलिए ऐसे लोग साधारणतः अपना धर्म-परिवर्तन कर लेते थे। अब उस नियम का बन्धन ज़रा ढीला पड़ गया है। जमाना ही बदल गया है न! किर भी अगर घटवार हुक्म दे तो आज भी कोई काम पर नहीं जायगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जन्म-मरण आदि के अवसरों पर कोई घर में न आय। इस तरह की रोक-थाम की बाते आज भी हो सकती हैं। नाव और जाल लेने के लिए जाने के पहले नजराना

देकर अनुमति ले लेना आवश्यक था ।

उन लोगों ने किसका क्या बिगड़ा है ? घाट पर सब जगह घटवार के प्रतिबन्ध के बारे में चर्चा होने लगी । स्त्रियों के बीच यह बात उठी कि वयस्क लड़की का ब्याह लोग नहीं करा रहे हैं, यहीं उनका बड़ा अपराध है । कर्त्तम्मा को अपने जीवन से विरक्ति हो गई । उसको लगा कि उसके कारण माँ-बाप को क्या-क्या परेशानी उठानी पड़ रही है । लड़की होकर जन्म लेना उसके बश की बात तो थी नहीं, घाट की पवित्रता को भी उसने नष्ट नहीं किया है । उसके अविचाहित रहने से किसका क्या बिगड़ता है ? लेकिन इस तरह का तर्क किसी को भी मान्य नहीं हो सकता था ।

माँ-बेटी दोनों बड़ी आतुरता से चैम्पन के आने की प्रतीक्षा करने लगी । काली के घर में चार-पाँच स्त्रियाँ बैठकर बाते कर रही थीं । बात उन्हीं लोगों के बारे में थी । चक्की छिपकर उनकी बाते सुन रही थीं । एक ने कहा कि परी का कर्त्तम्मा से सम्बन्ध है, उसने उन दोनों को नाब की आड़ में आपस में हँसते-बोलते देखा है, इसी कारण माँ-बाप उसका ब्याह नहीं करा रहे हैं ।

आदमी सब-कुछ सह सकता है । लेकिन एक माँ अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बाते कभी वर्दाश्त नहीं कर सकती । चक्की आड में से एक गुस्सामरे चीते की तरह उन लोगों के बीच में कूद पड़ी । जगड़ा बढ़ गया ।

किसी ने कहा कि जवानी में चक्की ने खुद घाट की पवित्रता नष्ट की थी । चक्की ने काली के एक बच्चे के असली पिता का नाम पूछा और कहा कि उसे मालूम है कि उसका जन्म-दाता वह मोतलाली है, जो उन दिनों सूखी मछली बेचने के लिए घर-घर घूमा करता था । वहाँ जितनी औरते थीं उनकी और उनकी माताओं की, सबकी अलग-अलग कहानी सुनाई गई ।

चक्की, तथा वाकी औरतों के बीच एक वाक्-युद्ध छिड़ गया, चक्की

अकेली ही बाकी सबसे जूँझ रही थी ।

धेरे के पास खड़ी करूतमा ने सब-कुछ सुना । वे सब बाते सुनकर वह स्तम्भित रह गई । उसकी माँ ने भी जवानी में किसी से प्रेम किया है क्या ? क्या यह सम्भव है कि इन सबोने धाट की पवित्रता नष्ट की । है ? तो क्या धाट की पवित्रता का तत्व-ज्ञान एक निरर्थक बात ही है ? इन सबोंके बारे में ऐसी कहानियों के रहते हुए भी समुद्र पहले की तरह आज भी पश्चिम में लहरा रहा है, आज भी इसमें पहले की तरह ज्वार-भटे आते हैं, मछुआरों की आमदनी भी वैसी ही होती है, उनका जीवन-क्रम भी पहले ही-जैसा चलता है । तब इस पवित्रता की कहानी का क्या मतलब है ?

झगड़ा बढ़ते-बढ़ते करूतमा के बारे में ही बाते होने लगी । करूतमा को अपने कान बन्द कर लेने पड़े । कैसी-कैसी झूठी बाते कही जा रही थी ! परी ने उसे रखैल बना रखा है, इस जगी धोड़े पर मोतलाली ही लगाम कस सकता है, आमदनी कम हो जाने के डर से उसकी शादी कराकर नहीं भेज रहे हैं, आदि-आदि ।

तब तो माँ के बारे में उन औरतों ने जो कहा है और उनके बारे में माँ ने जो-जो कहा है सब झूठ ही होगा ।

चक्की की बातों का जवाब देना मुश्किल पाकर काली ने कहा, “देखती रहो, तुम लोगों का क्या होने जा रहा है ! घटवार ने तय कर लिया है ।”

चक्की चुप नहीं हुई । मुकाबला करने का भाव बढ़ता ही गया, सबोंका मुकाबला करने का भाव । उसने कहा, “क्या तय किया है री ? घटवार क्या करने जा रहा है ?”

पेणम्मा ने कहा, “मर्यादा त्यागकर काम करने वालों के साथ क्या करना चाहिए, यह घटवार को मालूम है ।”

चक्की ने दृढ़ता के साथ कहा, “क्या करेगा घटवार ? हम इस्लाम अपना लेंगे । नहीं तो ईसाई ही जायेंगे । तब वह क्या करेगा ?”

एक ने कहा, “हूँ ऊँ ! ! अब बात मुँह से निकल ही तो गई । तो सोच-विचार करके ही विटिया को मुसलमान छोकरे के साथ छोड़ दिया है ! ”

एक दूसरी ने कहा, “माँ-बेटी दोनों के लिए वही अच्छा होगा ।” चक्की ने पूछा, “अरी, इसमें बुराई ही क्या है ? ”

करुत्तम्मा को ऐसी घबराहट हुई जैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी । कोई दर्द हुआ ? — दर्द नहीं कहा जा सकता । — कोई गहरी खुशी ? — यह भी नहीं कहा जा सकता । एक मर्म वेदना के साथ करुत्तम्मा ने माँ को पुकारा । उसकी आवाज़ में एक घबराहट थी । चक्की चली आई ।

घर में आने पर चक्की बोलती रही । करुत्तम्मा न जाने क्या-क्या पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई । ‘इस्लाम अपना लेगे’—ये शब्द उसके कानों में गूँज रहे थे । उसकी शिराएँ गरम हो गई । कैसी असह्य गरमी उसे मालूम हो रही थी ।

यह स्वाभाविक ही था । उसका हृदय अपहृत हो चुका था । आदर्श जीवन के लिए बनाये गए सदाचार, निष्ठा और विश्वास के दुखदायी तथा खतरो से भरे किले के भीतर वह जी रही थी, उसे अब बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगा । एक निश्चय की ही ज़रूरत थी । उसके बाद सब ठीक हो जायगा ।

इस्लाम धर्म अपना लेना ! तब वह कैसी लगेगी ! कुर्ता और गोटेदार कपड़ा पहने, कान को ऊपर से नीचे तक छिदवाकर उसमें सोने की ‘रिंग’ ढाले और सिर को कपड़े से ढके जब वह परी के पास जायगी तब उसे कितनी खुशी होगी । तब तो परी को उसके साथ पूरी आजादी होगी । अपने बन्धन के कारण, जिसे वह पूर्ण रूप से नहीं समझ रही थी वरन् महसूस कर रही थी, उसके बाहर निकलने का वह रास्ता था । मछुआरे की पत्नी होकर रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी । यदि उस समय परी आ जाता तो वह कह भी देती कि उसके घर वाले इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं । सुनकर परी के आनन्द की सीमा न रहती ।

लेकिन माँ ने क्या वास्तव मे सोचकर ऐसा कहा था ? उस समय गुस्से मे कहा होगा । ‘क्या सचमुच इस्लाम अपनाने का विचार है क्या’— यह सबाल पूछने मे ही उसे डर लगा । पूछने पर माँ सोचेगी कि वह अपनी इच्छा ही प्रकट कर रही है । करत्तम्मा इस तरह के विचार मे डूबी रही ।

घटवार के यहाँ से तीन-चार आदमी आये । पर चेम्पन अभी तक नहीं लौटा था । चार-पाँच दिन के बाद घाट पर चेम्पन की नाव आ गई । जाल भी था । पल्लिकुन्नम ‘जालवाला’ कण्डनकोरन की वह नाव थी । एक दिन वह नाव बहुत ही मशहूर थी । अब थोड़ी पुरानी-सी हो गई है । बस, इतना ही ।

इस घाट वालो ने भी उस नाव को चेतला घाट पर अजेय होकर चलते देखा था । पुरानी होने पर भी कण्डनकोरन ने इसे कैसे बेच दिया, यही आश्चर्य की बात थी । हाँ, उसकी स्थिति ज़रा बिगड़ी हुई ज़रूर थी । वह था भी बड़ा शानियल और ज़रा फिजूलखर्च ।

सबने आकर नाव को देखा । किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा । फिर भी चेम्पन को एक ऐसी अच्छी ऐश्वर्यशालिनी नाव मिली है, यह खयाल सबके मन मे पैदा हुआ ।

अच्चन ने साथियो से कहा, “पल्लिकुन्नम का ऐश्वर्य इस नाव के साथ चेम्पन के पास चला आया ।”

अच्चन ने उसे फटकारा, “उस खानदानी का ऐश्वर्य इस मछुआरे को कहाँ से मिलेगा जी ! उसका सौने का-सा रग ! ताँद के ऊपर सफेद-स्वच्छ कपड़ा पहने और काली किनारी की भहीन चादर कन्धे पर लटकाये, नाव किनारे लगते समय उस तट पर आकर उसका खड़ा होना ! — उसमे और चेम्पन मे क्या समानता हो सकती है ।”

मूप्पन ने भी अपनी राय प्रकट की, “तब तो पतली-दुबली काली चक्की भी कण्डनकोरन की घर वाली के बराबर हो जायगी ! क्या तुमने कण्डनकोरन की घर वाली को देखा है ?”

“हाँ, हाँ, उसका चेहरा देखते ही आँखे चौंधिया जाती है ।”

घर पहुँचते ही चेम्पन को बड़ा धक्का लगा। वह बड़ा उत्साह लेकर लौटा था। उस नाव का मिलना, एक बड़ा भाग्य था। पलिकुञ्जम कण्डनकोरन के यहाँ वह कैसे गया, कैसे वहाँ खाना खाया—आदि-आदि बाते उसे चक्की को सुनानी थी। कोरन की पत्नी के बारे में भी उसे कहना था। ये सब बाते मन में सोचता हुआ वह लौटा था, लेकिन घर लौटते ही उसे एकाएक एक धक्का लगा।

इसके पहले कभी भी उसे इस तरह का बोझीलापन नहीं मालूम हुआ था। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, जो आज सफलीभूत हो गया। लेकिन अब काम आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगने लगा।

नाव और जाल खरीदने के पहले वह घटवार से नहीं मिला, यही उसका सब से बड़ा अपराध था। बात ठीक भी थी। उसने पुराने जमाने से चले आने वाले रिवाज का उल्लंघन किया था। कितनी मुश्किल से उसने नाव और जाल के लिए रुपये जुटाये। अब ऊपर से .  
पन्द्रह-बीस रुपये और खर्च के लिए प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा ही नहीं कि यह इतनी भारी गलती मानी जायगी।

निस्सहाय भाव से उसने अपनी पत्नी से पूछा, “हमने दूसरो का क्या बिगाड़ा है री ?”

चक्की ने जवाब दिया, “कुछ बिगाड़ने की आवश्यकता है ? ईर्ष्या है, ईर्ष्या !”

“यह ठीक है। लेकिन बीस-पच्चीस रुपये का उपाय हो जाय तो सब ठीक ही जायगा। क्या किया जाय ? नाव पर भी थोड़ा और खर्च करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ एक ही जाल है।”

चेम्पन ने एक-एक करके सब जरूरते बतलाइं। चक्की को नहीं बतलाता तो किसको बतलाता ! सुनने के लिए और कौन था ? लेकिन चक्की ने सान्त्वना देने के बदले पूछा, “तब क्यों बेकार ही यह झक्कट सिर पर उठा लिया ?”

चेम्पन ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी लगा होगा कि उसने अपनी

शक्ति के बाहर बोक्सा उठा लिया है। पैसा सब खत्म हो चुका था। लोग भी खिलाफ हो गए।

चक्की ने कहा, “पास में जो पैसा था उससे बेटी की शादी ही करा दी होती तो कम-से-कम यह हालत तो न होती !”

चेम्पन ने इसका भी जवाब नहीं दिया। बड़ी अभिलाषाएँ होने से शान्ति नहीं रहती क्या? क्या इसके यही मानी है कि आदमी जितना है उसीमें निभाता जाय!

असल में वह दिन खुशी मनाने का था जब कि जीवन की उसकी एक बड़ी अभिलाषा पूरी हुई थी। ले किन उसका घर उस दिन उदासी में ढूबा हुआ था।

काफी रात होन पर चेम्पन ने पत्नी से कहा, “पेतीस रुपये हो जायें तो सब काम बन जायगा।”

चक्की ने पूछा, “कैसे?”

चेम्पन ने सुनाया, “कल घटवार से जाकर मिलूँगा। तब सब ठीक हो जायगा।”

“मछली का जाल और सहारे का जाल?”

“सब-कुछ हो जायगा।”

चक्की ने बाँस की नली में बन्द करके जमीन में गाड़कर जो रुपया बचा रखा था उसे भी वह निकालकर दे चुकी थी। इस तरह उसकी छोटी पूँजी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके लिए उसने चेम्पन को द्वाषी ठहराया।

उसने कहा, “देखा, अभी कैसी मुसीबत में फँस गए हो! एक रस्ती सोने का भी कुछ बनवाकर रख लिया होता तो! मैं जब-जब कहती थीं तब तो तुम कान ही नहीं देते थे।”

चेम्पन ने मान लिया और आगे कहा, “एक ही रास्ता है चक्की!”

“कौन-सा?”

कहने मेरा मानो चेम्पन को सकोच हो रहा था। चक्की ने अपना सवाल दुहराया। चेम्पन ने कहा, “उसी छोकरे को पकड़ने से काम बनेगा।”

चक्की ने चेम्पन का मुँह बन्द कर दिया। उसको मालूम नहीं था कि करत्तम्मा सोई हुई है या जागी है। पत्नी का हाथ हटाते हुए चेम्पन ने कहा, “क्या है री?”

“धीरे से बोलो।”

“ऊँ!—क्या है?”

इसमे जो बात थी वह चेम्पन को मालूम नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी पिता को ऐसी बाते मालूम नहीं होने देनी चाहिए। फिर भी कुछ जवाब देना तो ज़रूरी था। चेम्पन ने सवाल दुहराया। चक्की ने उसके कान मेरा कहा, “करत्तम्मा कहती है कि इससे अपमान होता है। उसे मालूम हो जायगा तो वह लड़ पड़ेगी।”

“इसके अलावा और कौन-सा रास्ता है?”

“मैं भी वही सोच रही हूँ।”

थोड़ी देर बाद चेम्पन ने पूछा, “वह होगा वहाँ?”

“होगा।”

“मैं जरा जाकर देख आता हूँ।”

चक्की ने कुछ नहीं कहा। चेम्पन दरवाजा खोलकर बाहर चला गया।

करत्तम्मा सोई हुई थी। उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेम्पन लौट आया। वह प्रसन्न था। उसे देखते ही मालूम होता था कि काम हो गया है।

“बड़ा भोला-भाला लड़का है वह। बहुत अच्छा उसका स्वभाव है। उसके पास तीस रुपये थे। उसने निकालकर दे दिए।”

चिन्ता दूर हो जाने पर भी चक्की के मन में एक कसक रह गई। क्या उसकी उदारता बिलकुल निरहेश्य है? जब-जब माँगा गया तब-तब उसने बिना कुछ कहे ही रुपया क्यों दे दिया?—यह एक बड़ा सवाल

था । लगता है करुत्तमा के कारण ही उसने ऐसा किया है ।

दूसरे दिन चेम्पन घटवार से मिलने गया । घटवार ने पहले उसे बहुत डाटा । लेकिन बाद मे वह शान्त हो गया । उसने आदेश दिया कि लड़की का व्याह जल्दी-से-जल्दी हो जाना चाहिए । नाव को आमदनी का उसका हिस्सा भी रोजाना अपने पास पहुँचा देने को उसने कहा । चेम्पन ने घाट वालों की ईर्ष्या की शिकायत की । घटवार ने उसका उपाय करने का आश्वासन दिया ।

इस तरह उस समय वायु-मडल शान्त हो गया । पूर्ण सजावट और शान-शौकत के साथ नाव को उतारने मे पाँच सौ रुपये का सर्व था । वह भी करना तय हुआ ।

“कैसे होगा ?”—यह सबाल चक्की ने किया ।

चेम्पन ने कहा, “परी से ही यह भी लेना होगा ।”

चक्की स्तब्ध रह गई । करुत्तमा के जाने बिना दोनों मे लडाई हो गई । पति के अधिकार के साथ चेम्पन ने हुक्म दिया, “तुमको माँगना होगा ।”

“मुझसे नहीं होगा ।”

“तो नाव पड़ी रहेगी ।”

“पड़ी रहने दो !”

लेकिन चक्की को यह पसन्द नहीं आया कि नाव ऐसे ही पड़ी रहे । चेम्पन की बात से चक्की को लगा कि वह आगे स्वयं कुछ नहीं करेगा । चेम्पन भी चाहता था कि चक्की ऐसा महसूस करे । चक्की ने पूछा, “अच्छा, ये सब रुपये उसे लौटा दोगे न ?”

चेम्पन ने सूद सहित लौटा देने का निश्चय प्रकट किया ।

इस तरह इस बार चक्की ने खुद जाकर माँगा । रात को परी के डेरे मे सूखी मछली की बिक्री हुई । चेम्पन की नाव की सजावट और सब तैयारियाँ पूरी हो गईं ।

सब-कुछ ठीक हो गया । काम पर जाने वालों को निश्चित करने का

समय आया। घटवारने पुराने मछुआरो को बुलाकर सब इत्तज्जाम कर दिया। घाट वालो का विरोध वास्तव मे नहीं के बराबर था। नाव को देखते ही सबके मन मे उस पर काम के लिए जाने की इच्छा हुई थी। अच्चन ने आशा की थी कि चेम्पन उससे राय लेगा और उसे काम के लिए बुलायगा। इस बात को लेकर उसके घर मे एक झगड़ा भी हो गया था। ज़रूरत पड़ने पर वह घटवार के खिलाफ भी खड़ा होने को तैयार था। बचपन से ही दोनो साथी थे न। लेकिन दो-तीन बार मिलने पर भी चेम्पन ने उससे कुछ नहीं कहा। घाटवालो मे से चेम्पन ने जिन्होंना बारह व्यक्तियों को चुना था उनमे अच्चन नहीं था।

नाव उतारने के प्रथम दिन एक भोज देने की प्रथा है। भोज का सब सामान चेम्पन ने हसन दुकानदार से उधार लिया। काक्काषात्त और पुन्नप्रा गाँवो मे रहने वाले बन्धुजनो को निमब्रण देना था। इसके लिए चेम्पन ने करुत्तम्मा को भेजा।

करुत्तम्मा विचास्मन अवस्था मे समुद्र-तट पर चली जा रही थी कि अचानक “मछली हमारे हाथ बेचोगी ?” यह छोटा-सा सचाल सुनकर चौक पड़ी।

परी सामने खड़ा था। कहाँ से आया, कौन जाने। करुत्तम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब पुरानी करुत्तम्मा नहीं रही। वह सिर झुकाये खड़ी थी।

परी ने पूछा, “तुमने मुझसे कुट्टी कर ली है क्या करुत्तम्मा ?”

करुत्तम्मा ने जवाब नहीं दिया। उसका हृदय इस तरह धक्क-धक्क करने लगा, मानो फट जायगा।

“पसन्द न हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा।”

वास्तव मे उसे बहुत कुछ पूछना था। ‘इस्लाम को अपनावे ?’— यहाँ तक पूछना था।

वह किनारे लगी नाव की आँड़ में कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। उस समय परी उसके उन्नत वक्ष को देख रहा था। उसने अब परी को

वसा करने से मना नहीं किया। सिर उठाकर उसने पूछा,  
“मोतलाली ! मैं जाऊँ ?”

क्या जाने के लिए उसे परी की अनुमति की चाहरत थी ? क्या वह  
जा नहीं सकती थी ?

एकाएक करूत्तमा ने डरकर कहा, “ओह, कोई देख लेगा !”

अब वह आगे बढ़ी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे पीछे से उसका  
नाम लेकर पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस पुकार में एक विशेषता  
थी, जिसका अनुभव उसके पहले न उसके कान को हुआ था, न हृदय को।

काँटे में फँसी मछली की तरह वह खड़ी हो गई। उसने प्रतीक्षा  
की होगी कि परी उसकी ओर आयगा। लेकिन परी नहीं आया।

कितनी देर तक दोनों एक-दूसरे को देखते खड़े रहे। इसका खयाल  
उन्हें नहीं रहा। करूत्तमा के मन में कथा-कथा विचार उठे  
होगे।

समुद्र में न तूफान उठा, न आँधी आई। उल्टे ऐसा लगा कि समुद्र-  
माता भन्द पवन के सहारे लहरों में हिलोरे पैदा करते हुए उनके बुलबुलों  
के ऊपर सफेद फेनों के जरिये मुस्करा रही हों।

क्या इस तरह का प्रेम-नाटक उस समद्र-तट पर इसके पहले भी नहीं  
खेला गया था ?

परी को जो कुछ कहना था, पूछना था, सब एक प्रश्न के रूप में  
मुखरित हो उठा, “तुम मुझसे प्रेम करती हो करूत्तमा ?”

विना सोचे-समझे करूत्तमा ने जवाब दिया, “हाँ।”

आतुरता पूर्वक एक और सवाल परी ने पूछा, “क्या सिर्फ़ मुझसे  
ही प्रेम करती हो ?”

परी को तुरन्त उसका भी जवाब मिल गया, “हाँ सिर्फ़ तुमसे ही।”

करूत्तमा को उसकी अपनी ही आवाज़ ने एक मेघ-गर्जन की तरह  
चौंका दिया। शायद अब उसे होश भी आ गया और उसे अपने शब्दों का  
अर्थ भी स्पष्ट हो गया। उसको लगा कि उसके शब्द सामने मूर्तिमान

होकर उसे फटकार रहे हैं ।

उसने परी की ओर सिर उठाया । आँखे चार हो गईं । जो-कुछ कहना था, सब-कुछ कहा जा चुका था । हृदय की बात हृदय ने जान ली । करुत्तमा आगे चल दी ।

: ५ :

दूसरे दिन सुबह तीन बजे हीं सब लोग घाट पर एकत्रित हुए। उस दिन चेम्पन की नाव को उतारना था। जब कोई नई नाव निकाली जाती है तब वह सब नावों के साथ एक ही साथ निकलती है। चक्की, करत्तम्मा, पचमी सब समुद्र-तट पर पहुँची। थोड़ी दूर पर परी भी था। पचमी ने करत्तम्मा का ध्यान परी की ओर आकृष्ट किया और करत्तम्मा ने पचमी को चुटकी काटी।

देरी करने वालों को रामन् मूप्पन ने आवाज देकर बुलाया। अच्चन उन सबों पर बिगड़ा, “नई नाव निकालनी है यह जानते हुए भी इतनी देरी क्यों करते हो ?”

चेम्पन की नाव मे काम करने वाले तैयार होकर आगे बढ़े। किसी ने वह गाना गाया जो परी गाया करता था। वह करत्तम्मा के दिल मे एक दर्द पैदा करने वाला गाना था।

पूरब दिशा मे चाँद नारियल के पेड़ों के ऊपर से झाँकता-सा दिखाई पड़ रहा था, वह मानो चेम्पन की नाव के उतरने का दृश्य देख रहा हो। समुद्र-माता प्रसन्न दिखती थी। नावों को धेरकर सब लोग खड़े हीं गए। चेम्पन की नाव को सबसे पहले निकलना था। अच्चन ने मगल-ध्वनि<sup>१</sup> की और बाकी लोगों ने उसे दुहराकर साथ दिया। समुद्र-तट मगल-निनाद से गूँज उठा।

<sup>१</sup> शुभ कार्य के अवसर में केरल में पुरुष लोग मुँह से एक हर्ष-सूचक ध्वनि निकालते हैं, जिसे मलयालम में ‘आपु’ कहा जाता है।

मूप्पन ने कहा “चेम्पा ! पतवार थामो !”

चेम्पन ने पतवार थामी और उसे सिर से लगाकर अपने इष्ट देवताओं का ध्यान किया। सबोने मिलकर नाव को ठेला। नाव समुद्र में चली गई। चक्की और कर्त्तम्मा दोनों ने हाथ जोड़कर ध्यान लगाया। दोनों ने जड़ आँखे खोली तब उन्होंने नाव को तरगों की चोटियों और खाइयों से होकर चढ़ते-उतरते पश्चिम की ओर अग्रसर होते देखा।

इसमें भी लक्षण देखे जाते हैं, रामन् मूप्पन और अच्चन दोनों लक्षण देखने के लिए किनारे पर खड़े-खड़े गौर से निहार रहे थे। मूप्पन ने कहा, “कैसा है अच्चा ?”

“बजन पश्चिम की ओर है न ?”

“हाँ। और झुकाव दक्षिण की ओर है।”

चक्की उत्सुकता से फल जानने के लिए उनके पास आई, उसने पूछा, “बताओ अच्चन भाई, लक्षण कैसा है ?”

अच्चन ने एक जानकार की गम्भीरता के साथ कहा, “अच्छा है री ! कभी अभाव का अनुभव नहीं होगा !”

चक्की ने अतीव भक्ति के साथ उस समय भी हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमती समुद्र-माता का नाम लिया। नाव सफलता के दृढ़ विश्वास के साथ समुद्र में आगे बढ़ती गई।

कर्त्तम्मा ने कहा, “हमारी नाव की एक शान है। है न अम्मा ?”

देखते-देखते ही चक्की ने कहा, “इसकी चाल ही कितनी सुन्दर है !”

अच्चन ने कहा, “यह कहने की बात है बहन ! तुम लोगों को अब यह मिल गई है सही, लेकिन है किसकी ? पल्लिकुञ्जम कण्डनकोरन की। इसके समान अच्छे लक्षणों वाली कोई नाव है इस समुद्र-टट पर ? कण्डनकोरन का सब-कुछ वैसा ही है। उसकी स्त्री है तपे हुए सोने के समान ! उस-जैसी स्त्री मछुआरों में है ही नहीं। इतनी सुन्दर है वह ! और घर ? सब-कुछ ऐसा ही है। नाव अब तुम लोगों को मिल गई है, यह एक सयोग की ही बात है, बहन !”

बाकी सब नावों को भी पानी में उतार दिया गया ।

तट पर माँ, बच्चे और परी रह गए । ठण्डी हवा से परी को ठण्ड लगने लगी । नावे सब बीच समुद्र में फैल गईं और जाल फेंके जाने लगे ।

परी धीरे-धीरे चक्की के पास आया । करुत्तमा माँ की आड़ में पीछे हट गई । पचमी परी की ओर गौर से देखती रही ।

परी ने बदस्तूर अपना सवाल किया । इस बार सवाल माँ से किया गया । इतना ही फर्क था । मजाक में या असलियत में, उसे वही एक सवाल पूछना था, “भछली हमारे हाथ बेचोगी न ?”

चक्की ने कहा, “नहीं तो और किसको बेचेंगे ?”

परी के उस सवाल का असली आशय चक्की की समझ में नहीं आया । समझ में आयगा भी नहीं । वह सिर्फ उतना ही बड़ा सवाल था क्या ? उसमें चिचारो का एक समुद्र नहीं छिपा था ?

माँ को आड़ में खड़ी करुत्तमा ने कहा, “अम्मा, मुझे जाड़ा लग रहा है ।”

उस दिन नाव समुद्र में उतारी गई । चक्की एक बात कहे बिना वहाँ से नहीं जा सकती थी ।

“बेटा, तुम्हारे ही कारण आज यह नाव समुद्र में उतर सकी । नहीं तो यह कभी सम्भव नहो होता ।”

परी ने कुछ जबाब नहीं दिया । माँ ने कम-से-कम इतना तो कह दिया । यह करुत्तमा के लिए बड़े सन्तोष की बात थी । इस तरह उसका आभार तो मान लिया ।

चक्की ने आगे कहा, “‘चाकरा’<sup>१</sup> खतम होने पर रुपये लौटा देगे ।”

<sup>१</sup> चाकरा=जून में वर्षा छहतु के शुरू होने पर समुद्र में उथल-पुथल मच जाती है और जल की सतह से पाँच फीट नीचे तीन-चार मील लम्बे-चौड़े क्षेत्र में मिट्टी की तह जम जाती है । उसे ‘चाकरा’ कहते हैं । मिट्टी की उस तह पर समुद्र शान्त हो जाता है और मछलियों की

“नहीं। मुझे नहीं चाहिए तो ?”

“नहीं चाहिए ? क्यों ?”

परी ने कहा, “लौटा देने के लिए मैंने नहीं दिया है।”

चक्की की समझ में कुछ नहीं आया। करुत्तम्मा ने समझा। इतना ही नहीं, उसका सारा शरीर पसीना-पसीना हो गया। चक्की के मन में भी एक डर पैदा हो गया। उसने पूछा, “ऐस, क्यों बेटा ?”

परी ने निश्चय के साथ कहा, “नहीं वह लोटाने की जरूरत नहीं है।”

एक क्षण बाद परी ने आगे कहा, “करुत्तम्मा ने एक नाव और जाल खरीदने के लिए रुपया माँगा था। मैंने दिया। वह मुझे वापिस नहीं चाहिए।”

करुत्तम्मा की आँखों के सामने अँधेरा छा गया। सिर में चक्कर-मा आ गया। चक्की ने जरा कठोर स्वर में पूछा, “अरे, तुम करुत्तम्मा को क्यों पैसा दोगे ? वह तुम्हारी कौन होती है ?” उसने आगे और कठोर स्वर में कहा, “ऐसा नहीं हो सकता। यह सब नहीं चाहिए। सब रुपये तुम्हें वापिस लेने ही होंगे।”

परी समझ गया कि चक्की गुस्से में आकर बोल रही है। उसने कुछ नहीं कहा। चक्की ने एक माँ की तरह उपदेश देते हुए आगे कहा, “बेटा, तुम विधर्मी हो। हम लोग मछुआरे हैं। इस समुद्र-तट पर तुम लोगों ने बचपन का खेल खेला है। वह थी बचपन की बात। अब हम एक अच्छे मछुआरे के साथ इसका व्याह करने जा रहे हैं। तुम भी अपनी जाति में शादी करके जीवन बिताओ।”

भरमार हो जाती है। यह समय मछुआरों के लिए एक वरदान है। मिट्टी का इस तरह सतह बनाना क्रैगनूर से शुरू होकर प्रतिवर्ष क्रमशः दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है और अन्त में कोललम के पास गदरे समुद्र में खत्म हो जाता है। एक ‘चाकरे’ को इस तरह कोललम के नजदीक गदरे समुद्र में खिलोन होते-होते आठ मास लग जाते हैं।

थोड़ी देर बाद चक्की ने आगे कहा, “तुम लोग अभी बच्चे हो हो। कुछ समझ नहीं सकते। बदनामी का कोई काम न करो! इतना भी लोग देख ले तो बाते करने लगेंगे। ऐसी ही लोगों की आदत है।”

चक्की बच्चों के साथ जाने लगी। पीछे घूमकर वात्सल्य के स्वर में उसने फिर परी से कहा, “मुनो बेटा, तुम अपना पैसा वापिस ले लेना!”

चक्की आगे और करूतम्मा नया पचमी पीछे-पीछे चली गई। परी खड़ा-खड़ा उन लोगों को जाते हए देखता रहा।

चक्की ने जो-कुछ कहा था, सब ठीक ही था। लेकिन उसे इन्हीं कठोरता के साथ वैसा नहीं कहना चाहिए था। उन बातों ने करूतम्मा के हृदय को बेध दिया।

थोड़ी दूर जाने पर करूतम्मा ने पीछे घूमकर देखा। बिना ऐसे देखे उससे रहा नहीं गया। घर पहुँचने पर हृदय चिर्दीर्घ करने वाला वह गाना समुद्रन्तट की ओर से सुनाई पड़ा।

चक्की ने कहा, “इस लड़के को नीद नहीं आती क्या?” चक्की ने आगे करूतम्मा से कहा, “अब तुझे किसी तरह यहाँ से भेज दूँ, यहीं मैं चाहती हूँ।” माँ के शब्दों में एक आरोप छिपा था कि बेटी के कारण उसे चैन नहीं है। किसीको शान्ति नहीं है।

करूतम्मा ने असहा दुख और क्रोध से पूछा, “मैंने क्या किया है?” चक्की चुप रही।

मुबह समुद्र मे नाव को देखने के लिए चक्की और बच्चे तट पर गये। सब नावे दूर समुद्र मे थी। समुद्र का रग-डग देखकर ऐसा लगता था कि उस दिन खूब मछलियों फँसेगी। करूतम्मा ने माँ से पूछा कि किन-किन मछलियों के मिलने की आशा है। माँ ने लक्षण से अयिला<sup>१</sup> बताया।

१. ‘अयि ला’—एक प्रकार की मछली, जिसे मास-मछलियाँ खाने वाले बहुत स्वादिष्ट मानते हैं।

करुत्तम्मा ने उत्साह के साथ कहा, ‘‘तब तो शुरू ही से हमारे लिए अच्छा होगा।’’

“समद्र-माता की कृपा रहे, बिटिया।”

एक छोटा बच्चा जैसे माँ से अपनी एक इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही करुत्तम्मा ने अपनी एक इच्छा प्रकट की, “अम्मा अपनी नाव की मछलियों को उस छोटे भोतलाली को देना चाहिए।”

चक्की इससे नाराज नहीं हुई। उसने यह भी नहीं पूछा कि छोटा भोतलाली उसका कौन है। चक्की का भी वही विचार था। लेकिन उसे एक सन्देह था, “वह पिशाच ऐसा करेगा? कौन जाने?”

करुत्तम्मा ने उसके लिए एक उपाय सुझाया, “नाव जब किनारे लगने लगे तभी हम लोगों को भी पहुँच जाना चाहिए। उसी समय अम्मा, तुम बप्पा से कहना।”

चक्की ने ऐसा ही करने को कहा। वह ज़रूरी था। वैसा होना ही चाहिए था।

नाव के किनारे लगने की खबर घर पर करने के लिए पचमी समुद्र-तट पर खड़ी देखती रही।

तब तक एक दूसरा काण्ड शुरू हो गया। पड़ोसिन नल्लम्मा, काली, पेणम्मा, लक्ष्मी आदि एक साथ पहुँच गईं। उन लोगों का एक उद्देश्य था। पेणम्मा ने यह जानना चाहा कि चेम्पन की नाव की मछलियाँ थोक माल खरीदने वालों के हाथ बेची जायेंगी या खुदरा खरीदने वालों के हाथ। थोक खरीदने वालों के हाथ एक साथ बेच देने का रिवाज भी वहाँ चल पड़ा था। इससे पूरब मे टोकरियों में माल बेचने जाने वाली औरतों को थोक खरीदने वालों के पाँव पकड़ने पड़ते थे। पेणम्मा ने आगे कहा, “दीदी, हम क्यों आई हैं यह तो बिना हमारे कहे ही तुम जानती हो।”

चक्की उन औरतों की बात समझ गई। थोक वालों से लेकर बेचने में कोई लाभ नहीं होता। मुँहमाँगा दाम देना पड़ता है। इतना ही नहीं थोक माल वालों की गाली भी सुननी पड़ती है।

चक्की ने पूछा, “उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ?”

नल्लम्मा ने अधिकार के साथ बहा, “तुम्हारी नाव की मछलियाँ यहाँ की औरतों को मिलनी ही चाहिए ।”

चक्की इसका कोई जवाब नहीं दे सको, सब-की-सब पड़ोसिने ही थीं। उनका कहना भी सही था। लेकिन वह बचन नहीं दे सकती थीं। यह भी निश्चय नहीं था कि चेम्पन मानेगा कि नहीं। इतना ही नहो, परी ने भी मछलियाँ माँगी हैं, इस बात को वह बाहर किसी से कह भी नहीं सकती थीं।

काली ने पूछा, “चक्की भोजी, तुम कुछ बोलती क्यों नहा ? चेम्पन भैया मानेगे कि नहीं यहीं डर है क्या ? तुम्हे उनको मनाना ही होगा। तुमने भी तो नाव और जाल खरीदने के लिए टोकरी-पर-टोकरी ढो-ढो कर बिक्री की थी और पैसा जमा किया था ।”

चक्की ने कहा, “मौ तो ठीक है ।”

लक्ष्मी ने कहा, “तुम अब बिक्री के लिए पूरब जाओगी क्या ?”

“क्यों, ऐसा क्यों पूछती हो ? आगे दस नावे भी हो जायें तो भी चक्की हमेशा चक्की ही रहेगी,” चक्की ने नम्रता पूर्वक कहा।

“नहीं जी, मेरा मतलब वह नहीं था। तुम भी जाओगी तो हम इकट्ठा माल लेकर आपस मे बॉट लेगी, यहीं मोचकर पूछा था ।”

चक्की ने अपनी लाचारी प्रकट की, “वह पिशाच मानेगा कि नहीं यह कौन जाने ?”

नल्लम्मा ने कहा, “तुम्हे उनसे कहना चाहिए। तुम कहाँगो तो हों जायगा ।”

काली ने करुत्तम्मा से भी कहा, “तू भी बप्पा मे कहना बिटिया ।”

करुत्तम्मा ने साफ इन्कार कर दिया।

पचमी ने कहने का भार अपने ऊपर लिया। नाव के किनारे लगने पर थोक खरीददारों की भीड़ लगने के पहले ही वह बप्पा से कहेगी।

इसमें उसका भी एक उद्देश्य था। उसने मन में निश्चय किया था कि जब-जब नाव किनारे पर लगेगी तब-तब वह एक छोटी टोकरी में 'ऊपा'<sup>१</sup> उठा लेगी और उसे सुखाकर जमा करेगी। लेकिन यह तभी सम्भव था जब कि थोक खरीदारों के हाथ मछली न बेची जाय।

लाचारी मे पड़कर चक्की ने भी कोशिश करने का चक्कन दिया। ऐसा होगा नहीं, यह वह जानती थी। उसको लगा कि एक बड़ी शिकायत होने वाली है।

दोपहर को समुद्र-तट पर बच्चे, टोकरी वाली औरते और थोक-खरीदार सब पहुँच गए। समुद्र मे बहुत ऊँचाई पर ऊपर समुद्री बगुलों के क्षुण्ड चक्कर काटते दिखाई पड़े। नावों पर लोग जाल खीचते या झाड़ते होंगे। तट पर हरेक आदमी अन्दाज लगाने लगा कि जाल मे कौन-कौन-सी मछलियाँ होगी। कादरी को लगा कि परमाणु के समान छोटी मछलियाँ होंगी। जो भी हो 'बटोर' अच्छा हुआ है, इसमे कोई सन्देह नहीं रहा। इतने मे दो समुद्री बगुले पश्चिम से पूर्व की तरफ उड़ते हुए आये। एक की ओर मछली थी। सबकी नजर ऊपर चली गई, एक की आवाज सुनाई पड़ी? "मत्ती है मत्ती<sup>२</sup>।"

समुद्र मे नावे हिलतो दिखाई पड़ी। सब पूर्व की ओर मुड़ गईं। पचमी घर की ओर दौड़ गई। उसने कहा, "बटोर<sup>३</sup> मे मत्ती है मत्ती।"

करुत्तमा और चक्की उत्साह के साथ बाहर निकली। चक्की ने फिर अतीव भक्ति के साथ समुद्र-माता का नाम लिया। अपनी नाव को अच्छा खासा बटोर लिये लौटती हुई देखने के लिए माँ-बेटी, दोनों समुद्र-तट की ओर दौड़ पड़ी।

मध्य समुद्र मे नावे तरगों के चढाव-उतार के साथ उठनी-झुकती

१. ऊपा=सबमें छोटी मछली को मलयालम में 'ऊपा' कहते हैं।

२. मत्ती=सारडीन मछली (Sardine)

३. बटोर=सग्ध

आगे बढ़ रही थी। माँ-बेटी अनुमान लगाने लगी कि उनमें से कौन-सी उनकी नाव है।

लोगों ने, यह मालूम हो जाने पर कि 'बटोर' में मत्ती है, हर्ष-ध्वनि करनी शुरू की। पेणम्मा, नल्लम्मा, काली, लक्ष्मी आदि चक्की के पास इकट्ठी हो गईं। पचमी ने भी एक छोटी टोकरी ले ली थी। इतने में द्रुत गति से एक नाव एक तरण से दूसरी तरण पर उड़ती-सी आती दिखाई पड़ी। उनमें माल भरा-जैसा लगता था।

पचमी बोल उठी, "एक ही डॉड है।"

उस नाव की चाल एक जलूस-जैसी लगती थी। ऊपर समुद्री बगुलों के झुण्ड-के-झुण्ड और पीछे बाकी सब नावे। समुद्र भी मानो हर्ष-नाद कर रहा था।

आगे वाली नाव की पतवार पर चेम्पन खड़ा था। वह खड़ा नहीं था, वह ऊपर से कूदकर डॉड से पानी को चोरकर पीछे फेक रहा था। ऐसा लगता था कि वह नाव में नहीं वरन् आकाश में है। उसके डॉड से आकाश में एक गोलाई बन रही थी। इस रूप में नाव लहरों के ऊपर उड़ती हुई-सी आगे बढ़ती आ रही थी।

काली ने कहा, "नाव की यह चाल बहुत सुन्दर लगती है।"

सबने एक ही राय प्रकट की कि नाव बहुत सुलक्षणी है।

"कोई कुछ न कहे," चक्की ने विनती की।

नाव पास आ गई। चेम्पन एक दूसरा ही आदमी मालूम होता था। कैसा परिवर्तन था। चक्की ने कहा, "वह एक गम्भीरता है, समुद्र-माता की सन्तान की गम्भीरता।"

नाव किनारे लगी। डॉड लेलेकर सब मल्लाह किनारे पर कूद पड़े और नाव को खीचकर ऊपर कर दिया। बच्चे नाव के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनमें पचमो भी थी।

चेम्पन पतवार की जगह से उत्तेजित रूप में बाहर कूद पड़ा। बच्चे चिल्लाते हुए तितर-बितर हो गए। पचमी जहाँ थी वही खड़ी रही।

वह क्यों डरती ? लेकिन चेम्पन ने गरजकर कहा, ‘‘मेरी नाव के नीचे से कोई भी ‘ऊपा’ न बटोरे,’’ और कहते-कहते उसने पचमी को ढकेल दिया। ‘‘माईरे’’ चिल्लाती हुई वह कुछ दूर पर जा गिरी। कर्श्टम्मा और चक्की भी चिल्ला पड़ी।

एक औरत ने कहा, “बाप रे बाप ! यह कैसा पिशाच मालूम होता है !”

चेम्पन की तरह पचमी को भी एक अभिलाषा थी, वह ऊपा बटोर-कर सुखाकर जमा करना चाहती थी। शायद उससे भी कुछ आमदनी हो जाती, जो काम आती। वह अपना अधिकार समझकर अपने पिता की नाव से ऊपा बटोरने गई थी। चेम्पन को कुछ सूझता नहीं था क्या ? क्या इस तरह आदमी अपने को भूल जाता है ?

उस नाव में जो-कुछ था, सब समुद्र की देन थी। किसी व्यक्ति का पैदा किया हुआ या पाला हुआ नहीं था। उसका एक हिस्सा ऊपा लेने का हक गरीबों को भी था। समुद्र-तट का यह नियम है।

“हाय रे पिशाच !” कहकर चिल्लाती हुई चक्की ने पचमी को गोद में उठा लिया। मॉ-बेटी मिलकर जहाँ पचमी को चोट लगी थी उस जगह को सहलाने लगी। लेकिन पचमी को तो चोट से बढ़कर बाप के व्यवहार से दुख था।

थोक खरीदने वालों ने नाव के चारों ओर भीड़ लगा दी, परी सबसे आगे था। चेम्पन ने किसी से जान-पहचान का भाव नहीं दिखाया।

कादरी मोतलाली ने पूछा, “क्या भाव है चेम्पा ?”

पेण्णम्मा, लक्ष्मी आदि इधर-से-उधर चक्कर काट रही थीं। पचमी, जिसने उनको मछली दिलाने का चादा किया था, बेदम पड़ी थी। चक्की उसके पास बैठी थी।

थोक खरीदने वाले भाव तय कर रहे थे। पेण्णम्मा ने साथियों को एक बार पूछने की राय दी। नल्लम्मा ने जवाब दिया, “उस पिशाच से कौन बात करेगी ?”

बाकी नावे भी एक-एक करके पहुँचने लगी। चेम्पन को उनके किनारे लगाने के पहले ही अपना माल बेच देना था।

परी ने पूछा, “मछली मेरे हाथ बेचोगे ?”

चेम्पन ने परी को मानो देखा ही नहीं। उसने पूछा, “नकद पैसा है ? मुझे नकद चाहिए।”

इतने मेरे कादरी मोतलाली ने सौ-सौ के नोट चेम्पन को थमा दिये। माल की बिक्री तय हो गई।

परी दूसरी नावों के पास दौड़कर गया। सब जगह बिक्री हो चुकी थी। पचमी की रुलाई जब जरा कम हुई तब करुत्तम्मा ने परी को उदास भाव से लैटटे देखा। उसके पास नकद पैसा नहीं था।

करुत्तम्मा ने माँ से कहा, “छोटे मोतलाली को मछली नहीं मिली।”

बिक्री परी के पास गई। पूछा, “माल नहीं माँगा, मोतलाली ?”

“माँगा।”

“तब ?”

परी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उस दिन उसको माल ही नहीं मिला। आज जैसा ‘बटोर’ बहुत दिनों से नहीं हुआ था। बक्की को सब मालूम हो गया। उसने चेम्पन को अपने को भूलकर व्यवहार करते देखा ही था। उसने कहा, “मछली देखकर वह पिशाच हो गया है मोतलाली।”

“मेरे पास थोड़ा पैसा था। बाकी मेरे पीछे भी दे देता।”

“इसीसे सोदा नहीं पटा ?”

“हो सकता है।”

परी आगे बढ़ा। करुत्तम्मा को कुछ कहने की इच्छा हुई। लेकिन वहाँ कैसे कहती ? पहले-पहल परी ने जो सवाल किया था, सो आज होकर ही रहा। उसके शब्द करुत्तम्मा के कानों मेरे गूँज गये, नाव और जाल जब हो जायगा तब मछली हमारे हाथ बेचोगी ?’ और उसका जवाब कि ‘अच्छा दाम दोगे तो दूँगी।’

काली, पेण्णम्मा आदि गाली देने लगी। अन्त मेरन लोगों ने थोक-

माल लेने वालो से माल लिया ।

चेम्पन ने काम करने वालो मे उनका हिस्सा बाँट दिया । जाल भी धोकर पसार दिया गया । तब वह घर की ओर चला । उसके हाथ मे काफी रुपये थे । जीवन मे एक नया प्रकाश आ गया, ऐसा उसे लगा । उसने एक नये रास्ते पर चलने का निश्चय किया । तीन बजे भोर से वह कठिन परिश्रम कर रहा था । तब भी घर लौटते समय वह थका हुआ नहीं मालूम होता था ।

घर का बातावरण सुखद नहीं था । हाथ के रुपयो के नोटों की थाक उसने चक्की को दिखाई । देखकर चक्की को कोई खास खुशी नहीं हुई ।

“क्यो ? यह सबके लिए है,” उसने पूछा ।

“क्यो री ? ऐसा क्यो पूछती है ?”

“देखो, जरा पचमी की छानी की चोट देखो ।”

सिसक-सिसककर रोती हुई पचमी को चेम्पन ने उठाकर देखा । उसकी छाती मे काफी चोट लगी थी ।

उसने पूछा, “वहाँ जाकर क्यो खड़ी हो गई बेटी ?”

चक्की ने पचमी की इच्छा कह सुनाई । सुनकर छोटी बेटी के प्रति चेम्पन की प्रीति बढ़ गई । तो वह कुछ कमाना चाहती थी । चेम्पन ने बादा किया कि दूसरे दिन से वह रोज एक छोटी टोकरी भर मछली उसे दिया करेगा ।

चक्की ने परी के बारे मे पूछा, “यह कैसा अन्याय है ? किसकी मदद से नाव और जाल बना है ?”

चेम्पन को समझ मे नहीं आया कि इसमे अन्याय की क्या बात है । उसने पूछा, “कैसा अन्याय री ?”

“उसे मछली दे देते तो क्या होता ?”

“तब काम कैसे चलता ? काम करने वालो को हिस्सा देना था न ?”

उसने आगे कहा, “उसे मछली देने से एक घाटा है । उसे जो ऐसा मिलना चाहिए उसमे से वह काट लेगा ।”

“तब तो उसने जो मदद की वही उसके मार्ग में बाधक हो गई है ?”  
कश्तम्मा को गुस्सा आया । भीतर से उसने कहा, “जो भी हो ।  
उसके डेरे में अब उसके पास कुछ भी नहीं है ।”

उस शाम को अच्चन के घर में भी पति-पत्नी में झगड़ा हुआ ।  
पत्नी ने पूछा, “वच्चपन का साथी है—कहते-कहते नाव में जाने  
का सपना देखते रहने का क्या नतीजा हुआ ?”

अच्चन ने पूछा, “तुझे चक्की के पीछे घूमने से क्या मिला ?”  
अच्चन ने आगे कहा, “आदमी के हाथ में जब पैसा हो जाता है  
तब वह पुरानी सब बातें भूल जाता है ।”

नल्लम्मा ने भी इसका समर्थन किया । अच्चन ने अपना पुराना  
निश्चय दुहराया, “ऊँ देखूँ मैं भी नाव और जाल खरीद सकता  
हूँ कि नहीं ।”

नल्लम्मा को उसकी बात उतनी विश्वास-योग्य नहीं लगी ।

चेम्पन भाग्यवान है। समुद्र मे उसके बराबर मछलियाँ और किसी को नहीं मिलती। दूसरों की अपेक्षा उसे दुगुनी मिलती है। वह जब जाल फेकता है कभी बेकार नहीं जाता। यह एक आश्चर्य की बात है।

रात को रुपये गिनकर चक्की ने कहा, “अब हमे लड़की का ब्याह कर देना चाहिए।”

चेम्पन ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। चक्की ने आगे पूछा, “और क्या विचार है? क्या, सोचते हो कि ऐसी ही बैठी रहे?”

चेम्पन चुप रहा। पैसा कमाने के सामने दूसरा कोई सवाल शायद उसे बड़ा नहीं लगता। पैसा रहने पर जब जो चाहेगा तत्काल ही जायगा।

एक नाव के लिए जितने साधन जरूरी थे, उसने सब ले लिए। किसी भी मौसम मे वह समुद्र मे काम के लिए जा सकता था। उसके पास सब सामान थे।

परी का डेरा बन्द-जैसा मालूम होने लगा। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। उसके पास पैसा भी नहीं था। उसके बाप ने एक बार आकर उसे खूब डॉटा। अब्दुल्ला मोतलाली ने शिकायत की कि उसने अपने पास का पैसा किसी मल्लाहिन पर लुटा दिया है। यह बात कर्श्टम्मा के कान मे पड़ गई।

कर्श्टम्मा ने माँ पर जोर डाला कि परी का पैसा लौटा दिया जाय। अब्दुल्ला ने परी से जो कहा था वह भी उसने माँ को सुना दिया। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती थी? वास्तव में परी ने अपनी मूल-धन की रकम एक मल्लाहिन को दे ही दी थी।

चेम्पन ने उस दिन भी जवाब दिया, “अरी, वह लौटा दूँगा। जरा ठहर तो सही।”

चेम्पन के मुँह से कभी-कभी उसकी कुछ इच्छाएँ प्रकट हो जाती थीं। दो नाव और जाल और होना चाहिए। अपनी जमीन और घर भी होना चाहिए। हाथ मे थोड़ा पैसा भी नकद रहना चाहिए, “जिन्दगी भर कमाता ही रहा न। अब पलिलकुञ्जम की तरह हमे भी थोड़ा सुख भोगना चाहिए।” चक्की को थोड़ी मोटी होना है—यह इच्छा भी उसने प्रकट की।

“ओ, अब मैं मोटी होऊँगी ? चक्की ने कहा।

“हाँ री, क्यों नहीं ? तू भी मोटायगी।”

इसके पहले चक्की ने चेम्पन को सुख भोगने की बाते करते करते कभी नहीं सुना था। चेम्पन के मन मे सुख भोगने के बारे मे एक नई इच्छा पैदा हुई है, ऐसा उसे लगा ?

उसने पूछा, “इस बुढापे मे कैसा सुख भोगना चाहते हो ? यह चिचार कहाँ से मिला है ? कहीं से तो मिला ही होगा।”

“अरी, बुढापे मे भी आदमी सुख भोग सकता है। उस पलिलकुञ्जम को जरा जाकर देखो न, तब मालूम हो जायगा कि आदमी कैसे सुख भोगता है।”

चक्की ने उपदेश देने के भाव से कहा कि वह गलत रास्ता पकड़ने की बात सोच रहा है। बुढापे मे सुख भोगने की बात करना गलत है।

चेम्पन ने कहा, “तू सुनेगी ? वह स्त्री तेरी ही उम्र की है। वह बराबर सज-धजकर रहती है। बाल सौंवारे रहती है, बिन्दी लगाती है और होठ भी लाल रखती है। देखने मे भी सोने की तरह लगती है। पति-पत्नी बच्चों की तरह है।”

“तब मुझे भी एक बच्ची की तरह सज-धजकर रहना चाहिए ?”

“इसमे क्या बुराई है ?”

“शरम नहीं लगेगी ?”

“शरमाने की क्या बात है ?”

चक्की ने लाज का भाव दिखाते हुए एक क्षण के बाद कहा,  
“मुझसे नहीं होगा यह सब ।”

चेम्पन ने ‘जालबाल’ कण्डनकोरन की कहानी सुनाते हुए कहा कि उसने वहाँ जैसा भोजन किया वैसा कही नहीं किया है । उनके यहाँ की तरकारियों में एक खास स्वाद था । वे बच्चों की तरह अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं । उसने आगे कहा, “एक बात सुनेगी ? मैं तो देखकर शरमा गया । एक दिन जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तब दोनों एक-दूसरे के आलिगन में बैंधे एक-दूसरे का चुम्मा ले रहे थे ।”

चक्की के मुँह से निकला, “ठीं ! शरम की बात है ।”

चेम्पन ने कहा, “शरम की क्या बात है री ? वे छोटे बच्चों की तरह हैं । हँसते हैं, खेलते हैं । ऐसा ही है ।”

“बाल-बच्चे नहीं हैं क्या ?”

“एक ही लड़का है ।”

चक्की की ओर देखते हुए चेम्पन ने कहा, “पाप्पी<sup>3</sup> के समान तुम्हारे मोटा होने के बाद हमें भी उसी तरह बच्चों का खेल खेलना है ।”

चास्तव में चक्की के मन में भी उसी तरह आलिगन में आवङ्द होकर चुम्बन का आनन्द लेने की इच्छा हड्डी । लेकिन उसने उसे प्रकट नहीं किया ।

उसने कहा, “अपन भी जरा मोटे हो जायें ।”

“मैं भी मोटाऊँगा । उसके बाद ही यह सब होगा ।” कहकर चेम्पन हँस पड़ा । सुख की सारी कल्पना उसकी आँखों के सामने हाजिर थी ।

चक्की ने शिकायत के स्वर में कहा, “लगता है, उस स्त्री को देखकर तूम पागल होकर लौटे हो ।”

“ठीक ही कहा री । जो भी उसे एक बार देख ले वह पागल ही हो जायगा ।”

थोड़ी देर बाद चेम्पन ने आगे कहा, “कण्डनकोरन बड़ा भाग्यवान है।”

चक्की ने कहा, ‘पहले समुद्र-माता की कृपा होनी चाहिए। जब अपनी जमीन और घर हो जायगा और निश्चन्त होकर गुजारा करने की स्थिति हो जायगी तब फिर से बच्चे बनकर सुख से जीवन बिताने की बात करना। तब तक लड़कियों की शादी करके उन्हें भेज देगे। चेम्पन का भी यही विचार था। लेकिन चक्की ने कहा, “मैं सुन्दर तो हूँ नहीं।”

चेम्पन ने विश्वास दिलाया, “उस समय तक हो जाओगी।”

“अगर तब तक मैं मर जाऊँ तो ?”

“धत्त। अशुभ शब्द मुँह से न निकालो।”

एकाएक एक दिन समुद्र का रंग बदल गया। पोला<sup>१</sup> आ गया था, पानी लाल हो गया। दो-तीन दिन बीत गए। चेम्पन से चुपचाप बैठा नहीं गया। उसने समुद्र में दूर तक जाकर कॉटा डालने की बात सोची। शायद कुछ मछली आ जायें।

उसने अपनी नाव पर काम करने वालों को बुलाया, और उनकी राय पूछी। कोई भी तुरन्त जवाब नहीं दे सका। उन घाट वालों में बहुत कम ही लोग कभी कॉटा डालने गये होंगे। और ऐसे पोले के समय तो कोई भी कभी नहीं गया था।

चेम्पन ने दृढ़ता पूर्वक उनसे कहा, “मैं एक बात कहे देता हूँ। तुम लोग नहीं आओगे तो भूखे हो रहोगे। पैचा देने का काम मुझसे नहीं होगा।”

फाके के दिन बढ़ भी सकते थे। वह समय लम्बा होता ही है। हरेक के पास की बचत खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों ने नाव लेकर थोड़ी

१. पोला में पानी का रंग बदल जाता है। इसे लोग समुद्र-माता के ऋद्धुभत्ती होने का लक्षण मानते हैं। ऐसे समय में कोई मछलियाँ मारने समुद्र में नहीं जाती।

कोशिश भी की । एक अरभिकत<sup>१</sup> तक नहीं मिली । नाव पर काम करने वालों के लिए, मालिकों को पैंचा के लिए तग करने का वह समय था । उनका भी हाथ खाली था ।

पड़ोस के घरों में फाकाकशी की हालत पैदा हो गई । पूरी फाकाकशी । अच्चन की, जिसने नाव और जाल खरीदने का निश्चय किया था, स्थिति और भी मुश्किल हो गई । उसके कई बाल-बच्चे भी तो थे ।

एक दिन कोई उपाय नहीं था । पिछले दिन झार-झार करने पर बचा-खुचा जो निकला था उसे बेचकर और मरचोनो<sup>२</sup> खरोदकर उससे काम चलाया गया था । उस दिन कोई उपाय नहीं हो सका । पति-पत्नी में झगड़ा हो गया । गुस्से में पति ने पत्नी को दो तमाचे लगा दिए और बाहर जाने के लिए उठा । बच्चों का भार घर वाली पर रहता है । वह घर छोड़कर कैसे कही जा सकती है ।

नल्लम्मा ने अच्चन को खरी-खोटी मुनाते हुए कहा, “चाय की द्वूकान में हॉडी भरने जाता होगा ।”

यह आरोप सुनकर भी अनसुनी करके अच्चन चला गया, हो सकता है कोई उपाय ढूँढ़ने के लिए ही निकला हो ।

शाम तक नल्लम्मा उसका रास्ता देखती रही । अन्त में वह उठी और घर में जो फूल का गिलास था उसे लेकर चक्की के पास गई । उसने चक्की से उसे बन्धक रखकर या उसके दाम के तौर पर ही, एक रूपया देने को कहा । चक्की ने उसे बन्धक रखकर एक रूपया दे दिया । लक्ष्मी को जब मालूम हुआ तब वह अपनी बच्ची के कान का फूल लेकर पहुँची । इस तरह अनेक स्त्रियाँ जब माँगने आने लगीं तब चक्की को दिक्कत मालूम होने लगीं । सबों को देने के लिए उसके पास रूपये नहीं थे । ‘पया

१. एक तरह की मछली ।

२. tapioca एक तरह का कन्द । गरीबों को यह भोजन का काम देता है ।

नहीं है’ कहते पर कोई विश्वास ही नहीं करता। काली एक फूल की उड़ली (कढ़ाई) लेकर बड़ी आशा से आई, जिसे उसने पिछले साल ‘मण्णा-रशाला’<sup>१</sup> से खरीदा था। चक्की ने कहा, “इस तरह सब लोग यहाँ आने लगे तो देने के लिए रुपये कहीं गाड़कर रखे हैं क्या ?”

बच्चे घर में भूखे थे। इसीलिए काली आई थी। उसने यह नहीं सोचा था कि चक्की इस तरह रुपया का व्यवहार करेगी। चक्की ने आगे कहा, “सबको चेम्पन का पैसा चाहिए। पर मौका मिलने पर सब पत्तल मे छेद करने लगेगे।”

काली ने पूछा, “मैंने क्या किया है जी ?”

“कुछ नहीं किया है। यहाँ रुपया नहीं है।”

“तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मानो मुझे पहले कभी देखा ही न हो।”

“अपनी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए ?”

काली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, “तेरे पास कब से रुपया हो गया है री ?”

“तू क्यों मेरा अपमान कर रही है री ?”

इसके बाद एक वाक्-युद्ध शुरू हो गया। करुत्तमा ने आकर बीच-बचाव किया। उसे डर था कि ज़गड़ा बढ़ने पर उसीकी बात घसीटी जायगी। उसने काली के पैर पकड़ लिये। काली अपनी ‘उड़ली’ लेकर लौट गई।

करुत्तमा माँ पर बिगड़ी, “यह क्या है अम्मा ? तुम इस तरह अपना होश-हवाश क्यों खो बैठती हो ?”

“और क्या ?”

“ऐसे भी, नाव और जाल खरीदने के बाद बप्पा और तुम—दोनों ही बदल गए हो।”

उस शाम को चेम्पन जब खाना खा रहा था तब चक्की मोहर्ले वालों

१. एक जगह का नाम, जहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता है।

का समाचार यानी उनकी फाकाकशी की कहानी सुना रही थी। उस दिन एक घर में भी चूल्हा नहीं जला था।

चेम्पन ने कहा, “भूखे पड़े रहने दो तभी हमारा काम बनेगा।”

कौन काम बनेगा—यह कर्ष्टम्मा जान गई। उसे अपने बाप से वृणा हो गई।

चक्की ने पूछा, “कौन काम?”

“सबको ऐसे ही छटपटाने दो। हाथ में चार पैसे हो जाते हैं तो इन लोगों को—स्त्री-पुरुष दोनों को, होश नहीं रहता। जिस दिन पैसा हो जाता है उस दिन आलपुषा (शहर) ही जाकर खाना खाते हैं। घर में औरत के पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, लेकिन जरी के किनारे का महीन कपड़ा जरूर खरोदेगे। मल्लाहिनों का पाँव उस दिन जमीन पर नहीं पड़ता। अब सबको तारे गिनने दो।”

कर्ष्टम्मा आश्चर्य से सुनती रही। चक्की ने पुराना तत्त्व-ज्ञान सुनाया, “मल्लाह कभी बचाकर रखता ही नहीं!”

“नहीं बचाता, तो न बचावे। अब उसका फल भोगे। यह सब बेटी को भी सिखा दो। वह भी भूखी रहना सीख जाय!”

चक्की ने मुस्कुराते हए कहा, “ओह, बड़े होशियार बन गए हो।”

“हाँ री, मैं होशियार ही हूँ। मेरे पास पैसा है।”

“हाँ-हाँ उसके बारे में कुछ कहना ही क्या? उस बेचारे छोकरे ने अपना डेरा ही बन्द कर दिया है और घर में लड़की भी शादी की उम्र पार कर बैठी है।”

कर्ष्टम्मा को यह पूछने का मन हुआ, ‘परी को भी भोगना चाहिए, है न?’

समुद्र-तट के उस अकाल से फायदा उठाकर चेम्पन और चक्की ने सोने-चाँदी और फूल के बरतन सस्ते दाम पर खरीद लिये। लड़की की शादी के समय बहुत चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन एक अच्छी खाट मिली। पति के घर आने पर पत्नी ने सलज्ज भाव से हँसते हुए

कहा, “मैंने एक खाट मोल ली है ।”

उसी तरह हँसते हुए चेम्पन ने पूछा, “क्यों खरीदी ?”

“खाट किस काम के लिए है ? लेटने के लिए ही न ?”

“किसके लेटने के लिए ?”

“लड़की के लिए । जब लड़का आयगा तब उसके लेटने के लिए ।”

“ओह !! उनके लिए है ?”

“नहीं तो फिर किसके लिए ? बूढ़े-बूढ़ी के लिए ?”

चेम्पन ने मानो उसका समर्थन करते हुए कहा, “ओह, तब नहीं चाहिए । लेकिन मैंने एक तोशक बनवाने का निश्चय किया है । कण्डन-कोरन के यहाँ जैसा देखा है वैसा ही तोशक ।”

चक्री ने कहा, “तब उस पर साथ मे सोने के लिए एक सुन्दर लड़की भी चाहिए न ?”

“मैं तुझे वैसी ही बनाऊँगा ।”

चेम्पन के मन मे एक और बड़ो इच्छा पैदा हुई । शायद वह जीवन मे सुख भोगने को इच्छा की एक कड़ी ही हो । उसे एक और नाव लेनी चाहिए । लेकिन पास मे जो नकद था उसमे से तीन चौथाई जगम सम्पत्ति मे लग चुका था । फिर भी चेम्पन को वह असाध्य नहीं लगा ।

एक दिन सुबह जब चेम्पन उठा तब उसने अपने यहाँ ‘जालवाला’ रामन् आया देखा । चेम्पन ने उसकी आवभगत की, और उसे आदर पूर्वक बैठाया । रामन् उसी घाट का था । उसके पास दो नावे थी । उसकी स्थावर सम्पत्ति सब दूसरो के हाथ मे चली गई थी । चेम्पन ने कुछ काल तक उसकी नाव पर काम किया था ।

रामन् को उस भुखमरी के समय अपने यहाँ काम करने वालों को पैसा देने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी । जरूरत पड़ने पर वह औसेप्प से कर्जा लिया करता था । औसेप्प को कुछ चुकाना बाकी रह गया था । ऐसी हालत मे उससे माँगने मे उसे सकोच मालूम हुआ । उसने चेम्पन से कहा, “हमारे सहारे गुजारा करने वाले सब भूतों मर रहे

है। समुद्र मे इस समय कोई काम नहीं है। उनकी हालत देखी नहीं जाती।”

चेम्पन ने उसकी बात का समर्थन किया।

“हाँ, हाँ, इस समय जैसी हालत है उसमे चुप लगाकर बैठ जाना ठीक नहीं है।”

बिना किसी हिचक के चेम्पन कर्जा देने के लिए तैयार हो गया।

“कितने रुपये चाहिए?”

“डेढ़ सौ काफी है।”

चेम्पन ने गिनकर रुपये दे दिए।

रामन् ने पूछा, “तुम, अपनी नाव मे काम करने वालों को उधार नहीं देते?”

सिर खुजाते हुए चेम्पन ने कहा, “मैं कैसे दूँगा? मैं भी तो उन्हींकी तरह काम करने वाला ही हूँ न? ‘गिलहरी’ कैसे हाथी की तरह मुँह बाये!”

रामन् हँस पड़ा। चेम्पन ने अपने कथन को और स्पष्ट कर दिया। रामन् ने चले जाने पर चेम्पन चक्की के पास जाकर पागलों की तरह हँसने लगा। उस दिन की तरह इतने उत्साह के साथ उसे कभी हँसते नहीं देखा गया था।

चक्की ने पूछा, “यह कैसा पागलपन है?”

“अरी पगली, तू क्या समझेगी? छ. महीने के अन्दर उसकी चीनी नाव मेरी ही जायगी।”

उसने आगे कहा, “पैसा पास मे रहने से यही फायदा है।”

चेम्पन की नाव मे काम करने वाले उधार के लिए उसे तग करने लगे। उसने पूछा, “तुम लोग काम करने के लिए तैयार हो?”

“हाँ।”

“तब चलो, बीच समुद्र मे जाकर काँटा डाले।”

“यह कैसे हो सकता है? इस कुसमय मे बीच समुद्र में कैसे जाया

जायगा ?”

चेम्पन ने एक दूसरा उपाय सोचा । उसने कहा, “वह दूसरे लोगों को कॉटा डालने के लिए साथ मे ले जायगा और बाद मे उन्होंको काम के लिए रखेगा ।”

“पैसा लगाकर नाव और दूसरी जरूरी चीजे प्राप्त कर लेने के बाद चुप नहीं बैठा रह सकता । इससे कितना धाटा होगा ?”

दो-तीन दिन के बाद एक दिन सुबह चेम्पन को पतवार की जगह पर खड़े होकर नाव को तीव्र गति से पश्चिम की ओर ले जाते जब देखा तभी चक्की और करुतम्मा को यह बात मालूम हुई । उस दिन तेरह घरों की औरतों और बच्चों ने भगवान् का नाम लेते हुए समुद्र-तट पर ही आतुरता पूर्वक समय काटा । पुराने लोगों ने समुद्र का रंग-ढंग देखकर स्थिति को विकट बतलाया । उनका अनुमान था कि समुद्र मे भॅवर पैदा होगी ।

रात होने पर भी नाव नहीं लौटी । तट पर रोना-धोना शुरू हो गया । थोड़ी देर मे घाट बाले इकट्ठे हो गए । सबकी नज़र पश्चिम की ओर थी ।

रात शान्त थी । समुद्र निश्चल था । तारे चमक रहे थे । किसी को लगा कि उधर समुद्र मे बहुत दूर पर एक बिन्दु के समान कोई चीज़ दिखाई दे रही है । शायद वही नाव होगी ।

लेकिन नाव नहीं आई ।

कोच्चन की बूढ़ी माँ छाती पीट-पीटकर रोती हुई चक्की से अपने बेटे को माँगने लगी । बाबा की पत्नी, जो रम्भिणी थी, किसी पर आरोप लगाये बिना, बैठकर रो रही थी । इस तरह समुद्र-तट पर खूब रोना-धोना होता रहा ।

करीब आधी रात के समय दूर से एक ‘आरच’ सुनाई पड़ा । किसी ने चिल्लाकर कहा, “नाव आ रही है ।” नाव एक पक्षी की तरह तेज़ी से आ रही थी ।

नाव मे एक ‘शार्क’ था । दो पकड़े गये थे । पर दोनों को एक साथ नाव मे लाना कठिन हो गया । इसलिए चेम्पन ने दूसरे को काट डाला

था। उसके टुकडे-टुकडे करके उन्हे उसने विक्री के लिए पूरब जाने वाली औरतों में बाँट दिया, और कह दिया कि बेचकर लौटने पर दाम चुका देना काफी है। काली, लक्ष्मी आदि सबको हिस्सा मिला। उस दिन कई घरों में चूल्हे जलाये गए।

दो दिन बाद फिर कॉटा डालने के लिए लोग गये। उस दिन भी चेम्पन सफल होकर लौटा। समुद्र की बिगड़ी हालत में भी चेम्पन के पास पैसा जमा होने लगा। पुराने लोग हारकर चुप हो गए थे। औरतों ने कहा कि चेम्पन के कारण कम-से-कम पानी पीने का उपाय तो हो जाता है।

और नाव वालों ने भी कॉटा डालने के लिए जाने का निश्चय किया।

सबको विश्वास था कि भुखमरी के बाद समुद्रि होगी। पिछले साल 'चाकरा' आलपुष्टा के उत्तर में था। उस हिसाब से इस बार इसी तट पर होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा न भी हो तो भी मछली मारने की तैयारी तो होनी ही चाहिए। इसका यह अर्थ था कि नाव, जाल आदि सब चीजों की मरम्मत होनी चाहिए। यह काम उस अकाल के समय ही हो जाना चाहिए। नाव वाले सकट में पड़ गए।

औसेप्प और गोविन्दन् रूपयों की थैलियाँ लेकर निकल आए। सबको पैसे की जरूरत थी। किसी भी शर्त पर कर्ज लेने के लिए लोग तैयार थे। थोक माल लेने वालों ने आलपुष्टा कोल्लम, कोचीन आदि जगहों के किंगा मछली के व्यापारी सेठों के मैनेजरों की खुशामद की।

इस तरह कर्ज से उठाये गये पैसे का प्रताप उस तट पर दिखाई देने लगा। कम्पा जाल<sup>१</sup> की मरम्मत का काम भी होने लगा।

छोटे-छोटे व्यापारी लोग औरतों को कर्जा देने के लिए पैसा लेकर घर-घर आने-जाने लगे। घरों में औरत और बच्चे मिलकर जो मछली

**कम्पा जाल**—थोड़ी दूर पर समुद्र में डाला जाने वाला जाल, जिसमें एक लम्बा रस्सा बैंधा रहता है। नाव पर ले जाकर इसे पानी में डाल दिया जाता है। बाद को उसे समुद्र-तट पर खड़े हुए लोग खीच लेते हैं।

मुखा-सुखाकर रखते थे, उसके लिए पेशगी के तौर पर पैसे दिये जा रहे थे। इस बीच घर-घर घूमने वाले एक मोतलाली छोकरे को कोच्चुकुट्टी के घर मे उसके पति ने घायल कर दिया। इस पर एक केस भी चल गया।

चेम्पन बीच-बीच मे रामन् से मिलता था। रामन् डरता था कि वह कर्जा लौटाने की माँग न कर बैठे। लेकिन चेम्पन ने रुपये लोटाने की बात नहीं उठाई। इतना ही नहीं, उसने पूछा कि और रुपये की जरूरत है क्या?

परी 'चाकरा' व्यापार के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था। उसके बाप ने डेरे को बन्द ही कर देने को कहा था। उसका कहना था कि परी समुद्र-तट पर काम छोड़ दे और कोई दूसरा धन्या शुरू करे। लेकिन परो को ऐसा करना पसन्द नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उस स्थान को छोड़कर कहो जाने को तैयार नहीं था।

उसके बाप अब्दुल्ला को आश्चर्य हुआ। उसके सामने परी ने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी।

अब्दुल्ला ने जगह छोड़ने का कारण पूछा।

परी ने कहा, "आपने मुझे बचपन मे ही यहाँ लाकर मछली के व्यापार मे लगाया था। मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता।"

"पूँजी ही जो तुमने खत्म कर दी है।"

इसका जवाब तो परी को देना ही था। उसने कहा, "ऐसे तो बप्पा, व्यापार मे लाभ-हानि, दोनो होते ही हैं। कभी-कभी पूँजी भी खत्म हो जाती है।"

"आगे भी ऐसा ही हो तब?"

इसका एक ही जवाब परी के पास था, "बप्पा, मुझे जितना देने का आपने निश्चय किया है उतना ही दे दे तो काफी है। बाद मे किर कभी कुछ देने की जरूरत नहीं है।"

"इसके लिए इतनी सम्पत्ति कहाँ है रे? कुल ४० सेण्ट ही तो जमीन है।"

क्षण के लिए नहीं भुला पाती थी। एक मल्लाहिन के तौर पर ही उसने जन्म लिया था, और एक मल्लाहिन के तौर पर ही उसे मरना है। यह कैसे हो सकता था, वह जानती थी। उसके लिए परी को भूल जाना आ न ?

अगर कर्जा चुका दिया जाय तो वह भूल सकेगी। ऐसा उसका विश्वास था। वह यह सोच नहीं सकती थी कि उसीके कारण परी अपना सब काम-धन्वा गँवाकर निराधार हो जाय। यही बात उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। समय बीतता गया। लेकिन स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। चेम्पन ने परी को रुपया नहीं लौटाया।

समुद्र-तट पर लोग प्रतीक्षा मे ही दिन काट रहे थे । रात के भोजन मे मरचीनी और कंजी<sup>१</sup> लेते समय हरेक घर मे लोग समुद्र-माता को स्मरण करके यह प्रश्न करते कि ‘हे समुद्र-माता, एक मुट्ठी अन्न खाने का अवसर फिर कब मिलेगा ?’ उसका उत्तर भी वे स्वयं देते थे, ‘चाकरा के साथ ।’ उन्हे लग रहा था कि एक मुट्ठी अन्न खाये जमाना बीत गया ।

चाय वाले जब चाय उधार देने से इन्कार करते तब मछुआरे कहते थे कि “अरे, ‘चाकरा’ आयगा जी ।”

घरो मे औरतो के कपडे गन्दे होकर फटने लगे और उनमे पैबन्द लगने लगे । तब भी लोग यही कहते, “‘चाकरा’ आने दो ।” मलमल और महीन कपडे सब खरीदेगे ।”

उस समय सब इच्छाओ और आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है ।

करुत्तमा के मन मे भी एक अभिलाषा थी, जिसको उसने अपनी माँ से कहा, “‘चाकरा’ के समय किसी भी तरह कुछ पैसा कमाना चाहिए । उसके अलावा बप्पा की कमाई से भी कुछ पैसा लेना चाहिए । ऐसा करके परी का कर्जा चुका देना चाहिए ।”

चक्की ने भी कुछ कमाना चाहा । लेकिन उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही था । वह चाहती थी कि कमाकर कुछ सोना खरीदे ।

करुत्तमा ने कहा, “मझे सोने-वोने की जरूरत नही है । वह कर्जा चुका दिया जाय । यही बहुत है ।”

चक्की न पूछा, “बेटी, उस कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी बाप की ही है न ?”

“बप्पा नहीं चुकायेंगे ।”

चक्की ने हुकारी भरकर सहमति प्रकट की । करुतम्मा हिसाब लगाने लगी ।

पचमी का अपना अलग कार्यक्रम था । वह ऊपा बटोरेगी । बप्पा ने एक-एक टोकरी मछली देने का वचन भी दिया है ।

परी ने भी कुछ तय किया । अबदुल्ला ने घर और जमीन सेठ के पास रहन रख दी । उसके आधार पर वह दो हजार रुपये तक खर्च के लिए ले सकता था । उसने निश्चय किया कि उस साल होशियारी से ‘चाकरा’ व्यापार चलायगा और कर्जा चुकाकर बहन की शादी भी कर देगा ।

अच्चन ने निश्चय किया कि इसी ‘चाकरा’ मे उसे भी एक नाव का मालिक बनना है । समुद्र का पोला और अकाल बिलकुल अप्रतीक्षित था । उस समय खूब फाकाकशी रही । अच्चन औसेप्प के पास गया और एक नाव तथा जाल खरीदने की बात उठाई । उसके लिए चाहे जैसी भी व्यवस्था करनी पड़े वह तैयार था । उसने कहा, “मैं भी एक नाव की पतवार पर चढ़कर समुद्र मे जाना चाहता हूँ । मेरी भी स्त्री समुद्र-न्तट पर आकर खड़ी-खड़ी देखा करेगी ।”

औसेप्प ने पूछा, “हाथ मे कितना है अच्चा ?”

अच्चन ने कहा, “कुछ नहीं ।”

“तब कैसे होगा ?”

आखिर औसेप्प ने एक सुझाव दिया, ‘‘चाकरा’ की कमाई जमा करनी चाहिए । ‘चाकरा’ के बाद नाव खरीदना । जो रकम घटेगी, वह दे देगा ।”

“लेकिन एक बात है । नाव और जाल मेरे ही नाम पर खरीदना होगा । तुम्हे सिर्फ हिस्सा मिलेगा । पतवार का हिस्सा भी तुम्हे मिलेगा । अच्छा तो यह होगा कि ‘चाकरा’ मे जो-कुछ मिले, मेरे ही पास जमा करते

जाओ ! मैं हिफाजत से रखूँगा ।”

अच्चन सहमत हो गया । ऐसा ही वहाँ हुआ करता था । घर पहुँचकर उसने नल्लम्मा को सब बातें कह सुनाई और कहा, “पूरब में बिक्री से तुम्हें जो मिले उसे भी मुझे दे दिया करना ।”

“ऐसा क्यों ? तुम अपना हिस्सा भी मेरे पास जमा करना !” नल्लम्मा ने कहा ।

“जा निकम्मी कही की । दोनों का हिस्सा औसेप्प के यहाँ जमा करना है ।”

नल्लम्मा को इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा, “मालूम है चेम्पन भाई ने कैसे नाव और जाल खरीदा ? वह अपनी कमाई का पूरा पैसा चक्की को सौपता जाता था ।”

अन्त में औसेप्प के पास जमा कराने पर दोनों सहमत हो गए ।

अच्चन ने सबसे कहा कि वह भी नाव और जाल खरीदने जा रहा है ।

इस तरह की प्रतीक्षा के बीच ही वर्षा का आरम्भ हो गया । समुद्र में उत्तुग तरणों का दृश्य उपस्थित हो गया । बाद में पानी के खिचाव से जान पड़ा कि ‘चाकरा’ वही होगा । वहाँ के मल्लाहों के चेहरे पर आशा और उमग का भाव खिल उठा । समुद्र-तट शीघ्र ही उत्तर से दक्षिण तक एक बड़े शहर का रूप धारण कर लेगा । दोनों तरफ झोपड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी गईं । चाय की टुकाने, कपड़े, दर्जी, सोने-चाँदी सब तरह की टुकाने सज गईं । इस साल एक ‘डायनमा’ लगाकर बिजली की बत्ती का इन्तज़ाम करने की भी खबर थी ।

समुद्र में दूसरी बार तरगे उठीं । पानी खूब मथा गया । सब लोग आनन्द से उछल पड़े । सबोंके हृदय में इच्छाओं की कलियाँ अकुरित होने लगी । इस उथल-पुथल के बाद पानी जब शान्त हो जायगा तब लोगों की समृद्धि का उदय होगा ।

समुद्र शान्त हो गया । दूर-दूर से नावे आने लगी । बरसात का मौसम था । आँधी-पानी का भी ज़ोर था । फिर भी समुद्र एकदम एक

तालाब-जैसा शान्त था ।

चेम्पन की नाव पर काम करने वाले सब-के-सब होशियार थे । उसने उन्हे और भी निपुण बना दिया था । चेम्पन पतवार पर जाकर खड़ा हो गया और उसने एक गौरव के साथ नाव को छला दिया । वह एक सुन्दर दृश्य था ।

पहले दिन मछली कम ही मिली । पानी की स्थिरता देखकर मछलियों ने आना अभी शुरू ही किया था । दूसरे दिन भी सब नावे समुद्र में गईं । चेम्पन को अधिक मछलियाँ मिली । अच्चन का खयाल था कि चेम्पन सबसे पहले मछली मारने निकल गया । इसीलिए उसे अधिक मिली, रामन् मूपन का खयाल इससे भिन्न था । उसने कहा “वह पल्लिकुन्नम का भारय ही है जो मोल लाया है ।” सबको इच्छा थी कि चेम्पन के बराबर नहीं, तो कम-से-कम भी उसके लगभग तो मिलना ही चाहिए । वास्तव में चेम्पन से सबको एक प्रेरणा प्राप्त हुई ।

अच्चन ने अपने साथियों को ठोक किया, “सब याद रखो ! जोर से आवाज़ देकर सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए । अरे, हमें भी एक निश्चय करना चाहिए ।”

सबने निश्चय किया कि वह भी देखेगे कि चेम्पन के बराबर बटोर ला सकेगे या नहीं ।

लोग पहले की अपेक्षा सबेरे ही समुद्र-तट पर इकट्ठे हो गए । फिर भी कुछेक को आवाज़ देकर बुलाना ही पड़ा । चाय की ढुकानों में भी पहले ही बिक्री हो गई । दूसरों की स्पर्धा के बारे में चेम्पन को कुछ मालूम नहीं था । उस दिन इसकी नाव बाद में गई ।

समुद्र में नावों की चाल देखकर ऐसा लगा कि उस दिन खूब मछली मिलेगी । थोक माल लेने वाले और दूसरे व्यापारी, सब तट पर इकट्ठे हो गए । परी जरा चिन्तित दीख रहा था । वह किसी की प्रतीक्षा में था । हाथ में पैसा कम था । सेठ जी के मैनेजर ने पैसे लाकर देने की बात कही थी । लेकिन वह आया नहीं । परी उसीकी प्रतीक्षा कर रहा

था । सब तरह से कमाने का वह अवसर था । समुद्र में बटोर बहुत अच्छा हुआ । दिन भी साफ और धूपदार था । ज़िग्गा उसनी जाय तो अच्छी तरह सूख जायगी । उस दिन आदमी कुछ कमा सकता था ।

समय बीतता गया । सेठ का मैनेजर पाँचु पिलै नहीं आया । परी डरा कि उसके लिए 'चाकरा' की शुरुआत हो बिगड़ रही है ।

सब नावे तट की ओर मुड़ी । परी की घबराहट बढ़ने लगी । बाकी सब लोग पैसे लेकर खड़े थे ।

तट पर से हर्ष-नाद बुलन्द हो उठा । होटलों में भोजन परसने की तैयारी शुरू हो गई । नाव किनारे पर लगते ही सब भीड़ लगाने लगेंगे । डेरे में लोग काटर चूल्हों पर रखने लगे । एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना था । परी के मजदूर भी काम के लिए तैयार हो गए ।

सबके आगे चेम्पन की नाव थी । रोज की तरह वह उछलती हुई आ रही थी ।

कादरी ने कहा, "उसकी नाव से जीतने की बात सोचना ही व्यर्थ है ।"

मोयिदीन ने उसका समर्थन किया ।

एक बूढ़े मल्लाह ने अपनी राय प्रकट की, "पतवार पर खुद मालिक ही जो है ।"

नाव किनारे लगी । नाव पर ज़िग्गा मछली थी । कहीं जगह खाली नहीं थी ।

परी अपने को भूलकर चेम्पन के पास दौड़ा गया । पहले का अनुभव वह भूल गया था । उस समय कोई भी भूल सकता था ।

परी ने प्रार्थना के स्वर में कहा, "चेम्पन कुञ्जे, माल मुझे दो ।"

चेम्पन ने निर्दयता पूर्वक उसकी ओर देखा और पूछा, "पास मे पैसा है ? नहीं है तो जाओ ।"

नाव किनारे लगने पर मल्लाह का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है ।

परी के कुछ जवाब मे कहने के पहले ही कादरी वहाँ पहुँच गया ।

परी यह समझकर कि चेम्पन की नाव की मछली नहीं मिलेगी दूसरी नावों की तरफ दौड़ा ।

उस रोज भी पहले की तरह चेम्पन ने ही मछली का भाव तय किया । उस दिन खबर मछली मिली थी । चेम्पन का बटोर सबसे ज्यादा था ।

परी ने किसी दूसरे की नाव से एक तिहाई माल मोल लिया । उसके पास उतना ही रुपया था । खर्च काटकर नाव बालों को हिस्सा दिया गया । तब चेम्पन को एक खायाल आया । उसने पूछा, “आज समुद्र की कभाई देखो । कैसी धूप है और कैसा प्रकाश है । कमाने का अच्छा दिन है । दाम भी अच्छा मिला है ।” उसके कहने का मतलब नाव पर काम करने वालों ने नहीं समझा । तब चेम्पन ने आगे कहा, “अरे गधे सब, मौका जब मिलता है तब उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए । पैसा कमाने का यही समय है न । खाना खाकर तैयार हो जाओ । एक और बटोर के लिए मैं जाने को तैयार हूँ ।”

पास मे खड़ा अच्चन सुन रहा था । चेम्पन ने उससे तो कहा नहीं था । किर भी वह बोल उठा, “सुनने पर जबाब दिये बिना मैं नहीं रह सकता । पैसा मिलेगा यह सोचकर समुद्र ही खाली कर दोगे क्या ?”

इतना ही नहीं । एक ही दिन मे दो बार मछली मारने के लिए जाने का काम इसके पहले कभी नहीं हुआ था । ऐसा होना भी नहीं चाहिए ।

चेम्पन ने कहा, “नुम्हीं लोग सोचो ।”

समुद्र-तट ऐश्वर्य से जगमगा रहा था । घरों के चारों तरफ सोना बिखरा हुआ-जैसा लग रहा था । उसनी हुई मछली सूखने के लिए पसार दी गई थी ।

उस दिन अच्चन खाना खाने के लिए होटल मे नहीं गया । सीधा घर गया । कमाकर पैसा बचाने का निश्चय किया था न । नल्लम्मा ने पूछा, “आज बिना खाना खाये क्यों चले आए ?”

अच्चन झुँझला गया । बोला, “अरी तेरा कभी भला नहीं हो सकता । मैं कहे देता हूँ, तुझे कभी नाव और जाल नहीं मिल सकता ।”

अच्चन वापिस जाने लगा । अपनी गलती महसूस करते हुए नल्लम्मा ने कहा, “सुबह जाते समय कहकर क्यों नहीं गये ?”

अच्चन ने कहा, “वह तो पहले ही कसम खाकर हम दोनों ने तथ किया था न ?”

उसका कहना ठीक ही था । जब अच्चन आगे बढ़ा तब नल्लम्मा ने कहा, “खाने का खर्च निकालकर बाकी यहाँ दे जाया करो ! भै रखूँगी । औसेप्प के पास बाद को जमा किया जायगा ।”

अच्चन ने कुछ नोट और खरीज उसके सामने फेक दी ।

खाना खाने के बाद चेम्पन तुरन्त समुद्र-तट पर चला आया । उसी दिन वह और पैसा कमाने का सपना देख रहा था ।

शाम को चेरियषिक्कल और तृक्कुन्नपुषा आदि जगहों से नावें पहुँच गईं । रात को घनघोर चर्षा हुई । दूसरे दिन प्रकाश होने के बाद ही नावें समुद्र में उतरी ।

खूब सवेरे ही नाव न निकालने के कारण चेम्पन काम करने वालों पर खूब बिगड़ा ।

उस दिन भी चेम्पन ही आगे था । लेकिन एक और नाव भी तेजी से आगे बढ़ रही थी । उसमें लोग दम तोड़कर डाँड़ चला रहे थे । पतवार की जगह पर एक बहुत होशियार आदमी खड़ा होकर कुर्ती से नाव का सचालन कर रहा था । उसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि वह किसकी नाव है । पता लगा कि वह तृक्कुन्नपुषा की नाव है और पतवार-चालक का नाम है पलनी । वह कम ही उम्र का था ।

चेम्पन की नाव और पलनी की नाव बरावर-बरावर रही । देखने से ऐसा लगता था कि आगे निकल जाने के लिए दोनों में होड़ लगी है । नावों के नाविक मानो जिद पकड़कर डाँड़ चला रहे थे और दोनों नावों के पतवार-चालक पूरी ताकत लगाकर नाव का सचालन कर रहे थे । बड़ा ही स्फूर्तिदायक दृश्य था ।

ऐसा सन्देह होने लगा कि चेम्पन की नाव ज़रा पीछे पड़ रही है ।

ज्यादा मछली किसको मिलेगी, नहीं कहा जा सकता था। जाल फेंकने और नाव बुमाने का दोनों का ढग देखकर कुछ अनुमान करना मुश्किल था।

लौटते समय भी दोनों में हीड़ लगी। दोनों का अगला हिस्सा पास-पास आ जाने पर मार-पीट भी हो सकती थी। एक बार जब दोनों का अगला भाग आपस में टकरा गया तो सब डर गए। करुत्तम्मा ने पूछा, “अम्मा, बाबू क्यों इस तरह हठ कर रहे हैं?”

चबकी भी घबराई थी। मछली मारकर लौट आना है। इस तरह स्पर्धी क्यों होनी चाहिए? चेम्पन अब जवान तो है नहीं। नाव का अगला भाग टकरा जाय तो क्या न हो जाय?

उस समय एक-एक क्षण एक युग-जैसा लगा। आखिर नावे किनारे पर लगी। तट पर जोरों से हर्ष-नाद हुआ। किसी की न हार हुई, न किसी की जीत। दोनों बराबर रही। माल भी दोनों नावों में भरा था।

दोनों नावे एक साथ किनारे पर लगी। करुत्तम्मा ने पलनी को गोर से देखा। वह सिर पर एक कपड़ा बॉथे और हाथ में एक डॉड़ लिये नाव से जमीन पर कूदकर खड़ा हो गया। वह एक बलिष्ठ युवक था। चेम्पन ने पलनी को गले लगाया ओर कहा, “बेटा, तुम सच्चमुच समुद्र के बीर पुत्र हो!”

पलनी चुप रहा।

उस दिन की बिक्री में पलनी को थोड़ा ज्यादा पैसा मिला। इस तरह चेम्पन की जरा-सी हार हो गई।

चेम्पन ने पलनी से पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है बेटा?”

वह बलिष्ठ-काय युवक जरा सकोचशील था। चेम्पन के सामने खड़े उस युवक में नाव में खड़े उस पतवार-चालक का कोई लक्षण नज़र नहीं आता था। वह एक बच्चे-जैसा लगता था। पता नहीं उस समय उसका गम्भीर-भाव कहाँ गया था। उसने कहा, “पलनी!”

“तुम अपना काम जानते हो बेटा! मछुआ होकर जन्म लेने प

समुद्र मे काम करने की कला मालूम होनी ही चाहिए ।”

पलनी ने कुछ नहीं कहा ।

चेम्पन ने पूछा, “बेटा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है ?”

“बेलू । मर गया है ।”

“और माँ ?”

“वह भी मर गई ।”

“घर मे और कौन है ?”

“कोई नहीं ।”

जरा आश्चर्य के साथ चेम्पन ने कहा, “कोई नहीं ।”

पलनी ने कुछ नहीं कहा ।

घर पहुँचने पर चक्की ने चेम्पन से पूछा, “जवान होना चाहते हो, सो तो ठीक है । लेकिन जवानी का यही मतलब है क्या ?”

चेम्पन ने सुनकर भी अनसुनी कर दी । उसके दिमाग मे एक बात घुस गई थी । समुद्र मे वह किस आत्म-विस्मृति के साथ पतवार-चालक का काम कर रहा था, उसके बारे मे उसे चक्की से जरूर कुछ कहना था । लेकिन इस सभय उसे पत्नी से एक दूसरी ही बात कहनी थी । उसने चक्की से धोरे-धीरे बाते शुरू को, “अरी, उस नाव के पतवार वाले लड़के को तूने देखा ?”

“हाँ, देखा तो ।”

“लड़का अच्छा और होशियार है न ?”

चक्की को भी लड़का बहुत पसन्द आया । सिर्फ चक्की को ही नहीं, समुद्र-तट पर सबको वह बहुत पसन्द आया था ।

चक्की ने पूछा, “क्या मतलब है ?”

“वह मिल जाय तो बड़ा अच्छा होगा ।”

चक्की ने कुछ नहीं कहा । चेम्पन ने आगे कहा, “मैंने पूछा था । उसके घर मे कोई नहीं है । लेकिन इससे क्या ? एक दृष्टि से यह अच्छा ही है ।”

चक्की ने कहा, “तब उसे खाने के लिए बुलाया क्यों नहीं ?”

“वह तो मैं भूल ही गया ।”

चक्की को खुशी हुई कि चेम्पन ने लड़की के लिए एक लड़का पसन्द किया है । इससे प्रकट है कि लड़की की शादी को बात उसे याद है ।

लड़का काविल है । कोई भी उसे फँसा सकता है । चेम्पन को यह डर हुआ । खाना खाने के बाद वह उठा और समुद्र-तट पर चला गया ।

पलनी और उसके साथी नारियल के पेड़ की छाया में सोये थे । उस दिन उससे चेम्पन का और कुछ बात नहीं हो सको । दूसरे दिन भी समुद्र पर दौड़ लगो । चेम्पन इस बार हार गया । मछली भी पलनी को ही अधिक मिली ।

चेम्पन के नाव बालों में जिह्वीपन आ गया । करुतम्मा ने कहा, “उन लोगों को इस तट पर आकर हम ऐसा नहीं करने देंगे ।”

बाबा की इच्छा हुई कि पलनी की नाव से भिड़न्त क्यों न हो जाय ? तब मार-पीट भी हो जायगी ।

चेम्पन बीच मे बोला, “अरे कैसों बाते कर रहे हो ? एक तेज लड़के से भेट हुई तो इतनी ईर्ष्या क्यों ? उन लोगों को जीतना चाहते हो तो कोशिश करो ।”

चेम्पन के नाव बाले सोवने लगे कि बीच समुद्र मे नहीं तो तट पर ही उन्हे नीचा दिखाया जाय । लेकिन बेलुत्ता ने इसका विरोध किया । उसने कहा, “आज ये लोग हमारे तट पर आये हैं । हो सकता है कि कल हम उनके तट पर जायें ।”

फिर भी चेम्पन के नाव बालों मे कुछ-न-कुछ करने की इच्छा बलवती हो उठी, खूब कमाने का वह अवसर था । मुकदमा लड़ना पड़े तो लड़ा जायगा, ऐसा उनका विचार था ।

चेम्पन उनका यह विचार जान गया । यह उसकी अशान्ति का एक कारण हो गया । चेम्पन की नाव पर काम करने वालों को ही नहीं, उस तट पर सबको उस नाव बालों से ईर्ष्या हो गई । लोगों ने कहा ‘थे अपने

‘को इतना काबिल समझकर न जाने पायें।’ कुछ लोगों ने इस तरह के विचार का भी विरोध किया।

दो-तीन दिन के भीतर ही समुद्र-तट पर मार-पीट हो गई। मार-पीट नाव में काम करने वालों के बीच हुई थी। दो-तीन लोगों का सिर फूटा। उस दिन और अगले दिन भी उस घाट की कोई भी नाव समुद्र में नहीं गई। सब-के-सब छिप गए। पुलिस आई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। घटवार ने बीच में पड़कर उनको छुड़ा लिया।

वे सब एक-एक करके घटवार से मिले और उसे नजराना दिया। बाद में एक चन्दे का चिठ्ठा निकाला गया और मामला खत्म कर दिया गया। पर नतोंजा यह हुआ कि तब तक को कमाई भी खत्म हो गई। सिर्फ वेलायुधन् घटवार से मिलने नहीं गया। वह घटवार की नजर पर चढ़ गया। घटवार ने पुलिस से उसे पकड़वा दिया। एक हफ्ता जेल में रहकर वह लौटा और उसने कहा, “मैं घटवार को नहीं मानूँगा।”

चेम्पन को एक हफ्ते की कमाई का घाटा लग गया। खूब कमाने के उस मौसम में वह कितना बड़ा घाटा था।

समुद्र में फिर काम शुरू हुआ।

चक्की रोज चेम्पन से पलनी को भोजन के लिए बुलाने की बात कहती। इसी बीच काम करने वाले एक दिन की छुट्टी लेकर तृकुञ्जपुषा गये। पलनी नहीं गया। चेम्पन ने पलनी से पूछा, “बेटा, तुम क्यों नहीं गये?”

“मैं कहाँ जाता?”

ठीक है तृकुञ्जपुषा में उसका कोई नहीं था, जिससे वह मिलने जाता। चेम्पन ने पलनी को भोजन के लिए निमत्रण दिया, “तो दोपहर का खाना खाने के लिए मेरे यहाँ आना?”

पलनी ने निमत्रण स्वीकार किया। चेम्पन के घर में एक बढ़िया भोज की तैयारी हुई।

पलनी एक घर की सन्तान न रहकर पूरे तृकुञ्जपुषा की सन्तान हो

गया था। मॉ-बाप की उसे याद ही नहीं थी। वह कैसेपला ?— इसका यहीं उत्तर था कि वह पला। किसने पाला ? किसी ने भी नहीं। उसके लिए किसी ने भी कष्ट नहीं उठाया। वह सिर्फ अपने लिए कमाता था। जब वह एक छोटा बच्चा था तभी निश्चित ने उसे समुद्र में जाल की रस्सी पकड़ने के लिए ला पटका था, जिसमें खतरनाक जल-जन्तु भरे पड़े थे। उसके लिए चिन्ता करने वाला कोई नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तब वह नाव पर जाने लगा और कमाने लगा। पैसा हाथ में आने पर इच्छानुसार खर्च भी किया। जब पैसा नहीं रहता या कम रहता तब उसीके मुताबिक गुजारा भी करता। क्या उसके मन में भी अभिलाषाएँ थीं ? ही भी सकती थीं। अभी तक किसी ने आग्रह नहीं किया था कि वह खाना खाये, उसका पेट भरे। न वह इस प्रकार का हक लेकर कही गया ही।

आज उसके लिए एक जगह खाना तैयार हुआ। वह प्रसन्नता से भरपेट खाये, इस विचार से आज एक औरत ने खाना परोसकर खिलाया। कैसी भावुकतापूर्ण अनुभूति थी ! उसे कौन-कौन तरकारी अच्छी लगी चक्की ने समझ लिया। और बार-बार परोसकर खिलाया।

कौन जाने पलनी के मन में यह सन्देह उठा कि यह सब खातिर-दारी क्यों हो रही है।

चक्की ने पूछा, “बेटा, तुम्हारी क्या उम्र है ?”

“कौन जाने !”

उसे अपनी उम्र का पता नहीं था। चक्की की जिज्ञासा बढ़ी। अपनी उम्र न मालूम रहने की बात अच्छी नहीं थी। तब तो आगे एक-एक सवाल होशियारी से पूछना चाहिए। कौन जाने उसकी जात क्या थी ? पर जान लेना तो जहरी था।

“बेटा, तुम कहाँ रहते हो ?”

“अब एक झोपड़ी है। उसीमें।”

“यहाँ जो कमाते हो उससे क्या करोगे ?”

“क्या कहँगा ? खर्च करँगा।”

एक माँ की तरह चक्की ने उपदेश दिया, “बेटा तुम अकेले होन ? इस तरह खर्च करोगे तो क्या होगा ? चार दिन कही बीमार ही पड़ गए तो क्या उपाय होगा ?”

पलनी ने मानो इसका भी जवाब पहले ही सोच रखा था । सिर्फ इतना बोला, “ओ !”

यह बात उसे कितनी निस्सार लगी । उसका जीकर बड़ा होना ही एक आश्चर्य की बात थी । तब बड़ा होने पर बीमार पड़ने की बात ही कोई बड़ी बात हो सकती थी ?

चक्की बैठी देखती रही । मानो उसे अब कुछ और पूछना नहीं था । पलनी काफी हट्टा-कट्टा था । बुरा नहीं था । उसके बारे में दुखी या प्रसन्न होने वाला कोई नहीं था । इस तरह एकाएकी उसका जीवन बोत रहा था । आज तक किसी ने उसके जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं था ।

चक्की ने एक माँ की आत्मीयता के साथ पूछा, “इस तरह जीवन बिताना काफी है बेटा ?”

“और क्या चाहिए ?”

तो उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहो है ? यह ठीक है क्या ? ‘नहीं’ यह भी नहीं कहा जा सकता था । जल्दी ही उसने जवाब दिया था और उसमें किसी तरह की हिचक नहीं थी । जीवन का कोई उद्देश्य बनाने की उसने कोशिश ही नहीं की । उसकी जरूरत भी किसी को नहीं थी ।

चक्की ने कहा, “ऐसी उदासीनता ठीक नहीं है बेटा ?”

पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया । चक्की ने आगे कहा, “बेटा, तुम अकेले हो । काम भी कर सकते हो । यह सब बदल जायगा । तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है । इसके अलावा आदमी के लिए कुछ बातें जरूरी हैं, देख-भाल के लिए एक साथी हो तो वह जरूरी है । बेटा, तुम्हारे लिए खाना तैयार करके प्रतीक्षा में रखे रहने के लिए एक जगह हो, यानी घर हो तो वह खुशी की ही बात होगी न ?”

पलनी चुप ही रहा ।

“बेटा, तुम्हे शादी कर लेनी चाहिए।”

“हॉ, सो तो ठीक ही है।”

“तो शादी की बात मैं तय करूँ ?”

“हॉ, हॉ। क्यों नहीं !” पलनी ने स्वीकृति दे दी।

चक्की ने पूछा, “लड़की कौन है? यह जानना नहीं चाहते ?”

“कौन है ?”

“मेरी बेटी।”

पलनी ने यह भी स्वीकार कर लिया।

बात यहाँ तक तय हो जाने पर भी चक्की के खयाल में कुछ खामियाँ रह गई थीं, यद्यपि अच्छे पहलू भी थे। पलनी का न घर था, न सगे-सम्बन्धी थे। ऐसे आदमी को बेटी दे देने के बाद अगर वह अविवेक का कोई काम करे तो क्या होगा? किससे कहा जायगा?

चेम्पन ने कहा, “लेकिन लड़का बहुत अच्छा है।”

“यदि कोई पूछे कि बेटी को कहाँ भेजा, तो क्या उत्तर दिया जायगा ?”

“वह घर बनायगा।”

सबसे अधिक चक्की को दुखी बनाने वाली एक दूसरी ही बात थी।

उसने पूछा, “वह किस जाति का है ?”

“वह मनुष्य जाति का है। समुद्र में काम करने वाला है।”

“हमारे सम्बन्धी बिगड़ खड़े होगे।”

“बिगड़ा करे।”

“तब हम अकेले पड़ जायेंगे।”

“पड़ने दो।”

चेम्पन ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे कहा, “मैं लड़की की शादी उसीसे करूँगा।”

दो-तीन दिन से रात-दिन लगातार पानी बरस रहा था। समुद्र में  
झिंगा मछली की भरभार थी। लेकिन नाव नहीं खोली गई थी। काम  
तो आदमियों को ही करना पड़ता था न। कड़ाके की ठण्ड पड़ रही थी।  
चौथे दिन का सूर्योदय प्रकाशमान था। नावे समुद्र में उतरी। खूब बटोर  
हुआ। व्यापार भी हुआ। आकाश फिर मेघाच्छन्न हो गया। पानी भी  
पड़ने लगा। ऐसी मूसलाधार वर्षा इससे पहले नहीं हुई थी। बरसना  
जारी रहा।

डेरो मे अच्छी तरह सुखाई हुई मछलियाँ पड़ी थी। अधसूखी और  
उसनी हुई भी थी। सड़ी-गली मछलियों का चोइयाँ भी पड़ा था। सब  
मिलाकर डेरो की हालत बड़ी तकलीफदेह थी। सब जगह घाटे-ही-घाटे  
का लक्षण नजर आता था।

'चाकरा' के गुरु के दिन धूप और प्रकाश के थे। रोज का माल रोज  
तैयार हो जाता था। सेठों के आदमी आते-जाते रहते थे। इस तरह  
व्यापार जारी था। ऐसे ही समय मे यह दुर्भाग्य शुरू हो गया।

परी को एक और आफत का सामना करना था। उसका पहली  
बार का माल अच्छा था। दूसरी बार के माल के बारे मे कहा गया कि  
माल काफी सुखाया नहीं गया था। सेठ ने कहला भेजा कि परी का माल  
उसे नहीं चाहिए और यह कि सेठ का पैसा लौटा दिया जाय।

किसी भी शर्त पर सेठ मानने के लिए तैयार नहीं होता था। आल-  
पुषा की सब दूकानों मे कोशिश की गई। किसी को भी माल की जरूरत  
नहीं थी। गोदाम सब भरे पडे थे।

परी ने पाँच्चू पिल्लै का पॉव पकड़ा, जिससे थोड़ा पैसा सेठ को मिल जाय। कुछ कमीशन पाने की शर्त पर पाँच्चू पिल्लै ने कोशिश करने का वचन दिया। इस तरह घाटे पर थोड़े पैसे का प्रबन्ध हो गया। इस पैसे से माल खरीदा गया। इतने ही मे आँधी-पानी शुरू हो गया।

परी का पैसा (माल) पड़े-पड़े सड़कर दुर्गन्ध पैदा करने लगा। एक और दिन पड़ा रहे तो उसे गाड़ देने के सिवा और कोई उपाय नहीं था।

तट पर का वातावरण एकाएक उदास हो गया। नावे समुद्र मे जाती थी और बढ़िया बटोर भी लाती थी। घरो मे ज़िगे की कुछ बिक्री भी होती थी। लेकिन लौरियाँ कम हो आती थी। ऐसी स्थिति थी। माल के मोल-तोल का समय नहीं था। व्यापारियो की इच्छा के अनुसार माल बेचना पड़ता था।

होटलो मे बिक्री बन्द हो गई। कपडे को दुकानो मे कोई झाँकने भी नहीं जाता। यहाँ तक कि मूँगफली बेचने वाले छोकरे भी दिखाई नहीं पड़ते थे।

यह स्थिति कब बदलेगी? रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल है।

उस तट के नाव वाले सब सकट मे पड़ गए। खासकर रामन्। उस साल उसका व्यापार ठप्प हो गया। औसतेप ने अपने पैसे के लिए उसे तग करना शुरू किया। उसकी नजर रामन् की चीनी नाव पर थी।

दोनो मे आपस मे तर्क-वितर्क हुआ। दोनो एक-दूसरे से नाखुश हो गए। एक हफ्ते के अन्दर किसी भी तरह पैसा लौटा देने की रामन् ने शपथ खाई। उस समय रामन् के मन मे चेम्पन का ध्यान था।

रामन् ने चेम्पन से पैसा माँगा। इस बार माँगने पर तुरन्त देने के लिए चेम्पन तैयार नहीं हुआ। रामन् ने उसका कारण समझ लिया।

“बात क्या है चेम्पन? खोलकर कहो तो सही।”

जरा सकोच के अभिनय के साथ चेम्पन ने कहा, “बिना किसी जमानत के देता रहूँ तो ठीक नहीं होगा।”

“तुमको क्या जमानत चाहिए?”

“यह मैं कैसे कहूँ ?”

अन्त में चेम्पन ने अपनी इच्छा प्रकट की कि रामन् अपनी चीनी नाव जमानत में रखे ।

इस तरह चेम्पन के पास रामन् की नाव आ गई, उस दिन भी अच्चन के घर झगड़ा हुआ । चेम्पन के पास एक नहीं, अब दो नावे हो गईं । नल्लम्मा ने अच्चन को आडे हाथों लिया ।

“‘आदमी हूँ’—कहकर, इस तरह क्यों रहते हो ?”

“अरी तेरे साथ होने से ही सर्वनाश हुआ है । औसेप के पास जमा करने के लिए चाकरा की कमाई जो दी थी, उसका क्या हुआ ?”

“पहनने के कपडे बिना और पानी पीने के बरतन बिना आदमी का काम चल सकता है ?”

“वह पैसा मेरे ही पास रहता तो ?”

“पीने ही मेरे खत्म हो गया होता ।”

अच्चन ने गुस्से मेरे नल्लम्मा को कसकर दो थप्पड़ लगा दिये ।

एक और नाव हो जाने से चक्की को खुशी जरूर थी, लेकिन परी का कर्ज बाकी रहने का दुख भी था । करुत्तम्मा चक्की को वरावर याद भी दिलाती रहती थी ।

जिस दिन चीनी नाव जमानत में आ गई उस दिन चक्की ने पति से कहा, “यह भारी अन्याय है ।”

“क्या ?”

“आधी रात के समय उस छोकरे से चोरी कराकर अब चुप्पी साध ली है ।”

चेम्पन ने चक्की को फटकारा ।

‘इस तरह फटकार देने से त्रृण-मुक्त हो जाओगे क्या ? वह बेचारा इस समय बड़े सकट में है । इस समय उसके रूपये दे दो तो बड़ा उपकार होगा ।’

“अभी रूपये कहाँ में आयेंगे ?”

करुत्तमा खड़ी-खड़ी यह बातचीत सुन रही थी । वह बोल उठी, “उसके रूपये जरूर लौटा दो बप्पा !”

चेम्पन ने गम्भीर होकर पूछा, “इससे तुझे क्या मतलब है री ?”

इसका वह उचित जवाब दे सकती थी । कहने के लिए काफी बाते भी थी । वह कहना चाहती थी कि पैसे की माँग पहले-पहल उसने ही की थी और इसीलिए हाथ मे पैसा न रहने पर भी परी ने माल दिया था । वह बाप को चेतावनी भी देना चाहती थी कि वह जितना अधिक पैसे बाला होता जाता है उतना ही अधिक उसकी बेटी उस विधर्मी के अधीन होती जाती है ।

चक्की डर गई कि करुत्तमा कुछ बोल न दे । इसमे खतरा था ।

चक्की ने चेम्पन से तर्क किया, “इतना नाराज होने की क्या बात है ? लड़की ने तो ठीक ही कहा है ।”

“म पूछता हूँ कि इसको उससे क्या मतलब है । क्या इसीने वह कर्ज लिया है ? इसीसे वह पैसा माँगेगा ?”

थोड़ी घबराहट के साथ चक्की ने कहा, “इससे वह नहीं माँगता है तो क्या यह कुछ कह भी नहीं सकती ?”

चेम्पन ने गम्भीरता पूर्वक उपदेश देते हुए वह बात वहाँ खत्म कर दी, “हाँ, मैं एक बात कहे देता हूँ । मर्द लोग आपस मे भिड़ जाते हैं । इसमे तुझे बीच मे पड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि तुम्हे एक पुरुष के साथ जिन्दगी गुजारनी है ।”

उपदेश तो ठीक था । करुत्तमा को यह सब सीखना ही था ।

फिर चेम्पन का गुस्सा चक्की की ओर बढ़ा, “यह हो कैसे सकता है ? तुझीको देखकर लड़की सीखती है न ?”

चेम्पन ने सारा दोष चक्की पर डाल दिया । समय ऐसा था कि चक्की ने कुछ जवाब दिये बिना चुपचाप रहना ही ठीक समझा ।

माँ-बेटी जब अकेली रह गई तब चक्की ने करुत्तमा से कहा, “बिटिया, तू बप्पा से क्यों कह रही थी । बप्पा को कुछ सन्देह हो

जाय तो उसका क्या नतीजा होगा ? पड़ोस मे बातूनी लोग क्या-क्या कहते हैं यह तूने सुन ही लिया है । अगर तेरे बाप के कान मे ये बाते पढ़ जायें तो क्या होगा । हे समुद्र माता ! ”

करुत्तम्मा सब जानती थी । उसने कहा, “उसका पैसा लौटा देना है । ”

“मेरा भी यही विचार है । ”

“कहने को तो तुम कहती हो मौं, लेकिन देती नहीं । मैंने क्या-क्या उपाय नहीं सुझाये । तुमने एक को भी काम मे नहीं लिया । ”

एक क्षण बाद उसने फिर कहा, “उस कर्जे को चुकाने के बाद ही । ”

आगे की बात वह नहीं कह सकी । लेकिन चक्की समझ गई ।

“ठीक है बेटी । वैसा ही करना ठीक है । ”

पलनी के साथ शादी करने के सम्बन्ध मे करुत्तम्मा का क्या मनो-भाव था, चक्की ने यह जानने की कोशिश की थी । लेकिन करुत्तम्मा ने यह प्रकट नहीं होने दिया कि वह उसे पसन्द है या नहीं । बच्ची है, लज्जा के कारण कुछ प्रकट नहीं करना चाहती, ऐसा ही चक्की ने सोचा । फिर भी परी के प्रति उसके प्रेम का क्या नतीजा होगा, यह डर भी उसके मन मे था । करुत्तम्मा की सहेलियों से पुछवाना उसने इसलिए ठीक नहीं समझा कि बात पूरे समुद्र-तट पर फैल जायगी । ऐसी ही परिस्थिति मे करुत्तम्मा के मुँह से बकेत निकला कि ‘कर्जा चुकाने के बाद ही हो । ’ उस सकेत से चक्की को तसल्ली हुई । उसका चेहरा एक प्रसन्न मुस्कान से चमक उठा । उसने पूछा, ‘बेटी, तो यह शादी तुझे मजूर है न । ’

करुत्तम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया ।

चक्की ने उसी आनन्द के साथ आगे कहा, ‘लड़का बड़ा हौशियार है बिटिया, बड़ा अच्छा है । ’

चक्की ने पलनी की प्रश्ना की । प्रश्ना के योग्य वह था भी । प्रश्ना सुनते-सुनते करुत्तम्मा के मन मे एक विरोध का भाव उत्पन्न

होने लगा। वह विरोध करना चाहती थी। उसके विरोध के लिए कारण भी था। पलनी की उम्र क्या है, उसके सांगे-सम्बन्धी कौन है, आदि जानने का उसे हक था न? सबसे बढ़कर उसके हृदय में पलनी के लिए स्थान है क्या?

चक्की को बड़ा सन्तोष था। वह कहती गई। करुत्तमा का दम घुटने लगा। वह कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। वह फूट पड़ी, “जरा चुप भी क्यों नहीं होती अम्मा!” वह अपने होठों को दाँतों से दबाते हुए मन-ही-मन कुछ बुद्धिमत्ते लगी। वह क्या कह रही थी, चक्की की समझ में नहीं आया। चक्की ने कहा, “शादी के पहले ही तेरी माँ वह कर्जा चुका देगी।”

बहुत धृणा और क्रोध प्रकट करते हुए करुत्तमा ने कहा, “ओ हो, माँ चुका देगी! तो अब तक क्यों नहीं चुकाया?”

“मैं जरूर जोर लगाऊंगी।”

निराशा-भरी आवाज में करुत्तमा ने कहा, “कुछ होने वाला नहीं है अम्मा। शादी ही होगी। यहाँ होने जा रहा है।”

चक्की ने दृढ़ता से कहा, ‘तू देखती रह?’

करुत्तमा के सब अव्यक्त विचार मिलकर एक बड़े निश्चय के रूप में प्रकट हुए, “वह पैसा लौटाये बिना मैं नहीं मानूँगी। नहीं लौटाया गया तो अपने प्राण त्याग दूँगी।”

चक्की घबराकर बोली, “मेरी बिटिया, ऐसे अशुभ शब्द मुँह से न निकाल।”

करुत्तमा रो पड़ी, “और क्या करूँ? वह बेचारा दिवालिया हो गया है। यहाँ पैसा नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। देना नहीं चाहते, यहीं तो बात है।”

करुत्तमा ने चक्की को कम्पूरवार ठहराया। चक्की सुनती रही।

“अम्मा, तुम्हारा भी विचार न देने का ही है।”

चक्की ने कसम खाई कि उसका ऐसा विचार नहीं है। करुत्तमा

ने अपना निश्चय प्रकट किया, “अब मे सीधी साफ-साफ बाते करूँगी।”

“ऐसी बात न करना, बिटिया।”

“नहीं तो और क्या करूँ ?”

थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, “तथ हो जाने पर धूम-धाम से शादी करने के बाद जब विदा करोगी, उस समय यदि वह रास्ते मे रोक कर, पैसा चुकाने के बाद जाने को कहे तो क्या किया जायगा ?”

तब तक चक्की ने ऐसी स्थिति के बारे मे नहीं सोचा था। अब डराने वाला एक चित्र सामने चित्रित हो गया। घबराकर चक्की ने पूछा, “वह तुझसे पैसे क्यों माँगेगा ?”

“मेरे माँगने से ही तो उसने पैसा दिया था।”

“तूने तो.. वह.. खेल-खेल. मे ही माँगा था न ?”

“ऐसा किसने कहा ?”

परी के रास्ता रोककर खड़े होने की सम्भावना चक्की के मन से हटती नहीं थी।

परी निराश था, अब बुरी हालत मे था। किसी साहसपूर्ण कार्य के लिए वह तैयार भी हो सकता था। चाहे तो वह एक बड़ी विकट स्थिति पैदा कर सकता था।

करुत्तमा ने कहा, “मैंने बप्पा से कहने का निश्चय कर लिया है। आज मे कहूँगी। क्यों न कहूँ ?”

“मेरी बिटिया, ऐसा न करना।”

“मे जरूर कहूँगी।”

चक्की ने बचन दिया कि शादी के पहले किसी तरह ठीक कर दिया जायगा।

उस रात को पत्नी ने पति से कहा कि करुत्तमा शादी के लिए राजी है लेकिन..। उसके राजी होने के पीछे एक अप्रकट, फिर भी अर्थपूर्ण ‘लेकिन’ था। उस ‘लेकिन’ के बारे मे कुछ कैसे कहा जाता ? .. चेम्पन के सामने करुत्तमा की मजूरी का कोई सवाल ही नहीं था।

परी का कर्जा चुकाने के लिए चेम्पन पर जोर डालने लायक चक्रकी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था ।

\*

\*

\*

मछली बहुत सस्ती हो गई थी । चेम्पन को ही नहीं, किसी को भी चैन नहो थी । कुछ दिन बाद एक जागृति आई । कोचीन और आल-पुषा में ढेर लगाकर रखी गई सूखी ज़िंगा मछली सब बाहर खेज दी गई । लेकिन रगून में भी माल सस्ता ही था । सेठ-साहकारों का कहना था कि दाम मूलधन से आधा हो गया है । ऐसी ही खबर थी कि एक जहाज समुद्र में ही नष्ट हो गया । इस कारण आधा ही दाम देकर हिसाब साफ किया जा रहा है ।

परी को हजार रुपये का घाटा हुआ ।

कर्षतम्मा मे कुछ परिवर्तन हुआ । शायद वह अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार बना रही थी । वह बड़ी हो गई थी । कुछ सूझ-बूझ और हिम्मत तो उसमे थी ही, वह परो से बाते करने के मौके की ताक मे रहने लगी । उसे परी से बहुत-कुछ कहना था ।

घेरे के उस तरफ और इस तरफ खड़े होकर दोनो मिले । कर्षतम्मा ने ही उस दिन बातचीत शुरू की । वह बे-मतलब ही हँसी उत्पन्न करने वाली बातचीत नहीं थी । कर्षतम्मा ने पूछा, “व्यापार मे घाटा हुआ है न, छोटे मोतलाली ?”

परी ने बातालाप के एसे प्रारम्भ की उम्मीद नहीं की थी । उसने कोई उत्तर नहीं दिया । कर्षतम्मा ने आगे कहा, “तुम्हारा पैसा लौटा देगे, मोतलाली !”

परी ने कहा, “तुमने मुझसे पैसा कहाँ लिया है ?”

“फिर भी उसे लौटाने का भार मुझ पर है ।”

“कैसे ?”

“ऐसे ही मोतलाली ! तुम्हारा कर्जा चुकाने के बाद ही . . . .”  
करुत्तम्मा अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी, उसका गला रुँध गया, सारा जगीर शिथिल हो गया और आँखे भर आईं ।

उसका अधूरा वाक्य परो ने पूरा किया, “कर्जा चुकाने के बाद ही शादी करके जाना है, क्यो ?”

करुत्तम्मा की आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे ।

परो नहीं रोया । उसने पूछा, “क्या सब सम्बन्ध तोड़कर जाओगी ? क्यो ?”

यह प्रश्न करुत्तम्मा के हृदय में तीर की तरह चुभ गया । सवाल पूछते समय परी भाव-शून्य हो गया था क्या ? परी को लगा, करुत्तम्मा वास्तव में असहाय है । फिर भी उसने उत्तर की प्रतीक्षा की ।

करुत्तम्मा ने कहा, ‘नहीं, नहीं, छोटे मोतलाली तुम्हारा भला हो ।’

परी अब पहले-जैसा हल्के दिल वाला प्रेमी नहीं था । वह मुस्करा दिया—एक निर्जीव-सी मुस्कराहट ।

“मेरा भला, करुत्तम्मा !”

परी के शब्दों का मतलब करुत्तम्मा ने समझ लिया । उसका भला अब तो ही नहीं सकता । करुत्तम्मा वहाँ खड़ी नहीं रह सकी । वह वहाँ से चल दी ।

उस रात चेम्पन को एक खास बात कहनी थी । बड़े उत्साह से उसने धीरे से चक्की को सुनाया, “पलनी स्त्री-धन” नहीं लेगा । सुना ?”

चक्की को विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा, “ऐसा कैसे हो सकता है ?”

“इसमें क्या है ? बिना स्त्री-धन लिये ही वह शादी करने को तैयार है ।”

चक्की चेम्पन की ओर टकटकी लगाकर देखती रह गई । . . . चेम्पन ने शपथ खाकर विश्वास दिलाया ।

“समुद्र-माता की शपथ । उसने कहा है कि वह बिना स्त्री-धन लिये

ही शादी करेगा ।”

चक्की ने पूछा, “उसने न लेने की बात कही होगी, तो भी हमें तो देना ही चाहिए न ।”

चक्की चेम्पन की ओर देखती रही। चेम्पन को चक्की का इस तरह हठ करना अच्छा नहीं लगा। कोई जब कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए तब उसे जबरदस्ती देने की क्या ज़रूरत है? चक्की के रुख पर उसे आश्चर्य हुआ।

चक्की ने कड़ी आवाज में कहा, “उस सीधे-सादे बच्चे को कुछ कहकर उससे वैसा कहलवा दिया होगा ।”

चेम्पन ने झट जवाब दिया, “नहीं-नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा ।”

चक्की ने फिर गम्भीर होकर पूछा, “आदमी के लिए रुपया-पैसा किस काम के लिए है? स्त्री-धन क्या है? जो कुछ हम अपनी बच्ची को देंगे, वही स्त्री-धन है न ।”

“उसे नहीं चाहिए तब ?”

“फिर किसके लिए कमा रहे हों, यह मैं पूछती हूँ ।” चेम्पन के अधिकारी की परवाह न करके चक्की ने आगे कहा, “बुढ़ापे मेरे सुख भोगने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। जो चाहे सो करो, लेकिन फिर भी जीवन मेरी कर्तव्यों के पालन के लिए कुछ करना ही होगा। इतना जो कमाया है उसमे मेरा भी हाथ रहा है न ।”

चेम्पन ने हँसते हुए चक्की के गुस्से को ठण्डा करने के ख्याल से कहा, “इससे क्या? तोशक हम दोनों के लिए ही बनेगा। हम दोनों ही सुख भोगेंगे ।”

चक्की का पारा चढ़ गया। वह जोर-जोर से बोलने लगी। चेम्पन को डर लगा कि झगड़ा बढ़ जाने से पड़ोस के लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हो जायगा। इसलिए बात खत्म करने के ख्याल से वह घर से बाहर चला गया।

कर्ष्णम्मा माँ के पास आई और बोली, “अम्मा, मुझे स्त्री-धन

नहीं चाहिए।”

“क्यों? लड़की बिना स्त्री-धन के जाय तो यह अपमान की बात होगी। तुम्हारे पास भी चार पैसे अपने होने चाहिए।”

एक क्षण बाद करुत्तम्मा ने कहा, “ससुराल में न सास होगी, न ननद। ऐसी ही जगह जाना है न?”

यह वात चक्की के हृदय में चुभ गई। सचमुच लड़की ऐसी ही जगह जायगी जहाँ उसका कोई सम्बन्धी नहीं होगा। उसने कहा, “फिर भी बिटिया, गाँव वाले क्या कहेंगे?”

“ओ! गाँव वाले! मुझे किसी भी तरह विदा कर देना, मोतलालों को वह पैसा दे देना काफी होगा। वह बेचारा अब दिवालिया हो गया है, उसे इस तरह निराधार बनाकर मैं नहीं जा सकती। मेरे जाने पर वह बेचारा मर ही जायगा।”

करुत्तम्मा ने सब-कुछ कह डाला। लेकिन चक्की की समझ में बात आई कि नहीं, मालूम नहीं। बात समझ में आ गई होती तो एक माँ का आगे का क्या सवाल होता? समझ वहै कि चक्की ने बेटी के प्रेम की गति समझ लो हो, पर उसे न प्रकट करना ही ठीक समझा। उसने कहा, “बेटी, वह कर्जा चुकाने का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ।”

“बप्पा वह पैसा नहीं देगे।”

माँ ने सवाल किया कि भया किया जाय। करुत्तम्मा ने सुझाया कि बाप की तिजौरी से थोड़ा-थोड़ा चुराकर भी पैसा इकट्ठा किया जाय और कर्जा चुका दिया जाय। चुराने की बात अगर चेम्पन जान गया तो हत्या-काण्ड भी हो सकता है। चक्की मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी। उस तरह का काम उसने कभी नहीं किया था।

करुत्तम्मा ने पूछा, “तुम्हें इसमें डर क्यों लगता है अम्मा?”

डर तो था ही। इसलिए पहले के निश्चय के अनुसार काम नहीं हुआ।

‘चाकरा’ से गुरु मेरोज की कमाई काफी अच्छी थी। उस समय

थोड़ा-थोड़ा रोज-रोज निकाल लिया होता तो अब तक चुपचाप काम बन गया होता। कर्षतम्मा ने चक्की को हिम्मत बँधाई। उद्देश्य का महत्व चक्की की प्रेरणा का कारण बना। भौर मे जब चेम्पन समुद्र मे गया तब माँ-बेटी दोनों ने मिलकर बक्सा खोला और एक छोटी-सी रकम निकाल ली। दोनों का सारा दिन डर मे कठा। चेम्पन ने दिन की कमाई के रूपये बक्से मे बन्द किये। चक्की ने उस दिन अकारण ही दिन की कमाई के बारे मे पूछा।

चेम्पन ने जवाब दिया, “कोई भी ज़िग्गा नहीं चाहता था।”

“फिर भी कितना मिला?”

“जानकर क्या होगा?”

प्रतिदिन माँ-बेटी मिलकर थोड़ा-थोड़ा निकालती रही।

एक दिन चेम्पन ने पैसा गिनकर हिसाब किया। उस दिन माँ-बेटी दोनों का हाल बेहाल हो रहा था। चेम्पन ने जब बक्सा बन्द किया और माँ-बेटी की चोरी नहीं पकड़ी गई तब दोनों की जान-मे-जान आई।

बेटी ने माँ से पूछा, “कितना हुआ अम्मा?”

कई दिनों की कोशिश के फलस्वरूप वह सिर्फ सत्तर रुपये जमा कर पाई थी। करीब दस-बीस रुपये की सूखी मछली भी थी।

रकम छोटी होने पर भी उसे परी को दे देने का निश्चय किया गया।

## ६

शादी तय हो गई। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं थी। पूछने-कहने के लिए पलनी को तो कोई था नहीं, किसी मतभेद की भी गुजाइश नहीं थी। उसने सिर्फ अपनी नाव के मालिक से कहा और चेम्पन के साथ जाकर अपने घटवार को नजराना दिया। इस तरह लड़की की शादी न कराने की शिकायत भी दूर हो गई। चेम्पन ने तनकर चक्की से कहा, “क्यों री! देखा, किस तरह चेम्पन ने सब काम कर डाला!”

चक्की ने जड़ दिया, “हाँ-हाँ। लेकिन लड़का कैसा है। जिसके घर-द्वार का कोई पता नहीं। अच्छा है।”

“जा गधी कही की। तुझे क्या मालूम? वह लड़का होनहार है, कमाने वाला है, उसका शरीर बलिष्ठ है और तौर-तरीका अच्छा है। उसके-जैसा लड़का ढूँढ़ने पर भी यहाँ नहीं मिलेगा।”

चक्की ने विरोध नहीं किया। वह हँसती हुई बोली, “तब तो अब सुख भोगने मे कोई बाधा नहीं होगी।”

“मैं जरूर सुख भोगूँगा। पल्लिकुञ्जम की तरह ही सुख भोगूँगा।”

“लेकिन उस मोतलाली छोकरे का पैसा नहीं लौटाया न?”

चेम्पन ने झुँझलाकर कहा, “यह कैसी बात है कि जब भी करुत्तमा की शादी की बात उठती है तब तुम इस बात को छेड़ देती हो?”

चक्की चौक पड़ी। बात सच ही थी। करुत्तमा की शादी के साथ-साथ यह बात याद आ ही जाती थी। लेकिन चेम्पन विशेष रूप से इस पर ध्यान देगा, यह उसने नहीं सोचा था। चक्की ने एक नया तर्क पेश किया। “हम फिर से बच्चे बनकर सुख भोगना चाहते हैं न? नव-

उसका रूपया लौटा देने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाय तो अच्छा ही होगा, यही मैंने सोचा ।”

उसका भी उपाय है। बात उसे याद है। मौके और सुविधा के अनुसार वह एक-एक जिम्मेदारी निभायगा। उसने अभिमान पूर्वक चक्की से कहा, “अरी, हमे लड़का नहीं है। उसे बेटे की तरह अपना ले, यही मेरा विचार है ।”

चक्की ने कहा, “ऐसे भी तो वह हमारा बड़ा लड़का हुआ ।”

चेम्पन ने चक्की को और समझाया। पलनी के घर में अपना कोई नहीं है। इसलिए शादी के बाद उसे अपने यहाँ ही रख ले तो क्या-नुकसान होगा। अपने पास दो-दो नावे हैं ही। पलनी भी रहेगा तो अच्छा ही होगा। चक्की ने भी इन बातों पर विचार किया। उसे भी बात अच्छी लगी। बेटे का अभाव दूर हो जायगा। लेकिन चक्की के मन मे एक शका उठी, “पलनी को यह सब स्वीकार होगा क्या ?”

चेम्पन ने कहा, “क्यों नहीं स्वीकार होगा ?”

चक्की ने पूछा, “कौन ऐसा मल्लाह है जिसने मल्लाहिन के घर मे रहना पसन्द किया हो ?”

चेम्पन ने जरा सोचकर जवाब दिया, “उसे सब पसन्द आयगा री। वह बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा ।”

“हैँ-ऊँ-ऊँ। जरा अपनी बात सोचो न ! शादी के बाद दो दिन भी मेरे घर मे रहे थे क्या ?”

“मेरे तो माँ-बाप दोनों थे ।”

चक्की को विश्वास नहीं था कि पलनी साथ रहेगा।

करुतम्मा को चेम्पन की योजना का पता लग गया। उसने माँ से इसका चिरोध किया। करुतम्मा का विरोध देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने बेटी से कहा, “अरी, तू तो बड़ी कृतघ्न मालूम होती है। शादी तय होते ही माँ-बाप के प्रति तेरी मोह-माया खत्म हो गई । तब तो इतना कष्ट सहकर हमने जो तेरा पालन-पोषण किया सब बेकार ही हुआ।

जैसे ही तेरे लिए एक मल्लाह के आने की बात उठी, वैसे ही तुझे न माँ की जरूरत रही, न बाप की । हाय रे भाग्य !”

चक्की के शब्दों से करुत्तमा मर्माहत हो गई । उसने यह नहीं सोचा था कि उसके शब्दों का ऐसा अर्थ लगाया जायगा । क्या माँ-बाप के प्रति स्नेह की कमी से ही उसने विरोध प्रकट किया था ? माँ के घर मे रहने से उसके अभिमान को धक्का लगेगा, ऐसा भी उसका खयाल नहीं था । वह तो हमेशा माँ की बेटी रहेगी—उस माँ की, जो उसके लिए सब-कुछ करने को तैयार रहती है । और पचमी के बिना भी, वह कैसे रह सकती थी ? घर छोड़कर जाने का दिन !—वह दिन उसे कैसे सह्य होगा ?

इतना होने पर भी करुत्तमा चाहती थी कि वह वहाँ से किसी तरह चली जाय । विह्वल होकर उसने कहा, “अम्मा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था । तुम ऐसी बाते न करो ! मेरे लिए अपने माँ-बाप को छोड़कर और कौन हो सकता है ?”

सिसक-मिसककर रोती हुई वह अपनी माँ के कन्धे पर गिर पड़ी । माँ ने उसे गले से लगा लिया ।

चक्की ने जो-कुछ कहा था, यह सोचकर नहीं कहा था । उसे यह भी खयाल नहीं था कि उसकी बात सुनकर करुत्तमा इतनी दुखी हो जायगी । करुत्तमा फूट-फूटकर रो रही थी, मानो उसका हृदय ही फटा जा रहा हो ।

चक्की भी रो पड़ी । करुत्तमा ने कहा, “मुझे मुझे इस तट पर नहीं रहना है । नहीं तो हम सब एक साथ ही कहीं चले चले ।”

स्नेहार्द्द होकर चक्की ने पूछा, “विटिया, तू क्या कह रही है ?”

असह्य भाव से करुत्तमा ने कहा, “इस तट पर मैं रहूँ तो ।”  
“क्या होगा विटिया ?”

करुत्तमा कुछ कहना चाहती थी । चक्की को पहले भ्रम था कि उसके विचार-शून्य शब्दों की तीक्ष्णता ने ही करुत्तमा को रुलाया था । पर अब यह प्रकट हो गया कि कोई भारी चिन्ता करुत्तमा के मन को

डावॉडोल कर रही है। चक्की को पता नहीं था कि वह चिन्ता इतनी दुखदायी थी।

सिसकियों के बीच हॉफते हुए और होठों को दौत से दबाते हुए करुत्तमा ने कह डाला, “मैं यहाँ रहूँगी तो यह समुद्र-टट ही अपवित्र हो जायगा।”

चक्की की आँखें भी भर आईं। उसने कहा, “बिटिया मेरी, ऐसी बात न कह!”

“सच कहती हूँ अम्मा! मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। तभी ठीक होगा। मैं अपना दुख तुमको छोड़कर और किससे कह सकती हूँ?”

करुत्तमा को दिल खोलकर बाते करने के लिए और कोई तो था नहीं।— और हृदय भी पूरा खोला जा सकता है? यह सम्भव है?

उस ममय भी चक्की ने कहा, “हे भगवान्! मालूम होता है कि उस मुसलमान छोकरे ने मेरी बच्ची के ऊपर जादू-टोना कर दिया है।”

करुत्तमा ने इसका खण्डन किया और कहा कि किसी ने भी उस पर जादू-टोना नहीं किया है। उसने पूछा, “इस तट पर इसके पहले मेरे-जैसी लड़की हुई है अम्मा?”

“कैसी लड़कियाँ विटिया?”

“तुमको नहीं मालूम?”

“हे मेरी समुद्र-माता! बच्ची मेरी पागल हो गई है क्या?”

“मैं पागल नहीं हुई अम्मा! मैं पूछ रही थी कि मेरे-जैसी कोई लड़की यहाँ इसके पहले भी हुई है क्या?”

करुत्तमा नहीं जानती थी कि वह कैसे अपने मन का भाव प्रकट करे। वह जानना चाहती थी कि उसके-जैसी, किसी विजातीय के साथ प्रेम करने वाली मल्लाहिन उस तट पर कभी हुई है कि नहीं, जिसकी कठिन कोशिश के बावजूद, प्रेम-बन्धन शिथिल होने के बदले दृढ़तर होता गया और जिसके साथ जीवन-पर्यन्त दृढ़तर होने वाली प्रेम-कहानी लगी रही। इस तरह की प्रेम-कहानी से समुद्र-टट परिचित था क्या? क्या किसी विजातीय युवक - किसी मल्लाहिन से कभी प्रेम किया था और दोनों उस प्रेम में निराशा

होकर रह गए थे ? क्या उस तट के कण-कण में वैसे प्रेमियों के गीत ने प्राण का सचार किया था ? यदि हाँ, तो उन प्रेमियों की क्या स्थिति हुई ?”

माँ से ये सब बाते वह कैसे पूछती ? हो सकता है उस तट पर ऐसे प्रेमी और प्रेमिका रहे भी हो, जो भग्न-हृदय होकर गुजर गए हो । ऐसा हुआ होगा कि प्रेमिका ने अपन प्रेम को दिल मे छिपाये, किसी दूसरे की पत्नी के रूप मे अपना जीवन बिताया हो । नहीं तो—ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों ने आत्म-हत्या कर ली हो ।—ऐसा नहीं हुआ है तो . . . ।

करुत्तम्मा को लगा कि ऐसे भाग्य-दोष की भागी सिर्फ वही हुई है, उसीने उस तरह के एक युवक से प्रेम किया है । यद्यपि दूसरे लोगों की भी अपनी-अपनी प्रेम-कहानी रही होगी, फिर इस तरह का अनुभव सिर्फ उसीको हुआ है ।

चक्की ने घबराकर पूछा, “बिटिया, क्या कुछ गलती भी हो गई है ?”

करुत्तम्मा की समझ मे नहीं आया कि माँ क्या पूछ रही है । चक्की ने समझाने की कोशिश की । करुत्तम्मा ने कहा, “नहीं अम्मा, मैंने कोई खराब काम नहीं किया है ?”

करुत्तम्मा की यही प्रार्थना थी कि उसे बचने का मौका मिले । उसके मन मे एक भारी डर समा गया था और वह उस डर की छाया से भी बचना चाहती थी । माँ ने उसे बचाने का भार अपने ऊपर लिया । शादी के दिन ही उसे समुराल भेजने का उसने बचन दिया ।

करुत्तम्मा पडोस की औरतों के स्नेह और आदर की पात्र बन गई । पुराने जमाने से चला आने वाला एक रिवाज दुहराया गया । शादी तय हो जाने पर वधू को भार्या-धर्म का उपदेश साधारणत पडोस की स्त्रियों ही दिया करती है, यदि वधू कोई भूल करे तो इसके लिए पडोसियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है ।

नल्लम्मा ने करुत्तम्मा से कहा, “एक पुरुष को रखने की जिम्मेदारी तुम पर पड़ने जा रही है ।”

“एक मर्द के हाथ मे लड़की नहीं सौंपी जाती। यहाँ बात उलटी है।”

काली ने दूसरी बात कही, “समुद्र की उमड़ती तरगो के बीच हम लोगों के मर्दों का जीवन बीतता है बेटी !”

पेण्ठम्मा ने चेताया, “स्त्रियों का दिल कमजोर होता है बेटी, हम बहुत सतर्क रहना चाहिए।”

इस तरह सबने उपदेश दिये। सबने अपने जमाने मे जैसे उपदेश पाये थे, वैसे ही उपदेश वे दूसरों को दिया करती है। ऐसा करना वह अपना कर्तव्य समझती है। वहाँ से जाने वाली किसी भी लड़की के बारे मे पड़ोसियों को अब तक कोई शिकायत नहीं हुई थी। जो उपदेश दिये गए, सब निश्छल भाव से दिये गए।

करुत्तम्मा ने ध्यान देकर सब सुना। उपदेशों से उसका मन भर गया था। लेकिन माँ से जो वह पूछना चाहती थी वही बात उसे इनसे भी पूछनी थी, ‘क्या इस तट पर ऐसी कोई स्त्री हुई थी जिसने किसी से प्रेम किया और प्रेम पाया और फिर भी, दूसरे किसी से शादी की ?’

इस प्रश्न से उसका हृदय बोक्खिल था। लेकिन वह किसी से कुछ पूछती नहीं थी। ऐसी अभागिनी नारी की क्या स्थिति हुई होगी !

कभी-कभी करुत्तम्मा को लगता था कि ऐसी ही किसी शाप-ग्रस्त नारी की पिपासित आत्मा उस समुद्र-तट के बायु-मण्डल मे कन्दन करती हुई मँडराती फिरती है। उसे लगता था कि समुद्र के एकान्त स्थानों मे किसी की जीवन-कहानी सुनाई पड़ती है। . . . उसकी तरह दुखी जीवन बिताने वाली दादियाँ और परदादियाँ भी वहाँ हुई होगी। हवा मे सुनाई पड़ने वाली ध्वनि उन्हींकी जीवन-कथा होगी, समुद्र की लहरों की आवाज मे भी वही कहानी गूँजती होगी। मिट्टी का कण-कण भी यह सब जानता होगा। उन पर दादियों की अस्तियाँ बिखरकर वहाँ की मिट्टी के जरें-जरें मे मिल गई होगी। वे भी पडी-पडी व्यथित होती होगी।

एक दिन करुत्तम्मा ने नल्लम्मा से पूछा, “मौसी, इस तट पर स्त्रियाँ कभी पतित भी हुई हैं ?”

“हाँ, एकाथ के पतित होने की कहानी पुराने जमाने से चली आ रही है। वे जान-बूझकर पतित नहीं हुई थी। उनके जीवन की कहानी एक पुराने गीत का विषय हो गई है। उनके पतित होने के फलस्वरूप कैसे समुद्र में बड़ी-बड़ी तरणे उठी और कैसे जमीन पर जल का आक्रमण हुआ, कैसे समुद्री जीव अपने-अपने गुफानुमा मुँह खोले नावों के पीछे पड़ गए—आदि बातें उस गीत में बताई गई हैं। वह एक पुरानी कहानी है।” उस गीत की कुछ कडियाँ गाकर नल्लम्मा न करुत्तम्मा को सुनाइँ।

“वह भी एक प्रेम-कहानी थी।—तब वर्षों बाद उसकी कहानी भी एक ऐसे गीत का विषय बन सकती है।”

नल्लम्मा ने कहा, “समुद्र-तट पर यही गिवाज चला आ रहा है।” करुत्तम्मा ने पूछा, “आजकल की क्या बात है?”

“आजकल पुराने जमाने की शादी और पवित्रता नहीं है। अब पुरुष भी वैसे नहीं हैं। उस पुराने आचार-विचार से लोग हट रहे हैं। लेकिन समुद्र की बेटियों को अपने चरित्र की रक्षा तो करनी ही है।”

पडोस की छोटी लड़कियों ने पूछा, “दीदी, तुम जा रही हो?”

उसे इन बच्चियों से गम्भीर बाते करनी थी। उन्हे यह चेतावनी देनी थी कि हवा में उड़ने वाले सूखे पत्तों की तरह वे समुद्र-तट पर विचरण न करें। कइयों को उसने समझाया।

करुत्तम्मा का, विदा लेने का समय आ गया। उसने उम तट पर जन्म लिया था, वहाँ बड़ी हुई थी। अब उस जगह को छोड़ना होगा। लेकिन वह उस तट को कभी भूल नहीं सकती थी।

अब उसे कहाँ जाना होगा? वहाँ का तट कैसा होगा? करुत्तम्मा के मन मे यही सन्देह उठता था कि क्या वहाँ भी सूरज यहाँ की ही भाँति सुनहली कान्ति का प्रसार करते हुए अस्त होता होगा। आँधी और तूफान मे बहुत ऊँचाई तक उठने वाली लहरों का क्रीड़ा-स्थल बनते समय यहाँ के समुद्र का दृश्य बड़ा ही सुन्दर हो जाता है। उसे तट पर कभी डर नहीं लगता था। यहाँ की हवा मे, जिसमे उस पुरानी अभागी प्रेमिका की

कहानी सुनाई पड़ती थी, स्नेह भरा था । वहाँ का तट भी ऐसा ही होगा क्या ? कौन जाने ।

वहाँ के लोग ? वे भी स्नेहशील होंगे । फिर भी वह तट, जहाँ वह पली थी, विशेष रूप से उसे प्रिय था । अब वह इसको छोड़कर जा रही है ।

उसने सब चीजों से विदा ली ।

सच्च चाँदनी रात थी । समुद्र शान्त था । उस रात की चाँदनी में एक खास तरह की मिठास भरी मालूम पड़ रही थी । उसी चाँदनी में सिक्त होकर एक गीत का स्वर चारी ओर फैल रहा था ।

परी बैठा गा रहा था ।

करुत्तमा के कान में वह आवाज परी के गाने की आवाज-जैसी नहीं, बरन् एक आनन्दमयी दुनिया की पुकार-जैसी पड़ी । परी का व्यक्तित्व काफूर हो गया । गीत की वह ध्वनि सच्च चाँदनी में विह्वल उस तट की पुकार थी, उसके जीवन के आनन्द की पुकार थी । जिम तट को वह छोड़े जा रही थी उसी तट का वह सगीत था । उस तट की कितनी ही प्यारी-प्यारी मीठी स्मृतियों के चिन्ह थे ।

गाने की तरणे करुत्तमा के हृदय में प्रविष्ट हुई । वह उठ बैठी । परी का रूप उसके मन में प्रत्यक्ष हो गया । क्या सच्चमुच परी उसको बुला रहा था ? उस गीत के माधुर्य के सिवा उसे शान्ति देने वाला कौन था ? आज ही नहीं, वह रोज गायगा । उसके चले जाने के बाद भी गायगा । पर किसी को सुनाने के लिए नहीं ।

मैं सोई हुई थी । बाप घर मे नहीं था । समुद्र-तट पर एकान्तता का साम्राज्य था, यह वह जानती थी । अनजाने उसे दरवाजा खोलकर बाहर जाने की एक प्रेरणा हुई ।

उस गाने वाले का दिल टूक-टूक नहीं होता । कलेज, फाड डालने के लिए वह गा रहा था । गाने की तर्ज वही थी, जो कि एक पतित नारी की कहानी के गीत मे उसने सुनी थी ।

नल्लम्मा ने उसे यह गीत सुनाया था। गीत की कडियों के शब्द उसे पूरे याद नहीं थे। पर उसके भावों ने उसकी हृत्तंत्री को झक्कूत कर दिया।

वह पतित नारी भी इस तरह के गीत से आकृष्ट होकर समुद्र-तट की ओर बेसुध चल पड़ी होगी। चाँदनी ने उसे भी पुकारा होगा।—अब उसी तरह एक दूसरी नारी भी निकल रही है।

समुद्र में उत्तुग तरगे विकराल रूप धारण कर सकती है। हो सकता है बड़े-बड़े जल-जन्तु ऊपर सिर उठाकर गुफा के समान अपने मुँह खोलें; और जमीन पर जहरीले सौंप लोटे।

करूतम्मा का विचार एक नई दिशा की ओर गया। वह जा रही थी। जान-पहचान के सब लोगों से उसने विदा ले ली है। सब छोड़ जाने के लिए वह तैयार भी हो गई है। लेकिन तट पर की चाँदनी से उसने विदा नहीं ली थी, चाँदनी में चमकने वाले तट से उसने विदा नहीं ली थी, और हाँ, चाँदनी के देवता से जाने की उसने अनुमति नहीं ली थी।

हो सकता है कि कल, परसो और उसके जाने के दिन तक फिर यह गाना नहीं भी गाया जाय। हो सकता है कि उस दिन गाते-गाते गायक का कण्ठ ही रुद्ध हो जाय। यह भी हो सकता है कि गायक आगे गाना ही बन्द कर दे। तब उस तट की चाँदनी भी शोक से मूक हो जायगी।

वह एक दूसरे आवेग से पराभूत हो गई। अब आगे फिर कभी ऐसी चाँदनी में इस तरह के गान से अभिभूत होने का अवसर उसे नहीं मिल सकेगा। यह शायद उसका अन्तिम अवसर था। करूतम्मा को लगा कि वह इस अवसर का उपयोग किये बिना नहीं रह सकती। जिस आनन्द से वह व चित होने जा रही थी, उस आनन्द का एक बार फिर अनुभव ले लेने के लिए, वह तट पर खीचकर रखी हुई नाव की आड़ की ओट में अन्तिम बार जाने के लिए प्रेरित हो उठी।

उसी तट पर एक बच्ची के रूप में वह खेलती-कूदती पली थी। वही पर वह एक युवती हुई, और उसने प्रेम किया। अब वह भैंवर और जल-

जन्तु से भरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे की पतिव्रता पत्नी होने जा रही है। वह जीवन का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पार करने जा रही है। उसका जीवन आगे गुस्तर और अर्थपूर्ण होने जा रहा है। जीवन के हल्के हिस्से के इस आखिरी दिन, वह क्यों न थोड़ा आनन्द अनुभव कर ले।

लेकिन कर्ष्टम्मा को डर था। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। हो सकता है कि वह गलती कर बैठे और अपवित्र हो जाय। अब तक उसे इस तरह का कोई डर नहीं हुआ था।

कर्ष्टम्मा को परी से बहुत-कुछ कहना था। आगे गाने को उसे मना करना था। चौंदनी में इस तरह चिह्निल बनाने वाला काम न करने को कहना था। उससे अपनी गलतियों के लिए माफी भी माँगनी थी।

कर्ष्टम्मा खड़ी हो गई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर स्वच्छ चौंदनी फैली हुई थी। वह घर से बाहर निकली। नारियल के पेड़ों की छाया से होकर वह समुद्र-तट की ओर चल दी।

एकाएक गाना बन्द हो गया। गाते-गाते परी ने अपने देवता को सम्मुख खड़ा कर दिया। एक क्षण के लिए परी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ।

उसने पूछा, “कर्ष्टम्मा, तुम जा रही हो,?”

इसके सिवा बेचारा दूसरा क्या समाचार पूछता। उसने आगे कहा, “जाने के बाद मुझे याद रखोगी? नहीं भी याद रखो, तब भी मैं यहाँ बैठा गाता रहूँगा। बूढ़ा होने पर जब सब दौँत गिर जायेंगे तब भी बैठा गाता रहूँगा।”

कर्ष्टम्मा ने कहा, “छोटे मोतलाली, तुम एक अच्छी शादी करके घर बसाओ और व्यापार करके मुख-चैन का जीवन बिताओ।”

परी ने जवाब नहीं दिया।

कर्ष्टम्मा ने आगे कहा, “मोतलाली, तुम मुझे भूल जाना। बचपन में हम कैसे एक साथ खेला करते थे, वह सब भूल जाओ। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा।”

गद्गद स्वर मे परी ने आगे कहा, “तुम्हारा भला होवे।”

इससे अधिक वह बदौशित नहीं कर सकती थी। उसने कहा,  
“मोतलाली मुर्दे पर बार मत करो।”

परी को कुछ समझ मे नहीं आया। उसे डर लगा कि उसने कोई  
गंलत बात कह दी है, जिससे करुत्तम्मा को दुख पहुँचा है। अपने जानने  
तो उसने कोई कसूर नहीं किया था।

गहरे दुख के साथ करुत्तम्मा ने कहा, “ऐसे भी छोटे मोतलाली,  
तुम तो प्यार करते नहीं।”

“ऐसा क्यों कहती हो?”

परी ने कसम खाई कि उमकी मवसे बड़ी अभिलाषा करुत्तम्मा का  
सुख है। उसने कहा, “मैं यहाँ बैठकर गाता रहूँगा और जोर से  
गाऊँगा।”

करुत्तम्मा ने जवाब दिया, “मैं भी तृकुन्नपुषा समुद्र-तट पर बैठा-  
बैठी यह गाना सुनूँगी।”

“इस तरह गातेगाते कण्ठ फट जाने से मैं मर जाऊँगा। तब इस  
तट पर चौदही मे दो आत्माएँ मँडराती फिरेगी।”

परी ने हुकारी भर दी।

इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा।

बिना कुछ कहे ही करुत्तम्मा अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी।  
यही उसका चिदा लेने का तरीका था।

परी उसको देखता रहा। चिदा देने का उसका भी यही ढग था।

इस तरह वे एक-दूसरे से विलग हो गए।

## ४०

चक्की की इच्छा थी कि शादी जरा धूम-धाम से की जाय। पडोसियों को भी एक अच्छे समारोह की आशा थी। चेम्पन के पास पैसा था। करुत्तम्मा उसकी प्रथम पुत्री थी। ऐसी स्थिति में शादी धूम-धाम से होगी, ऐसी आशा करना स्वाभाविक ही था।

लेकिन चेम्पन इतना खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। करुत्तम्मा के लिए कुछ गहने बनवा देने में थोड़ा पैसा खर्च हो ही गया। बहुत हाथ रोकने पर भी कुछ खर्च किये बिना काम तो चलता नहीं। खर्च की बात को लेकर पति-पत्नी में तर्क-वितर्क हुआ। झगड़ा निवटाने का काम करुत्तम्मा को करना पड़ा। उसको बड़ा दुख हुआ कि उसीकी बात को लेकर माँ-बाप झगड़ते रहते हैं। किसी तरह शादी हो जाती तो चैन मिलता। उसे लगने लगा कि उसके कारण, उससे मम्बन्धित सब लोगों को दुख-ही-दुख होता है। आगे भी किस-किसको परेशान होना पड़ेगा, कौन जाने।

शादी का काम विधिवत् सम्पन्न होने से पहले घटवार को निमत्रण देना था। चेम्पन रूपया और पान-सुपारी-तम्बाकू आदि लेकर घटवार के यहाँ गया। घटवार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने शादी के दिन आने का आश्वासन दिया।

आखिर शादी का दिन आ गया। चेम्पन के अन्दाज से ज्यादा की ही तैयारी हो गई। घटवार पहले ही पहुँच गया। तृकुञ्जपुषा से दस-पन्द्रह लोग आये। उनके साथ कोई स्त्री नहीं थी। पलनी को अपनी तो कोई थी नहीं लाने के लिए। यह बात सबको मालूम ही थी। फिर भी घर-पक्ष की तरफ से कोई स्त्री नहीं आई है, यह शिकायत की बात हो

गई। चक्की को भी यह बात खली।

नल्लम्मा के मुँह से निकला, “ये लोग कम-से-कम पड़ोस की ही किसी स्त्री को बुला लाते।” काली ने उसका समर्थन किया, “हाँ जी। भला इन मर्दों के साथ लड़की को कैसे भेजेगे?” लक्ष्मी ने पूछा, “और उपाय ही क्या है?” नल्लम्मा ने कहा, “यह कैसा रिवाज है? लड़की को लिवा ले जाने के लिए वर के साथ औरतों का आना जरूरी समझा जाता है।”

औरतों के बीच हुई इस बातचीत की खबर चक्की को लगी। चक्की को खुद भी यह बात खटक रही थी।

रुपये-पैसे की बात तय करने का समय आया। रकम निश्चित करने का अधिकार घटवार का होता है। वह निश्चय हो जाने के बाद ही शादी होती है।

घटवार ने पलनी और उसके साथियों को बुलाया। सब आकर सामने आदर-भाव से खड़े हो गए। घटवार ने कहा, “पचहत्तर रुपये भर दो।”

यह सुनकर वर-पक्ष वाले स्तम्भित रह गए। इतनी बड़ी रकम की माँग की उन्हे आशा नहीं थी। सबकी यही राय हुई कि माँग की रकम बहुत बड़ी है। एक ‘जालवाले’ की शादी में ही इतनी बड़ी रकम माँगी जाती है।

कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तब वर-पक्ष के मुखिया ने सविनय निवेदन किया, “मालिक बुरा न माने। हम भी घाट वाले हैं। हमारा भी घटवार और कायदा-कानून है। आपने जो रकम तय की है, मैं उसका विरोध नहीं करता। फिर भी…… …।”

“कहो, कहो! क्या बात है?”

अच्युतन् (मुखिया) ने कहा, “पैसा भरने के लिए कहना आपके अधिकार की बात है। लेकिन वर-पक्ष वालों से जरा बाते कर लेनी चाहिए थी।”

घटवार की ओर से एक भूल हो गई थी। जब यह बतलाया गया तब घटवार अप्रसन्न हो गया। उसने पूछा, “अरे, इसमें इतनी पूछ-ताछ करने की क्या बात थी?”

अच्युतन् ने अपनी बात छोड़ी नहीं। उसके घाट पर भी एक प्रभावशाली घटवार था। उसने कहा, “हाँ पूछना ही चाहिए था।”

“क्या पूछना चाहिए था?”

अच्युतन् ने कहा, “लगता है कि यह शादी करने का आपका विचार नहीं है।”

बात जरा बढ़ गई। घटवार ने बिगड़कर उसे फटकारा कि उस पर आरोप लगाया गया है।

अच्युतन् न सफाई दी कि वर-पक्ष के पास कितनी रकम है, यह मालूम किये बिना ही, ‘इतनी रकम देनी है’ कहने का यही मतलब हो सकता है कि शादी ही न हो।

घटवार ने पूछा, “अरे, तुम लोग इतने गये-गुजरे हो?”

अपना घटवार न होने पर भी, एक घटवार का आदर करने के भाव से, उन लोगों ने उसकी डाट सह ली।

फिर भी अच्युतन् को कुछ कहना था।

घटवार ने चेम्पन से पूछा, “चेम्पा, तुम अपनी बेटी को ऐसे ही आदमी को सौप रहे हो जिसमें पचहत्तर रूपये भरने की सामर्थ्य भी नहीं है?”

स्त्रियों को यह प्रश्न अच्छा लगा। सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा था। सबके मन में एक तरह का दर्द था कि एक भली लड़की को एक ऐसे आदमी के साथ भेजा जा रहा है जिसके न घर-द्वार है, न भाई-बन्धु। सबने इसमें चेम्पन को कसूरवार ठहराया था। अब घटवार ने जब चेम्पन से जवाब तलब किया तब सबको अच्छा लगा।

चेम्पन चुप था। अच्युतन् ने कहा, “बात ठीक है मालिक! कोई उपाय नहीं है। हम लोग उसके कोई नहीं हैं। एक ही घाट के रहने

बाले हैं, बस इतना ही। इसीलिए कहा कि भरने की रकम के बारे में पहले पूछ लेना चाहिए था।”

अच्युतन् ने पलनी के बारे में जो बाते सुनाईं, उन्हे सुनकर कर्णतम्मा के प्रति स्त्रियों की सहानुभूति बढ़ गई। कुछ ने आपस में यहाँ तक कहा, कि ऐसी शादी कराकर लड़की को विदा करने के बदले उसे समुद्र में डूबो देना ज्यादा अच्छा होगा।

इतना होने पर भी घटवार ने अपनी बात नहीं छोड़ी। उसने कहा, “अरे ठीक है। फिर भी, पैसा भरने की बात लड़के की स्थिति देखकर ही होती है क्या?”

अच्युतन् ने नकारात्मक जवाब दिया। घटवार ने आगे कहा। “लड़की अच्छी है। उसे चाहते हो तो उसके लायक पैसा भी भरना होगा।”

वर-पक्ष के पप्पू नामक एक आदमी ने धीमे स्वर में कुछ कहा। उसे घटवार की बाते पसन्द नहीं आ रही थी। उसकी बर्दाशत के बाहर जब बाते हो गईं तब उसने कुछ कह दिया। घटवार ने बिगड़कर उससे पूछा, “अरे, तू क्या बक रहा है?”

उसने उस समय कुछ नहीं कहा। घटवार ने ऊंचे ढाला कि वह अपनी बात कहे।

मन में जो बात थी आखिर उसे कह ढालने का ही उसने निश्चय किया। हो सकता है कि यह कहने का उसने पहले से ही निश्चय कर रखा हो और चाहता हो कि शादी ही न हो। उसने एक चुनौती के तौर पर कहा, “हाँ, लड़की के बारे में ज्यादा कुछ न कहना हीं अच्छा है।”

“ऐ, क्या कहा रे?”

“वह यहाँ रहकर इस घाट को अपवित्र न करे इसी विचार से यह शादी कराई जा रही है न? हमारा घाट नष्ट-भ्रष्ट हो जाय या नहीं, इसकी आपको क्या परवाह है। फिर भी, मामूली रिवाज से बढ़कर लड़का पैसा भी भरे। यह तो बड़ी विचित्र बात है।”

उसकी बाते सुनकर सब लोग चौक गए। चक्की खड़ी-खड़ी जहाँ-की-तहाँ गिर पड़ी। करुत्तम्मा ने माँ को थाम लिया। उसके मुह से निकला 'माई रे माई'। उसकी चिल्लाहट ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। चक्की बेहोश हो गई थी।

चेम्पन पागल को तरह इधर-से-उधर दोडने लगा। उसको लगा कि पत्नी मर रही है और शादी भी रुक रही है।

कुछ लोगों ने इस तरह बात करने वाले को दोषी ठहराया और उससे ऐसी बाते करने का उद्देश्य पूछा। उस समय उसका उस तरह की बाते करना बिलकुल गलत बतलाया गया। लेकिन बोलने वाले को लेश-मात्र भी पश्चात्ताप नहो था। वह बिलकुल उदासीन था। उसने कहा, "अरे, मैं इस तट पर इसके पहले भी आया हुआ हूँ। मैं सब-कुछ जानता हूँ।"

इससे यही ध्वनि निकलती थी कि लड़की मे कोई रहस्यपूर्ण भेद छिपा है? लेकिन उस समय किसी का भी वह रहस्य जानने की उत्सुकता नहो थी। सबकी यही कोशिश थी कि किसी तरह उस आदमी का मुँह बन्द कर दिया जाय। सब दूसरे घाट पर आये थे न।

अच्युतन् ने गुस्सा दबाते हुए कहा, "अरे चुप भी हो जाओ।"

नल्लम्मा और काली दोनों चक्की की परिचर्या मे लग गई। जब वह होश मे आई तब करुत्तम्मा के गले मे हाथ डालकर 'बिटिया मेरी, बिटिया मेरी' कहती-कहती फिर बेहोश हो गई।

स्त्रियो ने करुत्तम्मा को ढाढ़स बँधाया और चक्की की परिचर्या मे लगी रही।

जब चक्की को थोड़ा आराम हुआ तब चेम्पन ने पलनी और अच्युतन् को पास बुलाकर कहा कि वह उन्हे ७५ रु देने के लिए तैयार है। उसे लेकर वे घटवार के कथनानुसार काम करे।

इस तरह भरने के लिए रूपये लेकर पलनी मढप मे आया। तब तक वहाँ का वातावरण भी शान्त हो गया था। पप्पू की बातों की ओर किसी

का ध्यान नहीं रहा।

ऐसा भरा गया। रिवाज के मुताबिक उसमें से एक हिस्सा घटवार ने लिया और वाकी चेम्पन को दिया गया। इतनी चख-चख होने पर भी मुहूर्त का सनय समाप्त नहीं हुआ था। शादी की प्रारम्भिक रस्म पूरी हो गई।

चक्की उठकर बैठने योग्य हो गई। लेकिन सिर में चक्कर आना बन्द नहीं हुआ था। बैठने समय ऑखों के सामने अँधेरा छा जाता था और कान से सुनाई नहीं पड़ता था। अधिक समय तक वह बैठने में असमर्थ थी।

लड़की मडप में लाई गई। मृप्तन<sup>१</sup> ने विधिवत् शादी कराई। मगल-सूत्र बाँधने और वधू को वस्त्र देने की विधि पूरी हुई। पलनी का हाथ करूत्तम्मा के हाथ में दिया गया। चेम्पन को लगा कि करूत्तम्मा ने उस समय अपना हाथ कड़ा कर दिया और जरा पीछे खीच लिया। उसको लगा कि करूत्तम्मा ने पलनी का हाथ ठीक से पकड़ा भी नहीं।

उस समय बेचारी करूत्तम्मा के मन में कैसे-कैसे विचार उत्पन्न हुए होंगे, यह कौन कह सकता है? जो-जो कहने को कहा गया वह एक यन्त्र की तरह करती गई।

औरतों ने चक्की को सहारा देकर मडप में लाकर खड़ा किया। ठीक मुहूर्त के समय चक्कों फिर बेहोश हो गई।

कुछ औरतों ने इसे अशुभ माना। चक्की फिर होश में आ गई। लोगों ने सान्त्वना दी कि पूरा आराम करने लेने से बिलकुल ठीक हो जायगी।

‘भोज का समय आया। उस समय फिर एक गडबडी हुई। कुछ औरते बिना खाना खाये हो चली गई। क्योंकि उन्हे पलनी की जाति के बारे में सन्तोष नहीं हुआ था। वर-पक्ष का गडबडी पैदा करने वाला पप्पू भी चला गया।

लेकिन इन बातों से चेम्पन विचलित नहीं हुआ। उसने घटवार के

पैर पकड़े और अपना दुखड़ा रोया कि चक्की गिर गई है, करुत्तम्मा आज तक घर से कभी बाहर नहीं गई, अब उसे अकेले दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वर के साथ कोई औरत भी नहीं आई है, ऐसी हालत में लड़की को उस दिन विदा न किया जाय तो अच्छा होगा। उसने आगे कहा, “पलनी भी रह जाय तो ठीक होगा। करुत्तम्मा चली जायगी तो बीमार को थोड़ा पानी औटाकर देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा।”

चेम्पन पागल-जैसा हो रहा था। उसे देखकर घटवार ने सहानुभूति के साथ कहा, “तुम्हारा कहना सब ठीक है चेम्पा, लेकिन वर-पक्ष वाले यदि जोर दे कि शादी के बाद लड़की को ले ही जायेंगे तो मना कैसे किया जा सकता है?”

चेम्पन ने कहा, “मालिक, आप कहे तो वे लोग मान जायेंगे।”

घटवार ने हँसकर कहा, “वे सब वृक्तुन्नपुषा के हैं। धूर्त हैं सब। तुमने अभी देखी हो है उनकी धूर्तता?”

चेम्पन को घटवार की ही सहायता का भरोसा था। उसने सौचा कि घटवार कोशिश करे तो काम हो जायगा।

भोज के बाद पान-सुगारी का वितरण हुआ। अच्युतन् ने बारात को विदा करने की अन्यर्थना की। करुत्तम्मा माँ के पास बैठा थी। उसकी आँखों से अदिरल अध्रु-धारा बह रही थी। काम की भीड़ में चेम्पन इधर-से-उधर ढौड़ रहा था। अच्युतन् ने विदा करने की बात दुहराई। तिबारा जब बात उठाई गई तब चेम्पन के लिए उपेक्षा करने का कोई रास्ता नहीं रहा। उस समय घटवार ने पूछा, “क्यों जी, लड़की को आज ही ले जाना जरुरी है क्या?”

ऐसे सवाल की किसी को आशा नहीं थी। अच्युतन् की समझ में यह नहीं आया कि तुरन्त क्या उत्तर दे। घटवार जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्युतन् ने पूछा, “आप यह क्यों पूछ रहे हैं?”

“क्यों?”

“शादी के बाद लड़की को छोड़ जाना न्याय-संगत होगा?”

घटवार को मालूम था कि उसका प्रश्न उचित नहीं है। लड़की को छोड़ जाने के लिए अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उसने उस घर की तात्कालिक परिस्थिति का वर्णन किया। वह बात उन लोगों को मालम थी ही। घटवार ने पूछा, “मैं पूछता हूँ कि माँ के जरा अच्छी होकर उठने के बाद लड़की को ले जाना काफी नहीं होगा।”

अच्युतन् ने जवाब दिया कि लड़का ही इसका उत्तर दे सकता है।

अपने तर्क की पुष्टि में घटवार ने कहा, “लड़की को इसी समय ले जाना चाहिए, इस बात पर जोर देना आप लोगों के लिए ठीक भी नहीं है।”

अच्युतन् ने पूछा, “क्यों?”

“लड़की को लिवा ले जाने के लिए एक स्त्री भी तो आप लोगों के साथ नहीं आई है।”

मुँह-तोड़ जवाब के तौर पर अच्युतन् ने पूछा, “जिसके साथ ऐसी कोई स्त्री आने के लिए नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को लड़की दी ही। क्यों गई?”

घटवार ने जरा गुस्सा दिखाने हुए कहा, “तुम सिर्फ़ तर्क कर रहे हो जी।”

अच्युतन् चुप हो गया। वह बात तय करने का भार लड़के पर आया। अच्युतन् ने उसी पर छोड़ दिया। घटवार ने सोचा कि पलनी विरोध नहीं करेगा।

कुछ समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तब अच्युतन् ने देरी होने की बात कही। घटवार ने यह राय प्रकट की कि पलनी भी रह जाय तो अच्छा होगा। इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब देना था पलनी को।

अच्युतन् ने पलनी से कहा, “अरे तू क्या कह रहा है? हमें तो जाना है।”

पलनी हिचकिचाया। उसे मालूम नहीं हुआ कि क्या कहे। सब बाते वह सुन रहा था। वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका था।

जो भी हो, ऐसा नहीं मालूम होता था कि वह उन बातों से प्रभावित हुआ है।

अच्युतन् ने असन्तोष प्रकट करते हुए कहा, “अरे कुछ जवाब नहीं देता। बेकार क्यों दूसरों को हैरान कर रहा है?”

अच्युतन् ने शिकायत की कि पलनी-जैसे आदमी के काम में पड़ने से भले लोगों के साथ झगड़ना भी पड़ा।

पलनी क्या कहेगा यह जानने के लिए चेम्पन आतुर हो रहा था। उसका विश्वास था कि पलनी सीधे स्वभाव का है, वह कोई जिद नहीं पकड़ेगा। ऐसे तो वह जहाँ रहे, वही उसका घर है। इसीलिए वह साथियों को भेजकर रह जायगा, ऐसा ही चेम्पन ने सोचा।

अच्युतन् ने फिर कहा, “कुछ जवाब दो न पलनी।”

पलनी ने अच्युतन् की तरफ और फिर दूसरों की तरफ देखा। कहीं से कोई सकेत उसे नहीं मिला। उसने कहा, “मैं लड़की को अभी ले जाना चाहता हूँ।”

चेम्पन को आश्चर्य हुआ। उसने ऐसे मुँह-तोड़ जवाब की आशा नहीं की थी। छाती पीटते हुए उसने विनती की, “बेटा, उसकी माँ की स्थिति जरा देखो, तब कहो।”

इस स्थिति से पलनी के दिल को कुछ हुआ कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। पलनी ने किसी सकेत की प्रतीक्षा में फिर अच्युतन् की ओर देखा। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

पलनी बोला, “मैं लड़की को ले ही जाना चाहता हूँ।”

अब उसका दिमाग भी काम करने लगा और कई तर्क उसने पेश किये। यद्यपि उसके पास घर-द्वार नहीं है, फिर भी एक घर बसाने के लिए ही उसने यह शादी की है। उसे एक नया जीवन शुरू करना है। शादी करके छोड़ जाने से उसका काम नहीं चलेगा। उसे कई काम शुरू करने हैं और एक भी टालने लायक नहीं है। इसलिए वह लड़की को साथ ही ले जाना चाहता है।

इतनी बाते पलनी कह सका, यह आश्चर्य की बात थी। उसने देखा कि उसकी बाते साथियों को पसन्द आई। लेकिन इसका असर चेम्पन पर क्या पड़ा, इसका खयाल किसी को नहीं था। चेम्पन ने दयनीय भाव से गिडगिडार कहा, “बेटा, एक बच्ची को पालकर बड़ी करने वाला व्यक्ति ही तुमसे कह रहा है। तुम भी एक पिता बनने वाले हो।”

पलनी अटल रहा। हो सकता है कि साथियों को बात मजूर होती, तो पलनी भी राजी ही जाता। हो सकता है कि अच्युतन् का दिल भी पिछल गया ही। लेकिन उसने प्रकट नहीं किया। घटवार तो पिछल ही गया। उसे गुस्सा भी आया। उसने कहा, “यह कैसे हो सकता है? वह तो किसी घर में पला हुआ है नहीं। मॉ-बाप की ममता वह क्या जाने? घर में ही आदमी मोह-माया सीखता है। जो समुद्र-तट पर पला हुआ है, उसे ये गुण कहाँ से मिले होंगे?”

कुछ क्षण के बाद घटवार ने चेम्पन से कहा, “ऐसे आदमी को लड़की देने के लिए तुम ही दोषी ठहरते हो।”

चेम्पन ने कुछ नहीं कहा। घटवार का कहना उसे ठीक मालूम हुआ। जिस पलनी को उसने पहले देखा था वह ऐसा निकलेगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। हो सकता है कि घर के बातावरण में न पलने से उसमें यह कमी रह गई हो। भविष्य में कौन जाने, क्या-क्या होने जा रहा है। चेम्पन को भी लगा कि उसने अपनी बेटी पलनी को देकर उसने गलती की है, शादीके दिन ही यह बात प्रकट हो गई। पलनी में मोह-माया है ही नहीं, यह बात शुरू में ही स्पष्ट हो गई।

अच्युतन् ने एक उपाय सुझाया, “अरे तू क्यों यह शाप अपने ऊपर ले रहा है? जाना तो लड़की को है। पहले उसीसे पूछा जाय, उसीको कहने दिया जाय।”

यह सुझाव चेम्पन को पसन्द आया। पलनी को भी इससे सन्तोष हुआ। घटवार ने भी इसे ठीक समझा। उसने कहा, “यह ठीक है, उसे ही कहन दो। लड़की को इधर बुलाओ।”

चेम्पन ने करुत्तम्मा को बुलाया। वह माँ के पास बैठी थी। रोते-रोते भीगे हुए चेहरे सहित वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। घटवार ने उससे पूछा, “अरी, तू अपनी माँ को ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने को तैयार है क्या? यहाँ तेरे बाप को भी पाव-भर पानी औटाकर देने के लिए कोई नहीं है। शादी के बाद तो पति के साथ जाना ही धर्म है। फिर भी तू सोचकर तय कर।”

करुत्तम्मा इसका क्या उत्तर देती! किसी निश्चय पर पहुँचने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने अपने गाँव से विदा ले ही ली थी। डर के साथ उसने भविष्य के बारे में सोचा, वह जितनी जलदी हो सके उतनी ही जलदी गाँव को छोड़कर चली जाने के लिए तैयार थी। वह दिन भी आ गया। लेकिन उसी दिन उसकी माँ भी अस्वस्थ हो गई। पिता की सेवा के लिए भी कोई नहीं था। करुत्तम्मा रो पड़ी। कुछ बोलने की शक्ति ही उसमें नहीं थी।

सब लोग उत्सुकता पूर्वक उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। घटवार ने कहा, “बेचारी कैसे कोई जवाब देगी! फिर भी जवाब उसे ही देना है। उसीको बात तय करनी है न!”

करुत्तम्मा माँ के पास गई। वह उसके गाल से-गाल सटाकर फूट-फूटकर रोने लगी। चक्की भी रो रही थी। करुत्तम्मा ने माँ से बहुत-कुछ पूछा। लेकिन माँ की समझ में कुछ नहीं आया। माँ ने पूछा, “बिटिया, तूने क्या पूछा?”

करुत्तम्मा कुछ बोल नहीं सकी। सिसकते-सिसकते वह इतना ही कह सकी कि ‘मै.. मै.. नहीं जाऊँगी, अम्मा।’

एकाएक चक्की ने कहा, “बिटिया मेरी! तू ऐसा मत कह! तू जा! तू नहीं जायगी तो..।” माँ वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसकी आँखों सामने करुत्तम्मा के न जाने से, क्या-क्या हो सकता है उसका चिन्ह बिच गया। भले ही एक बूँद पानी तक देने के लिए घर में कोई न रहे, लेकिन वह बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगी। चक्की ने बेटी

को, जितनी जलदी हो सके, भेज देने का निश्चय किया। उसने कहा, “बिटिया, तू जाकर कह दे कि तू जायगी।”

चक्की ने जबरदस्ती करूत्तम्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया और डाटते हुए यह कहकर उसे जाने के लिए बाध्य किया, “क्यों री-तू उस मुसलमान छोकरे को छोड़कर जाना नहीं चाहती क्या?”

माँ की फटकार सुनते ही करूत्तम्मा मेरे न जाने कैसे एक शक्ति आ गई। उसने दरवाजे पर जाकर कहा, “मैं जाऊँगी।”

बाद को माँ-बेटी दोनों एक गाढ़ आलिङ्गन मेरे बैंध गईं। दोनों का हृदय फट रहा था।

करूत्तम्मा ने चेम्पन के पैर पर गिरकर दोनों हाथ से उसके पैर पकड़ लिये। चेम्पन पैर झाड़कर मुँह फेरकर खड़ा हो गया। कुछ समय वैसी हीं पड़ी रहने के बाद करूत्तम्मा उठी। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और सब बातें याद रखने को कहा।

पलनी ने विदा माँगी। लेकिन चेम्पन ने कुछ नहीं कहा। चेम्पन परेशान नहीं दीख रहा था। वह रोता भी नहीं था। उसका भाव पूरा बदल गया था, चेहरा लाल हो उठा था और रौद्र रूप मेरे परिणत हो गया था।

दस-पन्द्रह लोग आगे-आगे और करूत्तम्मा पीछे-पीछे इस तरह सब लोग आगे बढ़े। बेटी को विदा होते देखने के लिए माँ ने हाथ के सहारे सिर उठाकर देखा। लेकिन उसका सिर नीचे लुढ़क गया। नल्लम्मा ने आँख बहाते हुए चक्की का सिर थाम लिया।

होठों को दाँत से काटते हुए चेम्पन गरज पड़ा, “वह मेरी बेटी नहीं है।”

रोती हुई पचमी चिल्ला उठी, “दिदिया ! ओ दिदिया ! ! ”

चक्की के पास नल्लम्मा और काली थी।

करूत्तम्मा अपने भावी जीवन की ओर अग्रसर होती हुई रो रही थी। वह भावी जीवन कैसा होगा? खतरों से बचकर ही वह जा रही थी क्या? उसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की। उसने स्वयं भी कोई प्रार्थन

नहीं की ।

शायद परी उसके लिए प्रार्थना कर रहा होगा ।

इस तरह उस तट पर से वहाँ की चिरपरिचिता करुत्तमा विदा हो गई ।

क्या आगे भी परी के गाने का स्वर वहाँ गूँजेगा ? शायद गूँजेगा ।  
लेकिन सुनने वाली नहीं रहेगी ।

## दूसरा खण्ड

## ११

वहाँ का समुद्र ही करुत्तम्मा को भिन्न प्रकार का लगा। उसका पानी भी दूसरे किस्म का था। वहाँ समुद्र शान्त नहीं है। भीतर खौलती हुई भैंवरों और अन्तर-धारा को समुद्र अपने में छिपाये रहता है। वहाँ की मिट्टी के रंग में भी फर्क है।

नई वधु को देखने के लिए कई लोग आये। वह लोगों से कैसे मिले और बाते करे, यह उसको मालूम नहीं था। जो-जो स्त्रियाँ मिलने आईं, सब उसे बड़े गौर से देखने लगी। करुत्तम्मा को यह बहुत बुरा लगा।

फिर भी वह यह जानती थी कि सब पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। पर यह कैसे हो, यह उसके लिए चिन्ता की बात हो गई।

भीर में पलनी समुद्र में गया। मछली पकड़ने का वह बहुत अच्छा समय है। करुत्तम्मा अब एक घर की मालिकिन थी। उसे अब काम था।

घर में एक पतीला, एक घड़ा और एक कलछी इतना ही सामान था। एक घर के लिए और भी कितने ही ज़रूरी सामान जुटाने थे। एक टोकरी में थोड़ा चावल, नमक, मिर्च आदि खरीदकर रखा था। शादी के पहले पलनी को घर नहीं था। घर में क्या-क्या रहना चाहिए, यह बताने के लिए भी उसके कोई नहीं था। अब करुत्तम्मा को सबका इन्तजाम करना था।

करुत्तम्मा ने भात तैयार किया। प्याज की एक झोलदार तरकारी भी तैयार की। इसके लिए बरतन एक पडोसी के यहाँ से माँग लाई। मसाला पीसने का काम भी पडोसी के घर में ही हुआ। उत्तर वाले घर की बुढ़िया ने उसे उपदेश दिया, “बेटी, एक लड़के को तुम्हारे हाथ में

सौपा गया है। सब तुम्हीको सँभालना है।”

अपने तट पर करुत्तम्मा ने जो-जो सुना था, वह सब यहाँ भी सुना। कोई भी लड़की हो, कहो भी हो, उसे इसी तरह के उपदेश सुनने पड़ते होंगे। नहीं तो क्या वे उपदेश विशेष रूप से उसीके लिए थे? उसे लगा कि सब लोग उसे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। क्या लोगों को उसके रहस्य का पता लग गया है?

वहाँ की स्त्रियाँ इकट्ठी होकर नव-वधू के बारे में बाते करने लगी। बाते करने लायक विषय भी तो था। करुत्तम्मा एक ‘जाल बाले’ की बेटी है, जिसके पास दो नावे हैं। तब लड़की को एक ऐसे लड़के के साथ क्यों भेज दिया गया जिसके पास न कोई घर है, न सगे-सम्बन्धी ही।

एक ने कहा, “हो सकता है, लड़की के बाप के पास नाव और जाल न हो।”

कोच्चम्मा ने इसका खण्डन किया। उसका पति ‘चाकरा’ के समय नीकुञ्जम टट पर गया था। उसे सब सच्ची बाते मालूम थी। उसने कहा, “उसके पास नाव भी है और पैसा भी। बहुत पैसा।”

तब बाबा ने पूछा, “ऐसी बात है तो लड़की की शादी इस लड़के के साथ क्यों हुई?”

कोच्चम्मा ने पूछा, “लड़के में क्या कमी है?”

कोता तो कुछ और ही सन्देह था, “मेरे खयाल में लड़की में कुछ गडबड़ी है।”

ऐसा लगा कि कोता कोई बात जानकर बोल रही है। सबके सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई। सब ने कोता से ऐसा कहने का कारण पूछा। कोता ने कहा, “लड़की ने कुछ अनुचित काम किया होगा और लोगों को उसे अपने तट से किसी तरह भेज देने की फिक्र हो गई होगी।”

यह सुनकर बुदिया चौक गई। उसने कहा, “तब क्या वह यहाँ हमारा तट भी झष्ट करने आई है?”

बुदिया ने अपने कलेजे पर हाथ रखा। सबने कोता से स्पष्ट बाते

कहने को कहा । लेकिन कोता ने आगे कुछ नहीं कहा ।

भात और तरकारी बना लेने पर करुत्तम्मा का काम खत्म हो गया । उसके घर मे लोग आते-जाते रहे । उसे लगने लगा कि सब लोग उसे एक विचित्र प्राणी की तरह मानकर व्यवहार कर रहे हैं ।

चक्की की बीमारी के बारे मे भी लोग जान गए । माँ जब उस हालत मे पड़ी हो तब कोई बेटी घर छोड़कर कहाँ जा सकती है? माँ का ही प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण माना जायगा न । इस बात ने लोगों को करुत्तम्मा के बारे मे अधिक जिज्ञासु बना दिया ।

दोपहर होते-न-होते करुत्तम्मा एक बड़े रहस्य का केन्द्र बन गई । सब घरों मे उसके बारे मे बाते होने लगी ।

वह एक भ्रष्टा होगी, किसी भी तरह उसे दूर करना था । यही सोच-कर यहाँ भेज दिया होगा । यही बात ही तो? यह एक प्रश्न हो गया ।

करुत्तम्मा ने माँ के बारे मे सोचा । माँ की हालत कौसी थी, यह उसे मालूम नहीं था । माँ को उस हालत मे छोड़कर आना ठीक था क्या? पिता ने हमेशा के लिए उसे त्याग दिया है । पिता के अन्तिम शब्द कि 'वह मेरी बेटी नहीं है' उसके कानों मे गूँज रहे थे ।

करुत्तम्मा अपने पिता को अच्छी तरह जानती थी । उसे अब वह बेटी के रूप मे मानेगा ही नहीं । उसे लगा कि उसका व्यवहार कठोर हो गया था । एक लड़की ने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा । नीकुंशम तट पर सब उसे दोषी ठहराते होंगे और शाप भी देते होंगे । लेकिन माँ ने आशीर्वाद दिया था । माँ की मज़री उसे मिली थी ।

बेचारी माँ कितना बरदाश्त करती है! एक माँ की यही गति होती है । पाव-भर पानी खोलाकर देने के लिए कोई नहीं है । ऊपर से, पिता माँ को ही दोषी ठहराता होगा । वह भी माँ को सहना पड़ेगा । उसके कारण माँ को और भी सहना पड़ेगा । पिता उसे कभी माफ नहीं करेगा ।

करुत्तम्मा ने अपने भावी जीवन के बारे मे भी सोचा । उसकी एक माँ थी, बाप था । वह बाप परिश्रम करके कमाने वाला था । उसका

जीवन सुरक्षित था । जीवन की उसकी आशाएँ और आवश्यकताएँ परिमित थीं और सबको पूर्ति होती थीं । कभी का उसने कभी अनुभव नहीं किया । वह सब उन सबको त्यागकर, सुरक्षित स्थिति से निकलकर एक नये जीवन में आई है । यह नया जीवन कैसा होगा ।

उसे खाना मिलेगा ? पहनने को कपड़े और लगाने को तेल मिलेगा ? भूख क्या है, इसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था । आगे क्या होगा, यह कौन जानता है ! कुछ भी निश्चित नहीं है । क्या वह दिल खोलकर हँस भी सकेगी ? उसे अब सब-कुछ अनिश्चित और अरक्षित-सा लगने लगा ।

उससे किसी ने प्रेम भी किया है ? जिसके साथ वह आई है, क्या वह आदमी उससे प्रेम करेगा ? यह एक बड़ा प्रश्न था । उसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था ।

यह आदमी, जिसने माँ को उस स्थिति में देखकर भी ऐसी जिद पकड़ी थी, कैसा निकलेगा ? यदि उसने कह दिया होता कि 'लड़की को अभी नहीं ले जाऊँगा' तो कोई झक्झट नहीं खड़ा होता । दो दिन ठहर जाने से सब ठीक हो जाता । . . ऐसी परिस्थिति में इस आदमी का स्नेह और प्रीति प्राप्त करके उसे कैसे काथम रखा जा सकता है ? ऐसा निर्दर्यता-पूर्ण व्यवहार इस आदमी से आगे भी हो सकता है न ? स्नेह को बनाये रखना कैसे सम्भव होगा ?

अब इसके सिवा उसका कौन है ? कोई नहीं, यही अब उसका एक-मात्र सहारा है । इसकी इच्छा-अनिच्छा ही अब उसके जीवन का आधार है । पर उन इच्छाओं-अनिच्छाओं के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है ।

करुत्तमा को लगा कि वह सब-कुछ सह सकती है । उसे सब-कुछ सहन करते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त करने वाली अनगिनत मल्ला-हिनो में से एक होकर रहना पर्याप्त मालूम हुआ । वह चाहती थी कि उसका जीवन साधारण तौर से समाप्त हो जाय और कोई विशेष घटना न घटे । क्या यह सम्भव था ? यही उसका डर था । उसका अन्त करण

भीतर से चेतावनी देना-सा मालूम पड़ा कि यह सम्भव नहीं है। इस आशका ने उसके मन मे आज से नहीं, बहुत पहले से ही जगह कर ली थी। सम्भव है, उसके जीवन मे और घटनाएँ घटे, जो उसके जीवन की धारा को और भी टेढ़ी-मेड़ी कर दे। इस विचार ने एक रूप धारण किया।

करुत्तम्मा ने चाहा कि उसका पति उससे प्यार करे। लेकिन उसे सन्देह हुआ कि उसकी यह इच्छा न्याय-सगत है या नहीं।

युवतियाँ साधारणत चाहती हैं कि पति उन्हे प्यार करे। लेकिन क्या प्रेम का असली बोध किसी को होता है? प्रेम क्या है, यह करुत्तम्मा ने जाना है। प्रेम की व्यथा का भी उसे अनुभव हुआ है। शायद इसीलिए उसे सन्देह हुआ कि पति का प्रेम उसे प्राप्त हो सकता है कि नहीं।

उसके मन मे यह विचार बैठ गया कि पलनी प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं है। तब वह अगता घर छोड़कर क्यों आई? यह परीक्षा खतरे से खाली नहीं थी। वह घर ही क्यों न चली जाय? पर वह तो इससे भी बढ़कर खतरे वाली परीक्षा साबित होगी।

दोपहर को पलनों समुद्र से लौटा। करुत्तम्मा ने श्रद्धा पूर्वक उसे भात और तरकारी परोस दी। वह उसे प्रश्न बार खिला रही थी। तरकारी उसे पसन्द आयगी कि नहीं? भोजन अच्छा लगेगा कि नहीं? पलनी ने खाना शुरू किया। भोजन की शुरूआत सन्तोषप्रद लगी। करुत्तम्मा को थोड़ी तसल्ली हुई। वह चौके के दरवाजे की आड मे खड़ी थी। वहाँ से उसे जो-कुछ कहना था, सब कहा। दूसरी तरकारी बनाने के लिए कड़ाही नहीं थी इसीलिए एक ही तरकारी तैयार की है; भात मे ककड मिलेगे, क्योंकि चावल साफ करने के लिए कोई बरतन नहीं था, शायद कलछी एक ही है, जोल जो बना है अच्छा नहीं हुआ होगा, क्योंकि छौकने के लिए कुछ नहीं था। उतर वारी पडोसिन से कड़ाही लाकर काम चलाया और वही जाकर मसाला भी पीसा। ये सब बाते करुत्तम्मा ने कह डाली और आगे कहा, “हमे थैला, पतीला, बरतन सब खरीद लेने चाहिए।”

“खरीदेगे, लेकिन सब एक साथ नहीं हो सकता।”

“एक साथ नहीं चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके ले लेना काफी है।”

परोसा हुआ सब भात पलनी ने खा लिया। करुत्तम्मा थोड़ा और परोसने लगी। पलनी के ‘बस-बस’ कहने पर भी एक कलछी और डाल दी। यही दस्तर है। करुत्तम्मा वह जानती थी। पलनी ने कहा, “भात ज्यादा हो गया।”

“इससे क्या? ज्यादा जो है छोड़ देना।”

थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, “झोल अच्छा नहीं बना है क्या? भोजन अच्छा नहीं लगा?”

“झोल बढ़िया बना है। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है।”

“इतने ही को बहुत ज्यादा कहते हो? खूब!”

“मैं इतना नहीं खाता था।”

एक पत्नी की मुस्कुराहट के साथ करुत्तम्मा ने कहा, “आगे और ज्यादा खाओगे, नहीं तो मैं खिलाऊँगी।”

पलनी हँस पड़ा। वह हँसी भावपूर्ण थी। दर्द-भरे हृदय को आश्वस्त करने वाली थी। पलनी शान्त प्रकृति का है। उसको मानता है। सबसे बढ़कर, उसकी आँखों से एक अनिर्वचनीय भाव प्रकट होता है। शूरू-शुरू मे यह काफी था न।

करुत्तम्मा उसी बरतन मे भात परोसकर खाने बैठ गई। हाथ धोकर एक बीड़ी पीते-पीते पलनी भी चौके मे आ गया और करुत्तम्मा के पास बैठ गया। उसने कहा, “तुम्हे मैं परोस दूँ।”

करुत्तम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी हृदय-कली आनन्द-सागर मे गोते लगाने के लिए व्याकुल हो रही थी। स्नेह की मन्दोषण किरणे उस कली को प्रस्फुटित करने लगी।

“ओह, बातों में फँसकर कुछ खाया ही नहीं।”

“मेरा पेट भर गया।”

पलनी ने हँड़ी की ओर देखते हुए पूछा, “भात नहीं है क्या?”

“है, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए।”

“नहीं, काफी नहीं था।”

पलनी ने एक कलछों भात निकालकर डाल दिया। करुत्तम्मा ने ‘ना-ना’ किया। फिर भी उसने परोसा हुआ भात खा लिया।

करुत्तम्मा ने एक प्रेमिका के तौर पर नहीं, बरन् एक गृहिणी, एक घर की मालिकिन के तौर पर अपना जीवन शुरू किया।

पलनी भी एक घर का मालिक बन गया। खाकर और बरतन साफ करके रखने के बाद जब करुत्तम्मा आईं तब पलनी ने कहा, “कह, क्या-क्या खरीदना है?”

“सब-कुछ खरीदने लायक पैसा है क्या?”

पलनी ने पैण्ठ मे से कागज मे लपेटकर रखे हुए पैसे निकालकर गिने। चार रुपये थे। उस दिन की आमदनी और खर्च का हिसाब सुनाया। समुद्र मे ‘बटोर’ कम हुआ था। शादी के लिए जो कर्जा किया था, सो थोड़ा चुकाया। बाकी जो बचा था, सो ही वे चार रुपये थे।

करुत्तम्मा ने पूछा, “यहाँ बटवारे की क्या रीति है?”

“सौ मे पचास।”

“हमारे यहाँ सौ मे साठ है।”

करुत्तम्मा ने कहा, “पडोस के टट की रीति बताकर हिस्सा माँगना।”

पलनी ने उपेक्षा भाव से पूछा “यहाँ ऐसा ही चलता है।”

करुत्तम्मा ने सुनाया कि कैसे चेपन ने मजदूरों का सगठन करके हिस्सा बढ़ाकर १० कर दिया।

पलनी ने जवाब दिया, “यहा ऐसा नहीं हो सकता।”

पलनी ने फिर पूछा कि क्या-क्या जरूरी सामान लाना है।

करुत्तम्मा ने पूछा, “अभी ही खरीदने जाओगे?”

“हाँ।”

करुत्तम्मा ने कहा, “जरा आराम कर लो। समुद्र से मेहनत करके

लौटे हो । अभी ही तुरन्त जाने की जरूरत नहीं है । लोग मेरी शिकायत करेगे कि काम पर से आते ही मैंने तुम्हे बाजार भेज दिया । थोड़ा आराम करने के बाद शाम को जाना काफी है ।”

पलनी को उसकी सलाह पसन्द आई । वह एक चटाई बिछाकर लेट गया और करूतम्मा को अपने पास बुलाया ।

शायद करूतम्मा इस बुलाहट की प्रतीक्षा में थी । उसने आवाज़ दी और सकुचाते हुए पास आ गई । शायद उसमें एक सुरक्षा का बोध उत्पन्न हुआ और उसने एक अच्छी पत्ती बनकर रहने की कोशिश करने की मन में प्रतिज्ञा की ।

पलनी ने उसे अपने शरीर से लगाकर कसकर दृढ़ आलिगन में बाँध लिया । वह दम घुटाने वाली आनन्दानुभूति में सुध-बूध खोकर अर्ध-निमी-लित नेत्रों से पड़ी रही । उसने एक पुरुष से प्रेम किया था और उस पुरुष ने भी उससे प्रेम किया था । लेकिन एक पुरुष के स्पर्श का अनुभव उसे पहले-पहल अब हुआ । हो सकता है कि इस अनुभव की तीक्ष्ण आकांक्षा उसमें पैदा हो चुकी थी । लेकिन उसने नियम का उल्लंघन नहीं किया था । अब वह विवाहिता हो गई थी । एक पुरुष ने पूरे अधिकार के साथ उसे अपने शरीर से लगा लिया और वह राजी हो गई । एक से प्रेम करने पर भी, दम घुटाने वाली आनन्दानुभूति उसे दूसरे ही से मिली । अब वह इसी पुरुष की स्त्री थी । उसका शरीर इसीके लिए था । इसी-लिए उसने अपना शरीर तब तक पवित्र बनाये रखा था । आगे भी वह अपना शरीर शुद्ध बनाये रखेगी ।

करूतम्मा को मालूम नहीं हुआ कि वह उस आनन्दानुभूति में कब तक चिलीन पड़ी रही । भावावेश से भरे यौवन की गर्मी की तीक्ष्णता थी । बाँध तोड़कर बहने वाली नदी का उदाम प्रवाह था, बिलकुल अनियन्त्रित ।

जब करूतम्मा होश की दुनिया में आई तब वह लाज के मारे गड गई । सिर्फ लाज ही नहीं, एक डर भी उसे हुआ, —एक डर जिससे वह चिन्तित हो गई । उस अर्ध चेतनावस्था में उसने क्या-क्या कहा, उसे

याद नहीं रहा। उसे लगा कि वह पागल-सी हो गई है। उसने लाज-  
शर्म भुलाकर कैसा गन्दा काम किया! क्या वह किसी भी लड़की के  
लिए शोभाजनक हो सकता है? उसका पति ही क्या सोचता होगा!

उसे डर लगा कि उसने गलती की है, उसके रहस्य का भण्डाफोड  
हो गया है और पलनी को सब-कुछ मालूम हो गया है। पलनी ने उसे  
अपना बना लिया है, फिर भी वह एक अजनबी ही तो है। एक अजनबी  
के साथ, चाहे वह पति ही क्यों न हो, पहले ही दिन, इस तरह बिना किसी  
तरह के सकोच का व्यवहार कैसे ठीक माना जायगा। उसने क्या सोचा  
होगा?

ऐसा कैसे हुआ? वह तो स्वभाव से लज्जाशील थी। उसे डर लगा  
कि उसका पति कही कोई ऐसा सवाल न पूछ बैठे, जिससे उसका जीवन  
ही बर्बाद हो जाय।

लेकिन उसका डर निराधार था। पलनी ने कुछ नहीं कहा। वह  
बाहर जाना चाहता था। उसने कर्त्तम्मा से, कौन-कौन चीजे खरीदनी  
है, फिर पूछा। कर्त्तम्मा ने कहा, “पास मे जो पैसा है उससे जो-जो  
चीज ला सकते हो, खरीद लेना!”

उसने जरूरी चीजों के नाम भी बता दिये।

घर मे जब वह अकेली रह गई तब उसका ध्यान परी की ओर गया।  
वह अब किस हालत मे होगा! बेचारा बड़ा दुखी हुआ होगा। उसका  
पैसा उसे चुकाया नहीं गया। माँ बीमार है। हो सकता है कि परी का  
पैसा लौटाया ही न जाय। ऐसे ही वह दिवालिया हो गया।

परी का खयाल उसके मन से हटता नहीं था। यह पाप है न? एक की  
पत्नी होकर वह पर-पुरुष के बारे मे सोचती है। उसका अन्त करण गवाही  
देता है कि वह परी को कभी भुला नहीं सकती। यह पागलपन जीवन-  
भर उसके साथ रहेगा।

उसका गाना तट पर अब भी गूँजता होगा! कर्त्तम्मा का मन  
अशान्त हो उठा। उसे कैसे और कब शान्ति मिलेगी? शायद उसके

भाग्य में मानसिक शान्ति लिखी ही नहीं है।

पलनी जरूरी चीजे खरीदकर लौटा। रास्ते में साथियों ने उससे मजाक किया। घर आने पर करुत्तम्मा ने उन चीजों को देखकर टीकाटिप्पणी की, ‘धैला ठीक नहीं है, उसकी मिट्टी में ककड़ है, पतीला भी दूसरी तरह का लेना था।’

पलनी ने कहा, ‘इन चीजों के गुण-दोषों के बारे में मैं क्या जानूँ?’

। करुत्तम्मा हँस पड़ी। दोनों को अच्छा लगा।

उस रात को दोनों को नीद नहीं आई। दोनों को एक-दूसरे को क्या-क्या सुनाना था! कहते-कहते बात खत्म ही नहीं होती थी। तब भावी जीवन की जड़ जमाने वाली बाते शुरू हुईं। करुत्तम्मा ने पूछा, “मौं उस तरह बेहोश पड़ी थी तब मुझे कैसे ले आए?”

करुत्तम्मा अब इस तरह का सवाल करने की आजादी महसूस कर रही थी। पलनी के लिए सवाल का जवाब देना जरा कठिन था फिर भी उसने जवाब दिया, “क्या शादी करके लड़की को उसकी माँ के घर में छोड़ आने में मर्दानगी थी? बैसा करना ठीक नहीं होता।”

पलनी ने आगे कहा कि उसके साथियों ने उसे ठीक नहीं समझा। इसलिए उसने भी साथ लाने पर ही जोर दिया। बाद को जरा सकोच के साथ उसने पूछा, “तुम्हारा आने का मन नहीं था क्या?”

“हाँ, था।”

करुत्तम्मा के दिल की बात छिपी रही। उसे उस समय अपने बाप के बारे में एक बड़ी बात कहनी थी, “अब मेरा कोई बाप नहीं रहा। बप्पा का स्वभाव ही ऐसा है। मेरी-जैसी उसके कोई बेटी भी है, अब वह ऐसा कभी नहीं सोचेगा।”

पलनी ने तटस्थ भाव से कहा, “यदि बाप यह कहता है कि तू उसकी बेटी नहीं है, तो तू भी सोच ले कि वह तेरा बाप नहीं है।”

कर्ष्णम्मा को लगा कि पलनी ने इन शब्दों में उसके जीवन की सुरक्षा का वचन देने का सकेत किया है। उसके कहने का मतलब यही था न कि वह तेरा बाप नहीं है तो मैं तो हूँ। पलनी ने आगे कहा, “तुम्हारा बाप बड़ा लालची है। वहाँ का घटवार भी वैसा ही है। उसने मेरा अपमान भी किया।”

पलनी का स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, “मैं बे-घर-द्वार का हूँ, सगे-सम्बन्धी नहीं है, फिर भी समुद्र-माता की सन्तान तो हूँ। सामने फैली हुई इस जल-राशि में मेरी भी सम्पत्ति है। मुझमें क्या कमी है? समुद्र-तट पर बाकी जो मल्लाह है, उन्हींकी तरह मैं भी हूँ। मेरी खास बात यह है कि मैं घमण्ड रखता हूँ कि मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में नाव चला सकता हूँ। कैसी भी भैंवर हो, मैं उसे पार कर सकता हूँ। कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखा सकता।”

कर्ष्णम्मा ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि इस विषय को शुरू नहीं करना चाहिए था। उसके बाप के प्रति पलनी के मन में कोई आदर-भाव नहीं था। वह उम टट के घटवार को ही नहीं, यदि जरूरी हो तो यहाँ के घटवार को भी धिक्कार देगा।

पलनी ने कहा, “अरी मैं किसी से क्यों छूँ? डरने की कोई जरूरत नहीं है।”

लेकिन कर्ष्णम्मा को एक बात कहनी थी, “मेरी माँ बेचारी बड़ी भली है।”

इसका पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान दूसरी ओर गया, “एक बात मैं कहे देता हूँ। तुम्हारा बाप जब तक खुद नहीं आयगा तब तक मैं उधर नहीं जाऊँगा।”

पिता की तरह पति ने भी एक दृढ़ निश्चय किया। यह निश्चय भी डिगने वाला नहीं था।

कर्ष्णम्मा ने अपनी बात कही। उसके लिए माँ-बाप दोनों नहीं रहे।

अब उसके लिए पति ही सब-कुछ है। पति को ही उसे प्यार करना है। वह एक जिम्मेवार आज्ञाकारिणी पत्नी बनी रहेगी।

पलनी ने उसकी बाते सुनी। करुत्तम्मा ने दुहराया कि उसके लिए पति के सिवा और कोई नहीं है। वह सब-कुछ सहने के लिए तैयार है। वह उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करेगी। वह सिर्फ उसका प्यार चाहती है।

पलनी ने यह नहीं कहा कि बदले में वह भी उसे प्यार करे। शायद उसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। करुत्तम्मा को भी शायद इस सम्बन्ध में कोई वागदान पाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी।

तो भी, थोड़ी कमी रह गई। एक तरफ से प्यार की माँग हुई और दूसरी ओर से कोई माँग ही नहीं हुई। करुत्तम्मा ने एक अच्छी पत्नी होकर रहने का वचन दिया। पलनी ने प्यार नहीं माँगा। तो भी करुत्तम्मा को प्यार करने का वचन देना चाहिए था न? लेकिन उसने वचन नहीं दिया। पलनी माँगता तो शायद वह कह देती कि वह प्यार करती है।

इस तरह पहली रात बिना टकराये इधर-उधर की थोड़ी-बहुत बाते हुईं। अन्त मेर घर बसाने की एक राय पर दोनों आ गए।

करुत्तम्मा ने हँसते-हँसते कहा, “मेरे भी सगे-सम्बन्धी नहीं हैं और घर-द्वार भी नहीं हैं।”

भोर मेर साढे तीन बजे के लगभग समुद्र-तट पर लोगों का शोर-गुल शुरू हो गया। पलनी के जाने का समय हो गया।

करुत्तम्मा को जीवन-चर्या की जानकारी थी। शादी के पहले ही पडोस की औरतों ने उसे कई बाते समझा दी थीं। उनमें से एक बात उसे याद आ गई।

जब पलनी बाहर जाने लगा तब उसने पूछा, “क्या सीधे नाव पर ही जा रहे हो?”

उसका मतलब पलनी की समझ में नहीं आया। उसने कहा “हाँ, क्या बात है?”

कर्ष्णम्मा को मालूम नहीं था कि वह कैसे समझावें, उसने कहा,  
“धर से उठकर जाते समय ऐसे नहीं जाना चाहिए।”

“तब कैसे जाना चाहिए ?”

“समुद्र मे जाने वालों को पवित्र होकर जाना चाहिए।”

पलनी रुक गया। उसने पूछा, “तुम क्या कह रही हो ?”

“जरा सकोच के साथ कर्ष्णम्मा ने पूछा, “जरा नहाकर क्यों  
नहीं जाते ?”

कर्ष्णम्मा के कथनानुसार पलनी ने स्नान किया। वह भी नहा-  
धो ली।

पलनी जब समुद्र-तट पर पहुँचा तब मूप्पन का पहला सवाल था,  
“नहा लिया है रे ?”

## १२

कर्षत्तम्मा ने घर में ही यह सबक सीखा था कि घर की सवृद्धि के लिए क्या-क्या करना चाहिए। उसने अपने माँ-बाप को उसके लिए परिश्रम करते देखा था। इस सम्बन्ध में उसका बाप उसके सामने आदर्श रूप था। उसने देखा है कि कैसे उसने फिजूल खर्ची से बचते हुए पैसा जमा किया और अन्त में नाव और जाल खरीद लिया। आगे बढ़ने के लिए उसके सामने एक आदर्श था। जब वह अकेली रहती तब अपने घर के बारे में सोचा करती।

पलनी को नहलाकर उसने समुद्र में भेज दिया। जब तक नावे नहीं लौटी तब तक उसे चैन नहीं था। उस दिन उसने एक के बदले दो तर-कारियाँ तैयार की। पिछले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन उसे पलनी से ज्यादा नजदीक पन महसूस हुआ। खाना तैयार करके वह प्रतीक्षा करने लगी।

उस दिन अप्रत्याशित रूप से खूब मछली मिली थी। करीब तीस रुपये पलनी को हिस्से में मिले। जाल धोकर सूखने के लिए डाल देन के बाद जब सब नहा रहे थे तब अश्यप्पन ने साथियों से पूछा, “क्यों, आज हम लोग हरिप्पाट जाकर भोजन क्यों न करे?”

किसी को आपत्ति नहीं थी। सबके पास पूरा पैसा था। समुद्र-माता ने कृपा की थी। जरा आनन्द मनाने में क्या हानि थी? लेकिन तिर्फ पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वेलुता ने पूछा, “क्यों ऐ पलनी! तु क्यों नहीं बोलता?”

आण्डी ने मजाक किया, “तुम लोग क्या कह रहे हो जी! नववधू

ने भात-तरकारी बगैरा तयार कर रखी होगी । उसके पास बैठकर खाना खाने में उसे ज्यादा आनन्द आयगा ।”

कोच्चप्पन ने इसका जवाब दिया, “इसमें आश्चर्य की क्या बात है । युवकों को ऐसा लगाना स्वाभाविक ही है । उस जमात में सब विवाहित और बाल-बच्चे वाले थे । वेलायुधन ने साधारण अनुभव के आधार पर कहा, “यह तो चार दिन की बात है । उसके बाद तो न घर में भात ही होगा, और न भात होने पर उसमें कोई खास स्वाद ही मिलेगा ।”

सबके नहा चुकने के बाद वेलुत्ता ने पूछा, “तुम नहीं आते पलनी ?”  
पलनी ने कहा, “मैं भी चलूँगा ।”

पलनी ने कह तो दिया । फिर भी जरा अन्यमनस्क-सा ही गया । सब लोग बस पकड़कर एक साथ हरिप्पाड के लिए रवाना हो गए ।

बहुत देर तक करुत्तम्मा प्रतीक्षा में बैठी रही । जब पलनी नहीं आया तो उसने घर से निकलकर तट पर आकर देखा । सब नावे ऊपर निकाल कर रख दी गई थीं और तट पर कोई नहीं था ।

उसी समय आण्डी की पत्नी भी वहाँ पहुँची । उसने कुशल-मगल पूछा, “क्यों री नववधू ! खडी-खडी समझती ओर क्या देख रही है ?”

करुत्तम्मा ने जरा शरमाकर जवाब दिया, “कुछ नहीं । यो ही देख रही हूँ ।”

पारू को बात मालूम थी, “मल्लाह को खोजती होगी । आज सब हरिप्पाड गये हैं । आज उन्हे ज्यादा पैसा मिला है बच्ची ।”

नीकुर्नम तट पर भी ऐसा होता है । वहाँ के लोग आलप्पुषा जाते हैं । इतना ही फर्क है । लेकिन पलनी उस दिन जायगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था ।

थोड़ी देर तक पारू और करुत्तम्मा ने बाते की । करुत्तम्मा का मन उदास था । उसे लगा कि इस तरह फिजूल-खर्ची नहीं होनी चाहिए । उस दिन हरिप्पाड में जो पैसा खर्च होगा उससे घर में कितनी ही जरूरी चीजें आ जातीं । ऐसे ही विचार उसके मन में उठ रहे थे ।

पारू ने कहा, “जो भी हो, हरिप्पाड से लौटते समय पति नववधृ के लिए जरी के किनारे का महीन कपड़ा और रेशमी साड़ी ले आयगा।”

करुत्तम्मा ने तर्क किया, “लेकिन दीदी, घर मे पानी पीने के लिए बरतन नहीं है। दो ही मटके हैं।

पारू ने कहा, “इससे क्या? इससे ज्यादा किसके घर मे है? यह सब ‘चाकरा’ के ही समय पूरा होगा बच्ची! उस समय जुटाकर रखने से अकाल के समय बेच्चन्बाचकर काम चला सकते हैं।”

एक कुत्ता घर के चारों तरफ घूम रहा था। वह भीतर घुसने की कोशिश मे था। करुत्तम्मा घर लौट आई।

वह प्रतीक्षा मे बैठी रही। दो-तीन घण्टे रात बीतने पर पलनी लौटा। उसके हाथ मे कागज की एक पोटली थी।

करुत्तम्मा रूठकर चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। लेकिन पलनी को पसन्द आयग। कि नहीं, यह डर भी था। उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा, “क्यों अभी ही नाव किनारे लगी पर है?”

उसका व्यग समझे बिना ही पलनी ने कहा, “नहीं, नहीं, यह देख!”

पलनी ने करुत्तम्मा के हाथ मे पोटली दे दी। उसे खोलते-खोलते करुत्तम्मा ने पूछा, “यहाँ समुद्र मे जाल फेकने पर जरी का महीन कपड़ा भी मिलता है?”

पलनी हँस पड़ा। करुत्तम्मा भी हँसी।

पलनी एक बहुत बढ़िया जरी वाला महीन कपड़ा लाया था। करुत्तम्मा ने उसे खोलकर देखा। कपड़ा बड़ा और बढ़िया था। पलनी ने उसका दाम बताया। लोगों ने उस तरह के पाँच कपड़े खरीदे थे। वेलुत्ता, वेलायुधन कोच्चुरामन और अथर्पन ने भी एक-एक लिया था। वेलायुधन का बच्चा बीमार था। दवा के लिए पैसा मे सापहरन ने से उसकी पत्नी पारू के यहाँ गई थी। पारू ने यह बात सुनाई थी। वैसे ही अथर्पन के यहाँ भी पैसे का अभाव था। लेकिन इन घरों में उस दिन कीमती जरी

वाला महीन कपड़ा आ गया ।

एक मनोहारी मन्द हास के साथ करूतम्मा ने पूछा, “पानी पीने के लिए जब घर में बरतन नहीं हैं, तब इस कामतों कपड़े की क्या ज़रूरत थी ?”

उस मनोहारी हँसी के सामने सवाल के मतलब पर ध्यान न देकर पलनी हँस पड़ा और उसने कहा, “तुझे मालूम है कि यह क्यों खरीदा गया है ?”

करूतम्मा ने पूछा, “क्यों खरीदा गया है ?”

“आयिल्यम मेले के अवसर पर मण्णारशाला जाने के लिए । पहन-कर तो देख, जरा देखूँ !”

पलनी ने उसकी ओर भावपूर्ण दृष्टि से देखा । उसकी पैनी नजरों के सामने शरमाकर करूतम्मा धूमकर खड़ी हो गई । पलनी दो-तीन कदम आगे बढ़ा । तब करूतम्मा ने कहा, “अभी छोड़ दो । सारा । शरीर धूल और पसीने से भरा है ।”

घर में पीने के लिए बरतन नहीं है । फिर भी जरा का महीन कपड़ा लेना कोई भारी गलती है ? वह तो पलनी की इच्छा थी । वह चाहता था कि पत्नी पहने-ओढ़े और उसे देखे । जीवन क्या कर्म की चक्रों में पिसने के लिए ही है ? जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ पैसा कमाना और घर का सामान जुटाना ही है ? जीवन में आनन्द के लिए स्थान नहीं है ?— अवश्य है ।

करूतम्मा ने अपने घर में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी । इसलिए उसे शायद यह सब अनावश्यक प्रतीत हुआ होगा । फिर भी उसे सजी-धजी देखने के लिए पलनी उत्सुक था । यह बात करूतम्मा को भी आनन्द देने वाली थी ।

एक गाढ़ आलिङ्गन में दोनों एक हो गए । होंठ-से-होंठ मिल गए । दोनों अर्ध निमीलित नेत्र होकर आनन्दानुभूति में खो गए । वे एक-दूसरे को कस कर पकड़े खड़े थे । अलग होने की इच्छा ही नहीं थी । ऐसा लगता था ।

करुत्तम्मा को उस समय यह अनुभव हुआ होगा कि जीवन में जरी का महीन कपड़ा भी एक जरूरी चीज़ है, और जीवन सिर्फ घरेलू बरतन और माल से पूर्ण नहीं होता।

जब दोनों एक ही बरतन में खा रहे थे तब भी करुत्तम्मा । के नेत्र अर्धनिमीलित थे । मुख पर एक विशेष चेतना का भाव था । पलनी एक कौर उठाकर करुत्तम्मा के मुँह में देने लगा ।

“बाप रे, इतना बड़ा कौर मेरे मुँह में अटेगा ही नहीं ।”

करुत्तम्मा ने ठीक ही कहा । पलनी के बलिष्ठ हाथों से बनाया हुआ वह कौर काफी बड़ा था । उसने उसे कुछ छोटा बनाकर दिया । करुत्तम्मा ने भी एक कौर उठाकर पलनी के मुँह में दिया । पलनी ने कहा, “वाह, यह तो मुँह में मालूम ही नहीं पड़ा ।”

इस तरह दोनों बहुत देर तक मनोरजन की बातों में लगे रहे । महीन जरी का कपड़ा लाने की बात को लेकर गलती पकड़ने वाली करुत्तम्मा ने कहा “अब एक रेशमी ब्लाउज और लुगी भी चाहिए ।”

जब करुत्तम्मा भावुक जगत् से वास्तविक दुनिया में आ गई तब उसने सोचा कि एक जावन-चर्या निश्चित कर लेनी जरूरी है । उस दिन की क्या कमाई थी, यह जान लेने का उसका हक था । वह यह भी जानना चाहती थी कि कितना खर्च हुआ । उसने पूछा, “आज कितना मिला था ?”

“करीब तीस रुपये ।”

“कितना बचा है ?”

उदासीन भाव से पलनी ने जवाब दिया, “छप्पर में एक पुड़िया मे है । निकालकर गिन लो ।”

करुत्तम्मा ने पुड़िया निकालकर गिने । उसमें दो रुपये थे । अट्ठाईस रुपये खर्च हो गए थे । इतने से क्या-क्या न कर सकती थी । लेकिन कुछ कहने में उसे सकोच हुआ ।

पति के गले में हाथ डालकर और उससे सटकर बैठे-बैठे उसने पूछा,

“रसोई बनाने और सोने के लिए एक ही कोठरी है । यह काकी है ?”

“नहीं”, पलनी ने यत्रवत् जवाब दिया ।

‘क्या-क्या चाहिए’—इसकी तफसील करुत्तमा को ही मालूम थी । हँसते-हँसते उसने कहा कि वह उसे सच्चे अर्थ में एक योग्य मल्लाह बनायगी । उसे आगे बढ़ाने का उसने निश्चय किया है । इनना कहने को आजादी उसे अनुभव हो रही थी । उसके प्रति पलनी का जो आकर्षण था, उस पर उसे पूरा विश्वास हो गया था ।

पलनी को यह भी स्वीकार था कि करुत्तमा उसे और अच्छा बनावे । अपनी मनोहारी हँसी के साथ करुत्तमा ने कहा कि सफलता के लिए पलनी को कुछ शर्तों का पालन करना होगा । उसने कहा, “सबसे पहले, जो कमाते हो उसे इस तरह नहीं खर्च कर डालना है ।”

अपने दोनों हाथों से पलनी के दोनों कपोल दबाते हुए उसने आगे कहा, “हाँ, इस तरह मैं खर्च नहीं करने दूँगी ।”

“तब क्या मैं चाय भी न पीऊँ, भात भी न खाऊँ ?”

“इन सबका वह खुद इत्तजाम करेगी ।” उसने फिर पूछा, “बाल-बच्चे हो जायें तो क्या करेंगे ?”

इस सवाल का मतलब पलनी की समझ में नहीं आया ।

“बच्चे ऐसे ही बड़े हो जायेंगे ।”

करुत्तमा ने एक अबोध बच्चे को जैसे समझाया जाता है, वैसे ही पलनी को एक सुव्यवस्थित जीवन-पद्धति के बारे में समझाया । कोई भी मल्लाह हो, वह अपने लिए नाव और जाल बना लेने की आकाशा रखता है । उसने समझाया कि पलनी मे भी ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए ।

तब पलनी ने पूछा, “इस तट पर जितने मल्लाह हैं अगर सब इसी तरह सोचने लगे तो सब कें-सब लखपति हो जायेंगे । सब ऐसा क्यों नहीं सोचते ?”

एक सवाल ही इसका जवाब था, “हम ऐसा सोचे तो क्या नुकसान है ?”

पलनी ने जवाब में एक साधारण मल्लाह का तत्त्व-ज्ञान सुनाया ।

मल्लाह जो कमायगा वह जमा नहीं कर पायगा । इसका कारण यह है कि वह जो कमाता है वह लाखों-करोड़ों प्राणियों को मारकर कमाता है । वह पानी में स्वतंत्र जीवन विताने वाली असख्य मछलियों को धूखे में फँसाकर पकड़ लेता है और उसीमें पैसा कमाता है । उन अनगिनत प्राणियों को दम घुटा-घुटाकर ठटपटाकर अगर मरते देखो (रोज देखने वालों को भले ही कुछ महसूस न हो) तो जहर विश्वास हो जायगा कि ऐसी जीव-हत्या से होने वाली कमाई टिकने वाली नहीं हो सकती । उसे कोई जमा नहीं कर सकेगा । उसने पूछा, “नहीं तो, तट पर लोगों को ये तरह भूखे रहना पड़ता ?”

यह तत्त्व-ज्ञान पलनी का अपना नहीं था । पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोग सुनते आये हैं । करुत्तम्मा ने भी सुना था । लेकिन एक आदमी—उसका बाप इसके खिलाफ बोला है । बाप का तर्क उसे उन दिनों विश्वास-योग्य नहीं लगा था । लेकिन बाद को उसे उसकी मार्थकता मालूम हो गई । फिर भी उस तर्क को करुत्तम्मा ने आगे नहीं बढ़ाया । प्रतिवाद करने का उसे साहस नहीं हुआ ।

पालनी ने आगे कहा, “अरी, मल्लाह क्यों जमा करे ? यह विस्तृत जल-राशि ही उसकी सम्पत्ति है । इसमें क्या नहीं है ? जमा करे तो समुद्र-माता की कृपा बनी रहेगी । यह नीति है ।”

करुत्तम्मा ने पूछा, “जब मछलों नहीं मिलती, तब भूखे रहने की नौबत क्यों आती है ?”

“यह तो भोगना ही है ।”

करुत्तम्मा के ध्यान में माँ-बाप की बात आई । कैसे उन लोगों ने परिश्रम करके नाव और जाल खरीदा । एकाएक कलेजे में उसे आग लगने-जैसी जलन का अनुभव हुआ । उस जलन की लहर रक्त-प्रवाह के साथ सारे शरीर में फैल गई । नाव और जाल कैसे प्राप्त हुआ ?—बेचारा परी इसमें बरबाद हो गया । पलनी ने पूछा, “क्या तू अपने बाप की बात को ध्यान में रखकर बोल रही है ?”

करुत्तम्मा को लगा कि पलनी का भाव जरा बदल गया है। पलनी ने आगे कहा, “वही से तूने ऐसी लालच की बाते सीखी हैं। सब लोग अब पूछ रहे हैं कि हम समुराल कब जा रहे हैं।”

करुत्तम्मा से भी औरते यह बात पूछती थीं। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद मॉ-बाप वर-वधू को निमत्रण देकर न बुलावे तो यह बहुत बुरा माना जाता है। बुलावा आयगा, इसमें उसे सन्देह था।

“मॉं को मरणासन्न अवस्था में छोड़ आए हैं। वहाँ से निमत्रण लेकर कौन आने वाला है?”

थोड़ी देर बाद वह हँसती हुई बोली, “शादी के बाद यहाँ लड़के के सम्बन्धियों में किसने-किसने निमत्रण दिया है? यह भी तो एक रिवाज है।”

करुत्तम्मा ने मजाक में कहा था। फिर भी उसमें पलनी को बुरा लगने वाली बात छिपी थी। पलनी को उससे दुख भी हुआ। उसने उसे मजाक के रूप में नहीं लिया। उसका भाव बदल गया। उसने पूछा, “यह पहले ही मालूम था न? जानते हुए भी क्यों यहाँ भेज दिया?”

करुत्तम्मा का चेहरा उतर गया। पलनी रुट्ट हो जायगा, इसका उसे ख्याल नहीं था। पलनी ने आगे कहा, “हाँ, पलनी के कोई नहीं है। उसके लिए दुखी होने वाला कोई नहीं है। सुखी होने वाला भी कोई नहीं है। टट पर रहने के योग्य एक लड़की थी। उसे पलनी के मथ्ये मढ़ दिया गया। समुद्र में जाकर वह मर भी जाय तो भी उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है। असल में ऐसा ही हुआ है।”

यह निष्ठुर प्रतिघात था। ‘टट पर रहने के योग्य वह नहीं थी’— यह आरोप वह कैसे सह सकती थी? फिर भी उसमें कुछ सत्याश तो था न! उसे लगा कि अन्दर का अपराध साकार हो रहा है। शादी के बाद पति अब मुँह पर ही ऐसी बाते कह रहा है।

करुत्तम्मा हाथ से मुँह को ढककर सिसक-सिसककर रोने लगी।

सिसकियों के बीच उसका सारा शरीर कॉपता नज़र आ रहा था। पलनी उसे बैठा देखता रहा। कुछ समय तक करुत्तम्मा की सिसकियाँ ही वहाँ सुनाई पड़ रही थीं। पलनी के मन में सहानुभूति हुई कि नहीं, कौन जाने।

थोड़ी देर के बाद करुत्तम्मा के कान में यह शब्द पड़े, “यह मैं नहीं कहता। लेकिन बाकी लोग ऐसा ही कहते हैं।”

तो पलनी का मन जरूर पसीजा है। उसने आगे कहा, “उस पृष्ठ ने यह सब सुनाया है।”

इस तरह, शादी के बाद पहले-पहल उस घर में अश्रु-पात हुआ। सान्त्वना देने की कोशिश भी हुई। घर के प्रेमिल अन्तरिक्ष में काले बादल छा गए। रात-भर खिलता रही। सिसकियों के बीच उसने कहा, “मैं समुद्र-तट के अयोग्य नहीं होऊँगी।”

उसने उस पर विश्वास करने को कहा। पति समुद्र में जाय तो उसके न लौट सकने लायक वह कोई काम नहीं करेगी। —समुद्र में तूफान उठाने वाला व्यवहार उसका नहीं होगा। —जहरीले सॉप जमीन पर लोटने लगे, ऐसा काम वह नहीं करेगी। उसने चचन दिया कि वह एक पतिव्रता मल्लाहिन होकर रहेगी। उसने बार-बार पलनी से पूछा कि उस पर उसको विश्वास है कि नहीं। पलनी ने ‘ना’ या ‘हाँ’ कुछ नहीं कहा। पलनी की छाती पर सिर रखकर उसे आँसुओं से भिगोने के सिवा वह कर ही क्या सकती थी?

पलनी ने पूछा, “तू क्यों बार-बार यह पूछती है कि विश्वास है कि नहीं? तेरे सबालों की झड़ी देखकर यह सन्देह होने लगता है कि तुझे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है।”

करुत्तम्मा को लगा कि उस पर एक और बज्रपात हो गया। उसके रहस्य के बारे में जरूर पलनी को कोई सन्देह हो गया है। किसी द्वाही ने सब कह दिया होगा।

इसके बाद करुत्तम्मा ने रात-भर कुछ नहीं कहा। पति ने उसका

पलनी ने पूछा, “क्या कहती है री ? प्रेम करती है ?”

करुत्तम्मा जाग गई । उसे डर लगा कि कही कोई अनुचित बात तो मुँह से नहीं निकल गई । फिर भी उसने जवाब दिया, “हाँ ।”  
“किससे ? ”—पलनी ने पूछा ।

करुत्तम्मा ने जवाब में एक भारी झूठ कह दिया, “अपने पति से ।”

भोर हुई । मुर्गे ने बाँग दी । तट पर से पुकार की आवाजे सुनाई पड़ने लगी । नाव पर जाने का समय हो गया । पलनी उठा । करुत्तम्मा ने नहाकर जाने पर जोर दिया । पलनी नहा लिया ।

उस दिन पलनी जरा देर से टट पर पहुँचा । दूसरे सब उसके लिए ठहरे हुए थे । ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था । वेलायुधन ने मजाक में कहा, “शादी हो जाने पर जागने में देर हो जानी स्वाभाविक ही है ।”

वेलायुधन का मजाक पलनी को अच्छा नहीं लगा । उसने कहा, “चुप रहो भैया ।”

वेलायुधन ने पूछा, “क्यों खफा होते हो जी ?”

पलनी को लगा कि वेलायुधन और कुछ कहना चाहता है और वह भी करुत्तम्मा के बारे में ।

नावे समुद्र में उत्तर गई और पश्चिम की ओर बढ़ी । मछली कही दिखाई नहीं दे रही थी । नावे जाल बिना ढाले ही इधर-उधर धूमने लगी । पलनी ने अपनी नाव मीधी पश्चिम की ओर आगे बढ़ाई । नाव को वह आवेश में बढ़ाता रहा । देखने से लगता था कि उसे समुद्र का विस्तार ही कम मालूम हो रहा है और वह अपनी सारी ताकत लगाकर क्षितिज को पार कर जाने की कोशिश कर रहा है ।

✓ नाव असीम समुद्र के मध्य में पहुँच गई । आण्डी ने पूछा, “तू नाव को कहाँ ले जा रहा है रे ?”

✓ सबने डाँड़ चलाना बन्द कर दिया । फिर भी पलनी के हाथ की पतचार की गति से नाव आगे उछलती गई । सबको लगा कि पलनी

एक भूत बन गया है और क्षितिज की रेखा ही उसकी सीमा है।

कुमारन् डर गया। उसने विगड़कर पलनी से कहा, “अरे कुत्ते के बच्चे! तेरे भले द्वी कोई न हो, पर दूसरों का स्थिति ऐसी नहीं है।

तृ जाकर मर जा।” एक भ्रष्टा को लाकर तुझे डूब मरना ही चाहिए। तेरे भाय मे वही लिंगा है। लेकिन हम लोगों के बाल-बच्चे हैं।”

वेलायुधन ने पलनी के हाथ से पतवार ले ली और नाव को घुमा दिया। इतनी देर के कठिन परिश्रम से थका हुआ-सा पलनी चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह डॉड चला ने लगा। जहाँ दूसरी नावे थी, नाव को वहाँ लाकर लोगों ने जाल फेका।

उस दिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। पलनी की नाव मे ही थोड़ी छोटी किस्म की मछलियाँ आई। एक-एक को डेढ़-डेढ़ रुपया हिस्से में मिला।

नहाते समय वेलायुधन ने पूछा, “पलनी, तुझे क्या हो गया था?”

यह जानने के लिए सब उत्सुक थे। पलनी का आदमीपन मानो खत्म हो गया था। वह नाव को जोश और हिम्मत के साथ तो चलाया करता था, लेकिन इस बार की तरह मुध-बुध खोकर नहीं।

पलनी ने कहा, “मालूम नहाँ।—कैसे मै भुलावे मे पड़ गया।”

आण्डी ने कहा, “हम लोग बाल-बच्चे बाले हैं, यह याद रखना है।”

कुमारन् ने कहा, “अब इसके हाथ मे पतवार नहीं देनी चाहिए। कहीं बीच समुद्र मे ले जाकर डुबो देगा।”

सब लोग इस बात पर एक मत हो गए कि ज़रूर पलनी के ऊपर मूर्त सवार हो गया है।

शादी के बाद चोथे दिन वर-वधु दोनों को बुला लेना चाहिए। लेकिन बुला लाने को भेजने के लिए कोई नहीं था।

चक्की ने शादी के दिन से ही खाट पकड़ ली थी। उसके बाद उठी ही नहीं। पडौस की नल्लम्मा बार-बार आकर परिचर्या कर जाती थी। घर का काम-काज पचमी मेंभालती। बीमार पत्नी की ओर चेम्पन ने कोई ध्यान नहीं दिया। नल्लम्मा ने किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर दिखाने के लिए दो-तीन बार कहा। लेकिन चेम्पन ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

चेम्पन शादी के बाद काम की भीड़ में था। कभी-कभी चक्की के कमरे में जाकर उसे देख लेता। ऐसे ही जब एक दिन वह चक्की को देखने आया तब चक्की ने करुत्तम्मा और पलनी को जाकर बुला लाने की बात कही। उसकी बात मुनकर चेम्पन गुस्से से कॉपते हुए गरज पड़ा, “मैं नहीं जाऊँगा। मेरे घर मे उसके आने की कोई जरूरत नहीं।”

चक्की को बहुत क्षोभ हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि वह बेहोश हो गई।

उस दिन चेम्पन एक वैद्य को बुला लाया। शादी के बाद लड़की को बुलाना ही चाहिए। क्यों नहीं बुलाया जाता, यह सवाल सबने करना शुरू किया। जो भी सवाल करता था उससे चेम्पन बिगड़ जाता था। लेकिन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। इस तरह सबसे उसका झगड़ा होने लगा।

तृक्कुञ्जपुष्टा-तट पर भी करुनम्मा के लिए घर से बुलावा न आना लोगों की बातचीत का विषय हो गया। रिवाज के मुताबिक किसी को

आकर उसे बुला ले जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं थी कि उसके घर में कोई नहीं था। न बुलाने का यही कारण हो सकता है कि लोगों ने उसे घर से बाहर कर दिया है। आदमी कितना भी गरीब क्यों न हो, शादी के बाद लड़की को अवश्य बुलाता है।

करुत्तम्मा ने भी प्रतीक्षा की। उसे विश्वास नहीं था कि पिता उसे छोड़ देगा। माँ के बारे में भी उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। लेकिन पति से कुछ कहने से वह डरती थी। फिर भी उसने दिल थाम कर कहने का निश्चय किया।

एक दिन खाना खाने के बाद समय अच्छासमझकर उस ने कहा, “मेरी माँ अब है कि नहीं, कौन जाने ?”

पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। करुत्तम्मा ने पलनी की ओर गौर में देखा। उसने कहा, “हम जरा चले ?”

उसे एक मुँहतोड़ जवाब मिला, “इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है।”

वह इतना कठोर होकर बोलेगा इसकी उम्मीद करुत्तम्मा को नहीं थी। पलनी के भाव-भेद ने उसे डरा दिया।

उसने जरा मन्द हास के साथ कहा, “इस तरह कहने से कैसे होगा ?”

गम्भीर होकर पलनी ने पूछा, “ऊँह ! क्यो ?”

“हमे भी लड़कियाँ होगी। उनके भी लड़के होगे। वे भी बदला चुकायँगे।”

इसका भी जवाब पलनी के पास तैयार था, “उस समय जैसा होगा, देखा जायगा।”

इसका वह क्या जवाब दे सकती थी ! करुत्तम्मा ने बात वही छोड़ दी। फिर जब मौका मिला तब उसने पूछा, “तो मैं अकेली ही जाकर माँ को देख आऊँ ?”

इसमें पलनी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसने एक शर्त रखी,

। “जाती हो तो फिर वापिस आने की जरूरत नहीं है ।”

करुत्तम्मा के मन में गुस्सा पैदा हुआ, जो इन शब्दों में प्रकट हुआ, “बाप रे, इन मर्दों का मन कैसा होता है !”—इतना कहकर उसने थोड़ा हँसने की कोशिश की ।

नीकुञ्जमु-घर में चक्की की और तृकुञ्जपुषा-घर में करुत्तम्मा की इच्छाओं का महत्व नहीं रहा । इस तरह दिन बीतते गये । दोनों की आत्माएँ व्याकुल होकर तडपती रहीं । अकेले में करुत्तम्मा रोया करती । चक्की का कलेजा फटता रहता । लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं समझा ।

चक्की की बीमारी बढ़ती गई । यह सुनकर परी एक दिन उसके यहाँ गया । चेम्पन घर में नहीं था । समुद्र में उस दिन न जाने पर भी वह कहीं बाहर गया हुआ था । परी को देखकर चक्की रो पड़ी । उसकी रुलाई देखकर परी असमजस में पड़ गया ।

परी भी अब बदल गया था । उसमें पहले कान्सा उत्साह नहीं था । रोते-रोते बीच में चक्की ने कहा, “मैं मैं जा रही हूँ, मोतलाली ।”

चक्की बहुत कष्ट में थी । यह परी ने देखा । फिर भी उसने कहा, “क्या कहती हो ? नहीं-नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ।”

चक्की ने पास में बैठने का इशारा किया । वह बैठ गया । परी को देखती हुई चक्की रो रही थी । परी को मालूम नहीं होता था कि क्या कहना चाहिए । चक्की ने कहा, “मोतलाली, तुमसे बहुत-कुछ कहना था ।”

परी ने कहने के लिए कहा ।

उसे उस पैसे की बात ही पहले कहनी थी । परी ने उसे तसल्ली दी कि पैसे की बात को लेकर उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है । चक्की न पति पर गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि वह बड़ा कजूस और लालची है । उसने आगे कहा, “हमारे छटपटाने से क्या फायदा ? वह पैसा नहीं

देता है।”

“उसके बारे मे चिन्ता न करो।”

“नहीं मोतलाली, मेरी लड़की को भी अच्छी जगह मे नहीं भेजा। उसे भी दुख छोड़कर सुख भोगने को नहीं मिलेगा।”

इसके बारे मे परी को कुछ कहना नहीं था; वह कश्तमा से सम्बन्ध रखने वाली बात थी। चक्की ने आगे कहा, “मैं यहाँ इस तरह मर रही हूँ। तब भी मेरी लड़की को नहीं बुलवाया है।”

एक माँ की सारी चिन्ताएँ और वेदनाएँ जाग पड़ी। उसकी बेटी की एक प्रेम-कहानी है। उस प्रेम-कहानी की छाया उसके जीवन मे असर नहीं डालेगी, यह निश्चय पूर्वक कैसे कहा जा सकता है? वह अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रही है। फिर भी बीते हुए जीवन का असर नहीं रहेगा, यह कौन कह सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक ऐसे आदमी के साथ भेजा गया है जिसका जीवन मे कुछ नहीं है, और कोई नहीं है। पलनी उसे प्यार करेगा कि नहीं कौन न जाने।

चक्की ने कहा, “ऐसा लगता है कि उसे समुद्र मे निराधार छोड़ दिया गया है।”

परी ने आश्वासन दिया, “ऐसा मत कहो, पलनी अच्छा आदमी और कमाने वाला है। वह उसकी रक्षा करेगा।”

चक्की ने सिर हिलाते हुए अविश्वास प्रकट किया। उसने कहा, “तुम इस तट पर साथ-साथ खेला करते थे।”

परी के हृदय की एक कोमल तली छु गई। बीते हुए दिन याद आ गए। चक्की समझ गई। चक्की भी वह प्रेम-कहानी जानती थी न। उसमे कितनी शक्ति है, शायद यह भी उसे मालूम होगा। दो प्राणियों से सम्बन्ध रखने वाली वह बात थी। बीमार चक्की एक माँ की तरह बोली, “मेरे पेट से लड़के का जन्म नहीं हुआ है बेटा।”

असहा दुख के साथ चक्की ने आगे कहा, “लेकिन मेरा एक बेटा है।”

परी ने जिज्ञासा-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। चक्की ने परी की ओर ऐसे देखा, मानो कह रही हो कि जानने की जरूरत नहीं है। फिर चक्की ने परी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे दबाते हुए कहा, “यही, यही परी मेरा बेटा है।”

ऐसा लगा कि परी के परित्पत्त हृदय के एक कोने में आशा की एक लहर लहरा उठी। जिससे उसने प्रेम किया था, वह उसकी होकर भी नहीं रही। लेकिन अब उसे लगा कि नहीं, वह उसकी कोई है और वह भी उसका कोई है।

करुणम्मा उस शादी से सुखी होगी, चक्की को इसकी आशा नहीं है। परी के और उसके साथ-साथ खेल कर बड़े होने की बात उसे याद है। वह उसे बेटा बना लेती है। तब—तब— परी की दूटी हुई आशा में अकुर निकलता है। क्या करुणम्मा अब भी उसकी हो सकती है? नहीं भी हो, तो भी माँ ऐसा चाहती है क्या? एक क्षण में परी एक अस्पष्ट और अथर्वार्थ जगत् में पहुँच गया। माँ ने कहा, “बेटा, तुम शादी करके व्यापार में उन्नति करो और सुखी होओ?”

कभी भी न भुलाया जा सकने वाला यह वाक्य परी के कान में गूँजने लगा। उस रात को करुणम्मा ने भी यही कहा था। लेकिन करुणम्मा को जैसा जवाब उसने दिया था वैसा कोई जवाब उसने चक्की को नहीं नहीं दिया।

“बेटा, तुम करुणम्मा को तकलीफ में न डालना। उसका व्याह हो गया। अब उसे कोई कष्ट न देना!”

परी को चिस्मय हुआ। उसे लगा कि तकदीर उसे आज्ञा देती है वह करुणम्मा के जीवन में प्रवेश न करे।

उसने चक्की को यह कहते सुना, “परी, तुम करुणम्मा के भाई हो, उसका कोई सगा भाई नहीं है। बेटा, तुम्हे उसका सगा भाई होकर रहना है।”

चक्की ने ही यह सब कहा था। इसमें परी को सन्देह नहीं था। चक्की

ने और भी बाते कही। चेम्पन ने करत्तम्मा को त्याग दिया है। वह खुद मर रही है। करत्तम्मा ऐसे आदमी की दया पर छोड़ दी गई है जिसका न घर है, न कोई सगा-सम्बन्धी। उसका अब इस दुनिया में अपना कौन है। सिर्फ़ परी है। उसने कहा कि दोनों के बीच भाई-बहन का सम्बन्ध रहना चाहिए।

चक्की ने पूछा, “बेटा, तुम हमेशा उसके भाई होकर रहोगे न ?”

परी की आँखों में आँसू आ गए। वे आँसू टप-टप गिरने लगे। चक्की ने देखा। उन आँसुओं का अर्थ भी उसने समझा।

उस प्रेम-कहानी का रहस्य चक्की ने प्रकट कर दिया, “बेटा, तुम्हे उससे प्रेम था। लेकिन अब उसे बहन समझना ! यही तुम्हारे प्रेम का परिणाम होना चाहिए। क्यो ?”

परी कोई जवाब नहीं दे सका। उसका गला रुँध गया था। वह उसे प्यार करता है तो अब उसका भाई बन जाय—यह ठीक ही है।

नि शब्दता में कुछ समय बीता। चक्की ने पूछा, “ठीक है न बेटा ?”

यत्रवत् परी ने जवाब दिया, “हॉ !”

“तुम भाई-बहन होकर रहना है !”

एक क्षण बाद चक्की ने फिर कहा, “यदि वह यहाँ रहती तो मरते समय उसे भी समझा देती ।”

चक्की भावावेश में आ गई। वह परी से बार-बार करत्तम्मा का भाई होकर रहने की बात कहती रही। जब कोई नहीं रहेगा तब उसकी सुधि लेने को कहा। उसके मरने के पहले अगर वह न आये तो उससे उसका भाई होने की बात कहने को कहा। परी ने सब मान लिया। चक्की को लगा कि परी का उस तरह मान लेना काफी नहीं है। इसलिए चक्की ने फिर परी से एक बार प्रार्थना की।

उस रात को चक्की ने परी को तट पर गाते सुना।

चेम्पन के लिए वह दुर्दिन का समय था। वह समुद्र में नहीं जा सकता।

था। आमदनी घटती जाती थी। ऊपर से उसे एक और घाटा हुआ। कादरी मोतलाली को उसने जो माल दिया था, उसका दाम थोड़ा मिलना बाकी था। कादरी एक रात को अपनी झोपड़ी में से सब सामान लेकर चम्पत हो गया। उस घाटे से चेम्पन को एक बड़ा धक्का लगा।

चेम्पन ने पहले को तरह फिर समुद्र में जाने का निश्चय किया। कब तक घर में बैठा रहता! कई दिनों के बाद एक दिन फिर लोगों ने चेम्पन को अपनी नाव पर पतवार थामे देखा। लेकिन वह बैठा था, खड़ा नहीं था। नाव की गति में पहले-जैसी तेजी नहीं थी। वह पहले की तरह लहरों पर उछलती-फौंदती नहीं थी। चेम्पन पहले-जैसी फुर्ती से पतवार को मँभाल भी नहीं पाता था। उसके पाँव थरथराते थे। नाव के उस सकरे नुकीले हिस्से पर अँगूठे के बल पर खड़े होने में अब उसे डर लगता था। तो क्या आगे बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति खत्म हो गई। मुमकिन है कि बाकी नावों को पीछे छोड़कर पक्षी-जैसी तेजी से अपनी नाव को आगे बढ़ाने और बाकी नावों की अपेक्षा अधिक माल लादकर लौटने में चेम्पन अब असमर्थ हो जाय। उसकी नाव अब दूसरी नावों की तरह ही उतराती रहती है। तट वाले आगे उसकी पक्षी की गति नहीं देख पायेंगे।

समय होने के पहले ही नाव तट की ओर मुड़ी। नाव खेने वालों ने इसका कारण पूछा। चेम्पन ने कहा, “दूसरे दिन देवेंगे। आज इतना ही काफी है।”

‘काफी है’—ऐसा इसके पहले चेम्पन ने कभी महसूस नहीं किया था।

नाव किनारे लगने आ रही थी। चेम्पन ने ज्यो ही डॉड खीचा, पानी में गिर गया। खेने वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और नाव में चढ़ा लिया। इसके बाद चेम्पन फिर पतवार थामने नहीं बैठा।

उस दिन चेम्पन ने माल के बारे में मोल-तोल भी नहीं किया। जितना मिला उतने ही पर माल बेच दिया। वह थका-मँदा घर लौटा। उसकी चाल एक टूट हुए आदमी की तरह थी।

क्या चेम्पन का सब कार्य-क्रम टूट गया ? पचमी पिता की प्रतीक्षा में खड़ी थी । उसने भात तैयार कर रखा था । तरकारी भी पिता की पसन्द की बनाई थी । कमजोर आवाज में चक्की भीतर से यह कहनी सुनाई पड़ी, “बिटिया, खाना परोस दे ! बप्पा आ रहा है ।”

पचमी ने खाना परोसकर सामने लाकर रख दिया । चेम्पन ने थोड़ा उठाकर खाया । लेकिन रुचि और खुशी के साथ नहीं । जब वह बाहर गया तब पचमी ने माँ से कहा, “अम्मा, आज बप्पा ने मन से खाना नहीं खाया ।”

हाथ-मुँह धोकर चेम्पन चक्की के पास आया । चक्की ने चेम्पन को गौर से देखा । दोनों की आँखें भर आईं ।

जीवन में पहली बार चेम्पन की आँखें सजल हुईं । चक्की ने कहा, “क्या किया जाय ? सब विधि की लीला है ।”

चेम्पन ने आँखूं पौछ डाले । एक बूँद भी नीचे नहीं गिरने दी । इतनी इच्छा शक्ति अब भी बाकी थी । उसने पूछा, “तू उठ नहीं सकनी क्या ?”

“मैंने कोशिश तो की है । लेकिन क्या किया जाय ?”

थोड़ी देर तक चुप रहकर चेम्पन ने पूछा, “तब मैं क्या करूँ ?”

चक्की को लगा कि चेम्पन, उसके मरने के बाद वह क्या करेगा, इसके बारे में सोचने लगा है । उसका सारा जीवन अपूर्ण ही रहेगा, आगे बढ़ने में असमर्थ ही रहेगा । क्या जवाब दे, यही चक्की सोचने लगी ।

चेम्पन खाट पर चक्की के पास बैठ गया । चक्की ने देखा कि पति मे पहले-जैसी ताकत और फुर्ती अब नहीं रही । चेम्पन ने उस दिन समुद्र में जो घटना घटी थी, उसे कह सुनाई । उसने कहा, “मेरे पैर ढोले पड़ गए ।”

पति से समुद्र मे कोई दुर्घटना हो सकती है, यह खयाल चक्की को कभी नहीं हुआ था । आज वह भी हो गया । आग भी कुछ ही सकता है ।

निस्सहाय भाव से चेम्पन ने पूछा, “मैं क्या करूँ चक्की ?”

वह चक्की से नहीं तो फिर किससे ह सवाल करता । जब देने का अधिकार भी और किसको था ? उसके जीवन की व्यवस्था और सफलता के लिए चक्की एक अविभाज्य अग जो थी । अब उसे खाट की शरण लेनी पड़ी है । उसके साथ ही चेम्पन का सब तेज भी समाप्त-सा हो गया । वह एक हारे हुए व्यक्ति की भाँति सिकुड़कर खाट पर बैठा था ।

चक्की ने चेम्पन का हाथ छाती पर रखकर उसे दबाते हुए पूछा, “मैं मर जाऊँगी तो क्या करोगे ?”

चेम्पन रो पड़ा ।

“ऐसी बात न कह चक्की । —मैं क्या करूँगा ?”

चेम्पन के हाथ पर चक्की की पकड़ कस गई । चक्की की छाती पर चेम्पन का हाथ पड़ते ही छाती की धड़कन की तेजी से उसको अपना हाथ हिलता-सा लगा ।

चक्की ने चेम्पन पर अपनी नजर गडाते हुए कहा, “किसी दूसरी से ! शादी कर लेना ।”

इतना कह चुकने पर चक्की का शरीर काँपने लगा और हाथ-पौँप ऐठने लगे । छाती की धड़कन भी धीमी पड़ती-जैसी मालूम हुई ।

चक्की की नज़र चेम्पन के चेहरे पर गड़ी थी । चेम्पन ने पूछा, “क्या कहा तूने । दूसरी शादी करने के लिए ?”

कोई जबाब नहीं मिला । चक्की को मालूम था कि जीवन में आदमी को एक साथी की जरूरत होती है । उसके लिए उसने एक रास्ता भी सुझा दिया । चेम्पन ने तब तक इस तरह की बात के बारे में नहीं सोचा था ।

“तू बोलती क्यों नहीं ?”

चक्की की आँखे पथराने लगी । चेम्पन ढर गया । उसने चिल्ला-कर चक्की को पुकारा,

“चक्की ! चक्की ! ! ”

चक्रकी निश्चल थी ।

“हाय, तू चली गई री ।”

चेम्पन चक्रकी की देह पर गिर गया । उस समय भी चक्रकी की पकड़ ।  
ढीली नहीं हुई थी ।

पचमी फूट-फूटकर रो रही थी। नल्लम्मा उसे शान्त कर रही थी। चक्की पचमी का भार नल्लम्मा को सौंप गई थी। नल्लम्मा ने भी, उसके चार के बदले पाँच बच्चे हैं, ऐसा मान लिया। लेकिन इससे पचमी की तसल्ली नहीं हो सकती थी?

अच्छन और अन्य साथियों ने मिलकर चेम्पन को चक्की के शरीर से अलग किया और बाद में जो-जो करना था, उसका प्रबन्ध किया। घटवार को खबर दी गई। वह आ गया। करुत्तम्मा को खबर देने की बात उठाई गई। जब वह बात शीकातुर चेम्पन के कान में पड़ी तब तुरन्त उसने गरजकर कहा, “नहीं, उसे खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

चेम्पन के विचार में करुत्तम्मा ही चक्की की अकाल मृत्यु का कारण थी। सब लोग थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गए। चेम्पन के इस निश्चय के न्यायान्याय के बारे में सब सोचते ही होगे। घटवार की राय की प्रतीक्षा थी। घटवार ने कहा, “मौं को बेहोश हालत में पढ़ी देखकर ही न वह गई थी। सब त्यागकर ही वह गई है न? जाने दो।”

पचमी तब भी अपनी दिदिया को पुकारती रही थी। लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

दाह-स्स्कार की तैयारियाँ होने लगी। गैर-धर्मी परी थोड़ी दूर पर खड़ा रहा। करुत्तम्मा के बिना ही दाह-स्स्कार हो रहा था, इससे उसे दुख हुआ। लेकिन वह इस सम्बन्ध में कुछ कर भी नहीं सकता था।

करुत्तम्मा को कितना दुख हो सकता है! आगे कभी मिलने पर वह उससे पूछ सकती है और कह सकती है, ‘मोतलाली, तुमने भी तो खबर

नहीं दी !’ इतना ही नहीं । चक्की भी उसे माफ नहीं करेगी ?

परी को लगा कि इस समय उसे कुछ करना चाहिए । लेकिन क्या करे, यह स्पष्ट नहीं था । वह करुत्तमा का भाई बन गया था । उसे अपनी बहन बना लिया था । अब भाई के तौर पर उसे जीवन बिताना था ।

उस रात को परी को नीद नहीं आई । रात काफी बीत जाने पर वह उठकर बैठ गया । थोड़ी देर बाद वह झोपड़ी को बन्द करके निकल पड़ा ।

वह आगे बढ़ता गया । समुद्र के किनारे की हवा मानँ कुछ गुनगुना रही थी । तरणे भी मानो कुछ पूछ रही थी—कहाँ जा रहा है ?—तृक्कुञ्ज-पुषा ?—क्यों ?—करुत्तमा को उसकी माँ के मरने की खबर देने ?—इसके लिए तुम्हे क्या अधिकार है ?—यदि कोई यह सबाल पूछ बैठे तो वह क्या उत्तर देगा ?

करुत्तमा से जब वह मिलेगा तब वह क्या कहेगा ? इस तरह के प्रश्न उसकी गति को रोकने वाले प्रश्न थे । फिर भी वह बढ़ता गया, पर वह उसका भाई है । उसकी माँ ने उसे उसका भाई बना दिया है । लेकिन क्या वह बहन बनेगी ?

परी यदि करुत्तमा मे जाकर मिले तो उस मिलन का नतीजा क्या होगा, इसके बारे मे उसने सोचा है ?

खूब भौर के समय वह तृक्कुञ्जपुषा-तट पर पहुँचा । नाव पर जाने के लिए निकलने वाले एक मल्लाह को उसने देखा । परी ने उससे पलनी के घर का पता पूछा । ‘चाकरा’ के समय वह आदमी नीकुञ्जम-तट पर गया था । उसने परी को पहचान लिया । उसने पूछा, “छोटे मोत-लाली ! पलनी को क्यों खोजते हो ?”

परी जरा घबरा गया । उसने कहा, “पलनी की स्त्री की माँ मर गई है ।”

कोच्चुनाथन के लिए यह एक समाचार था । वह चेम्पन और चक्की दोनों को जानता था । उसने चक्की की प्रशंसा की । लेकिन वह एक गडबड मे डालने वाला सबाल पूछ बैठा, “मरने की खबर लेकर

मोतलाली तुम कैसे आये ? वहाँ कोई मल्लाह उन्हे नहीं मिला क्या ?”

यह सचाल परी के मन मे भी उठा था और उसने एक जवाब भी सोच रखा था, “लोगों ने पलनी और उसकी पल्नी को खबर न देने का ही निश्चय किया है। इसलिए मैं चला आया। चक्रकी के मरने के बाद वहाँ का समावार परी ने कह सुनाया। तब भी कोच्चुनाथन ने सचाल उठाया, “उसके लिए आधी रात के समय ही मोतलाली क्यों निकल पड़े ?”

इसका जवाब उसे भाई बनाने वाली बात थी। लेकिन वह कारण बताने लगता तो उसके पीछे की कहानी भी कहनी पड़ती। एक मुसलमान कैसे एक मल्लाहिन का भाई बन गया ? मौं ने क्यों उसे भाई बना दिया ? यह सब बताना पड़ता। उपयुक्त जवाब न पाकर वह परेशान हुआ। आखिर उसने एक गोल-मटोल जवाब दिया कि उन लोगों की हृदय-हीनता देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए वह चल पड़ा। पता नहीं इस जवाब से कोच्चुनाथन को सन्तोष हुआ कि नहीं। उसने परी को पलनी का घर बता दिया।

करुत्तम्मा से क्या कहे ? सीधे खबर दे देना ठीक है ? उसे कैसे समझाया जाय ?

नावे समुद्र मे उतर गई थी। पलनी के घर के सामने आकर परी खड़ा हो गया। वह छोटा घर शान्त और निश्चब्द था। परी का कण्ठ सूख गया। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा। फिर अनजाने ‘करुत्तम्मा’ शब्द उसके मुँह से निकल गया।

कोई जवाब नहीं मिला। परी ने दुबारा पुकारा। भीतर से आवाज आई—“कौन है ?” करुत्तम्मा ने परी की आवाज पहचान ली।

“मैं हूँ, करुत्तम्मा !”

“मैं माने ?”

“मुझे पहचाना नहीं ?”

“कौन हो ?”

“मैं हूँ परी, परी।”

फिर एक लम्बी निस्तब्धता रही। परी ने कहा, “एक बड़ी बात कहनी है करुत्तम्मा।”

खलाई की आवाज में भीतर से जवाब आया, “वहाँ से चले आने पर भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे? नहीं, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूँगी। —— मैं देखना नहीं चाहती।”

वह रो रही थी। उसके शब्द परी के कलेजे में चुभ गए। उसने ठीक ही कहा। वह अपने बचाव की खोज में थी। वह उसके चले आने पर भी उसे चैन से नहीं रहने देता। बिना कुछ कहे ही उसने लैट जाने की बात सोची। फिर सोचा, जो बात कहनी है बाहर ही से क्यों न कह-कर चला जाय! लेकिन एकाएक कठोर होकर वह कैसे कहे? परी ने दरवाजा खोलने की प्रार्थना की। उसने पूछा, “करुत्तम्मा! क्या तुम मुझे नहीं जानती?”

अपने उमड़ते गहरे भावों को होठ काटकर दबाते हुए भीतर से ही उसने कहा, “जानती हूँ।”

“तब बाहर आने से क्यों डरती हो?”

इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसने आगे कहा, “मैं अब भी वहीं पुराना परी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति के साथ रहती हो।”

निस्सहाय होकर करुत्तम्मा ने कहा, “मैं तुम्हे नहीं देख सकती।”

परी को कहीं से हिम्मत मिली। उसने कहा, “ऐसा मत कहो करुत्तम्मा! हमे आगे भी मिलते रहना है। एक-दूसरे से आमने-सामने होकर बाते भी करनी है।”

“बाप रे, नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह समुद्र में गया है—तूफान और आँधी वाले समुद्र में।”

फिर निस्तब्धता छा गई। परी ने फिर पुकारा, “करुत्तम्मा!”

करुत्तम्मा ने लाचारी से जवाब दिया, “क्या है?”

“मैं तुम्हारा भाई हूँ।”

“भाई ?”

उस गहरे सम्बन्ध का विच्छेद न करके, उसे एक नये रूप मे प्रकट करना सम्भव हो गया । करुत्तम्मा कुछ आश्वस्त हुई ।

परी ने कहा, “हौं, बहन, तुम्हारा भाई । तुम्हारा सगा भाई नहीं है न ?”

“नहीं ।”

“तो तुम्हारा भाई तुम्हे बुला रहा है । तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हारी देख-भाल करूँ ।”

“मेरी माँ ?”

‘हौं, हौं, दरवाजा खोलो । सब बाते सुना दूँ ।”

करुत्तम्मा ने भीतर वत्ती जलाई और दरवाजा खोल दिया । कैसे वह बात कहे ? लेकिन निष्ठुरता के साथ बात निकल गई, “तुम्हारी माँ मर गई ।”

करुत्तम्मा सुनते ही धाड़ मारकर रोने लगी । पड़ोस की स्त्रिया आ गई । तब तक परी वहाँ सेचला गया था । पड़ोसिनों ने करुत्तम्मा को शान्त करने की कोशिश की । उसकी माँ के मरने की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ । उस दुख मे भी करुत्तम्मा ने यह नहीं बताया कि किसने खबर दी है । स्त्रियों ने अन्दाज लगाया कि उसने सपना देखा है ।

काफी देर तक अश्रु-पात करने के बाद उसके मन मे कई विचार उठे । उस खबर पर विश्वास किया जा सकता है ? उसे लगा कि कहो वह खबर एक निराश प्रेमी को द्रोह-बुद्धि का फल तो नहीं है । यदि माँ सचमुच मर गई है तो खबर देने के लिए कोई नहीं आयगा क्या ?

पति समुद्र मे गया था । लौटने पर उसे खाना देना था । पत्नी की कर्तव्य-भावना ने उसे घर के काम-काज मे फैसा दिया । किसी तरह रोज की तरह उसने भात-तरकारी तैयार की ।

वह एक-एक क्षण इस प्रतीक्षा मे रही कि कोई खबर लेकर आयगा । पलनी जरा पहले ही लौट आया । फृट-फूटकर रोती हुई करुत्तम्मा ने

कहा, “मेरी माँ मर गई।”

पलनी ने अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गम्भीरता दिखाई पड़ी। करुणम्मा रो रही थी।

“मैंने अपनी माँ को मार डाला।”

जारा भी सहानुभूति प्रकट किये बिना पलनी ने पूछा, “खबर कौन लाया है?”

क्या जवाब दे? —करुणम्मा घबरा-सी गई। पलनी शौर से उसे देख रहा था। आखिर करुणम्मा ने कहा, “वह छोटा मोतलाली।”

“तब वह कहाँ है?”

“खबर देने के बाद वह दिखाई नहीं पड़ा है।”

पलनी की उस गम्भीरता का क्या कारण था? —परी का आना या रिवाज के मुताबिक खबर न मिलना? पलनी ने पूछा, “क्या उस मुसलमान को तेरे बाप ने भेजा था?”

करुणम्मा इसका जवाब नहीं दे सकी। पलनी ने आगे पूछा, “यह खबर भेजने के लिए क्या उन्हे उस टट पर कोई मल्लाह नहीं मिला?”

करुणम्मा इसका भी क्या जवाब देती? इसी मौके पर छुरा भोक-कर कायदे-बेकायदे की बात उठानी थी? पलनी के मन मे किसी सन्देह ने जगह कर ली थी। क्या सन्देह था, करुणम्मा को मालूम नहीं हुआ, उसे सिर्फ एक बात कहनी थी, “हम लोग चले।”

“कहाँ?”

“नीकुञ्जमन्तट पर।”

पलनी अपना होठ एक ओर खीचकर जरा हँस दिया। उसका अर्थ था कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है। करुणम्मा ने कहा, “मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, मर गई है।”

इस तर्क का पलनी पर कोई असर नहीं पड़ा। करुणम्मा ने कहा कि उसकी माँ ने एक माँ की तरह पलनी से प्यार किया था, माँ ने कोई गलती नहीं की है, गलती हुई है तो उसीसे हुई है, शादी के दिन माँ ने ही

उसे यहाँ आने को कहा था और उसीके कहने से वह चली आई। उसने आगे कहा, “समुद्र-माता की कसम! मैं जब आने में हिचक रही थी तब मौं ने ही जोर देकर मुझे आने को कहा था। हम जरा जाकर वहाँ देख आयें।”

करुत्तम्मा पलनी का पैर पकड़कर रोने लगी। लेकिन वह पत्थर की मूर्ति की तरह अचल रहा।

मौं कैसी होती है, यह चक्की ने ही पलनी को दिखा दिया था। वही चक्की मर गई है। उसकी मृत्यु का पलनी पर असर नहीं होगा, यह कैसे हो सकता था! उसने अपने-आप बोलते हुए कहा, “सबने मिलकर मुझे किनारे पहुँचा दिया।”

करुत्तम्मा ने पूछा, “नीकुर्ज्ञम जाने के लिए न?”

“ऐसा ही कह रहे थे। लेकिन कोई जरूरत नहीं है।”

“क्यो?”

थोड़ी देर बाद पलनी ने कहा, “उसको आते हुए कोच्चुनाथन भैया ने देखा था। वह पप्पू टट के लोगों के बीच अपयश की बाते फैलाता ही रहता है। जब-जब . . .”

कहते-कहते उसका गला रुँध गया। गला साफ़ करके वह फिर बोला, “वे सब बाल-बच्चे वाले हैं। इसलिए मुझे नाव पर से उतार दिया।”

करुत्तम्मा को सब बाते समझ में आ गईं। उस भौंके पर यह भी हो गया। करुत्तम्मा को सिर्फ़ एक ही सवाल करना था। उसने पूछा “मुझ पर सन्देह करते हो?”

वह न ‘ना’ कह सकता था, न ‘हाँ’। उसने पूछा, “वह मुसलमान आकर खबर देने के बाद फाँसी लगाने के लिए कहाँ चला गया?”

“उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा।”

“वह क्यों अपने को यहाँ घसीट लाया?”

सब-कुछ कह डालने का वह मौका था। बिना कुछ छिपाये सब बात बताई जा सकती थी। लेकिन करुत्तम्मा को कहने के लिए शब्द नहीं

मिल रहे थे ।

पलनी ने पूछा, “उसने आकर क्या कहा ?”

“कि माँ मर गई ।”

वह उस छोटे परिवार के भविष्य का निर्णय करने वाला क्षण था ।

उस समय समुद्र में उस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी । बुढ़िया की मृत्यु की बात सच्ची हो सकती है । चक्की के बेहोश होकर गिर जाने की बात सबको मालूम ही थी । शायद वह फिर उठेगी नहीं, यह भी सभी ने अन्दाज लगाया था । लेकिन मरने की खबर देने के लिए एक मुसल-मान छोकरे के आने की क्या जरूरत थी ?

कोच्चुनाथन ने कहा, “मेरे पूछने पर वह घबरा गया था ।”

पप्पू को और भी बाते मुनानी थी । उसने कहा कि नीकुञ्जमन्तट पर कस्तम्मा और वह मुसलमान रात-दिन साथ-साथ खेलते और दौड़ते-फिरते थे । उसने आगे कहा, “रात को वह बैठकर गाता था और यह निकलकर मिलने जाती थी । इसलिए न शादी के समय मैंने झगड़ा खड़ा किया था ।” पप्पू को एक जीत-जैसा अनुभव हुआ ।

सबको एक बात का दुख था । पलनी बेचारा एक शुद्ध आदमी है ।

उसे एक ऐसी स्त्री मिली, इसका सबको दुख था ।

एक ने पूछा, “तब उसे नाव पर कैसे ले जायेंगे ?”

इस सवाल का मतलब सब जानते थे । सबने समझा कि पलनी का घर शुद्ध नहों है । उस स्थिति में पलनी अगर नाव पर आवे तो कभी भी सकट उपस्थित हो सकता है ।

बेलायुधन ने पूछा, “उसका घर शुद्ध नहीं है, यह किसने कहा है ?”

आण्डी ने भी बेलायुधन का पक्ष लिया और बात उठाने वाले कुमारन से पूछा, “क्यों रे ! तू निश्चित रूप से कह सकता है ? उसका घर शुद्ध नहीं है, यह निश्चित रूप से यहाँ कौन कह सकता है ?”

यहाँ तक कहने के लिए कोई तैयार नहीं था । पलनी का घर शुद्ध है, इसका विश्वास किया जा सकता था । इसमें किसी को आपत्ति नहीं

हो सकती थी। फिर भी मामूली तौर पर एक सन्देह सबको था। उस दिन पलनी इसी कारण नाव को बीच समुद्र में नहीं ले गया था कि उस की बुद्धि विकृत हो गई थी? पप्पू, जो कहानी फैलाता रहता है उससे भी उसके मन में तकलीफ है। फिर भी, 'लड़की अच्छी हैं', यह कहने वाले भी थे।

कुमारन् को छोड़कर बाकी सब पलनी के घर को पवित्र मानने के लिए तैयार थे। कुमारन् ने एक सवाल उठाया, "एक मल्लाह, मरने की खबर देने के लिए एक मुसलमान को ही भेजेगा क्या? तिस पर रात के समय वह क्यों आया?" इसका जवाब कौन दे सकता था?

सब दृष्टि से देखने पर एक सन्देह बना रह गया। लेकिन पलनी से सबको सहानुभूति थी।

पलनी के घर में भी बाते अनिश्चित थी। करुत्तम्मा ने एक पीड़ित शोकातुर हृदय के तौर पर, एक पत्नी के अधिकार के साथ नहीं, विनती की कि उसे माँ का शब्द ही अन्तिम बार देख आने के लिए जाने दिया जाय, लेकिन पलनी ने कुछ नहीं कहा।

करुत्तम्मा ने पूछा, "मुझ पर विश्वास कर सकते हो?"

"विश्वास करूँगा ही।"

लेकिन वह कुछ बाते जानना चाहता था। और करुत्तम्मा बिना कुछ छिपाये सब-कुछ कह डालने के लिए तैयार थी। लेकिन उस समय उसमे कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। उसके लिए वह समय बहुत महत्त्व-पूर्ण था। लेकिन पलनी उसको गुरुत्वा नहीं समझ सकता था। उसकी ही माँ की नहीं, किसी की भी माँ की मृत्यु की गुरुत्वा वह नहीं समझ सकता था।

करुत्तम्मा निरुपाय होकर रोई। एक समाधान उसके मन में आया। उसे अकेले ही जाने दे, वह उसी दिन लौट आयगी। पलनी ने इस सुझाव का भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। करुत्तम्मा के मन में यह विचार भी आया कि पति की उपेक्षा करके ही वह क्यों न चली जाय। लेकिन

इसका मतलब था कि लौटकर नहीं आना होगा। नहीं, उसके लिए वह तैयार नहीं थी। उसने एक मल्लाहिन होकर जन्म लिया है, वैसे ही उसे मरना भी है। उसकी माँ की भी वही डच्छा थी। वह पिता के ही पैरों से लिपटकर अपनी जीवन-लीला समाप्त करेगी। एक आदमी को भेजकर माँ के मरने की खबर तक न देने वाला बाप उसे शरण देगा, इसकी आशा करना व्यर्थ था। हक के तौर पर भी वह शरण नहीं माँग सकती थी। वह पिता की अवहेलना करके घर त्यागकर एक आदमी के पीछे आई है। अब वह उसकी छोटी झोपड़ी में ही पड़ी-पड़ी अपनी जिन्दगी गुजार लेगी।

उसे पचमी की भी याद आई। आते समय उसने 'दिदिया-दिदिया' कहकर जो कहण पुकार की थी वह अब भी उसके कानों में गूँज रही थी। वह पचमी माँ के दाह-स्सकार के समय आश्रयहीन होकर रोती होगी। अब उसे घर में अकेले रहना होगा। समुद्र-टट पर और भी तो परो होगे।

पलनी दूसरी तरफ मूँह किये चुपचाप बैठा था। उसके मन में भी शान्ति नहीं थी। अब तक वह सब तरह की चिन्ताओं से मुक्त रहा है। कही भी रहे, वहाँ उसे सुख-ही सुख मालूम होता था।

करुत्तम्मा उसके पास गई और कहा, "खाना खा लो।"

"मुझे भूख नहीं है।"

"क्यों?"

पलनी ने पूछा, "वह मुसलमान यहाँ क्यों आया?"

करुत्तम्मा ने अपनी सच्ची स्थिति बतला देने के विचार से कहा, "मेरा सर्वनाश करने के लिए। नहीं तो और किस लिए?"

करुत्तम्मा ने पलनी के सवाल का सामना किया। इतनी हिम्मत उसमें आ गई। पलनी भी सजग था। उसने पूछा, "वह कौन है करुत्तम्मा?"

करुत्तम्मा उसके सवाल का अर्थ समझकर सब-कुछ कह डालने के लिए तैयार होकर बैठ गई। कैसे कहना है इसीमें उसे सन्देह था। कहीं से भी शुरू करे। अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। सब-कुछ कह

डालना है तो कहीं से भी शुरू करे, इसमें क्या हानि है। उसने कहा, “हम दोनों बचपन से साथ-ही-साथ खेलते-कूदते बड़े हुए थे।”

करुत्तम्मा ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बिना किसी क्षोभ या उत्तेजना के वह कहती गई। पलनी ध्यान से सुनता गया, पलनी का भाव देखकर करुत्तम्मा को डर भी लगा। थोड़ा सुनाने के बाद उसने पूछा, ‘क्या मेरी बातों का विश्वास नहीं होता?’

पलनी ने कहा कि वह विश्वास करता है। एक लड़की अपने पति से अपनी प्रेम-कहानी सुना रही थी। उसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। वह अपने को काले रंग में चित्रित कर रही थी न?

आगे चलकर करुत्तम्मा उस ढर्हेंसे कहानी सुनाने में असमर्थ हो गई। कहानी में वह गति नहीं रही। उसने अपने अठारहवें साल में प्रवेश करने तक की बाते सुनाईं। पैसा कर्ज लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। अन्तिम विदा लेने के बारे में भी नहीं कहा। बाकी सब कुछ सुना डाला। उसे सन्देह हुआ कि पलनी को ऐसा लगा होगा कि उसने कुछ छिपाया भी है। उसने कहा, “मेरा कोई भाई नहीं है, वह मेरा भाई है।”

उसे नहीं लगा कि पलनी ने इसे मान लिया हो।

सब सुन चुकने के बाद पलनी ने कहा, “तब तो लोगों का यह कहना कि उन लोगों ने तुम्हें नीकुर्जम तट पर से दूर कर दिया है, सच ही है, है न?”

इसके उत्तर में करुत्तम्मा को एक ही बात कहनी थी कि वह इस तट के योग्य एक अच्छी पत्नी होकर अपना जीवन बितायगी।

## १५

करुत्तमा ने जो कुछ कहा था वह सब सत्य था । मान भी लिया जाय कि पलनी ने सबका विश्वास कर लिया । फिर भी वह उसकी भावनाओं के लिए एक भारी आघात था । पलनी एक चिन्ताशील व्यक्ति था । वह उदास हो गया । क्या पप्पू से अब वह सीधा लड़ सकता है ? करुत्तमा का चरित्र शुद्ध है, इसका उसे विश्वास था । लेकिन यदि पप्पू सामने आकर कहे कि वह करुत्तमा के योग्य नहीं है, तो वह उसका खण्डन कैसे कर सकता है ? करुत्तमा को वह उसके पिता के सरक्षण से हठपूर्वक लाया है । उसको छोड़ देने के लिए उसकी धर्म-बुद्धि ने सम्मति नहीं दी । उसे छोड़ दे तो वह फिर कहाँ जायगी ?

उसने सब बाते खोलकर कह दी है । इसका उसे विश्वास था । उसने अपनी गलतियों के लिए आँसू बहाते हुए वार-बार प्रतिज्ञा भी की है । बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए । वह अवश्य आगे सच्चरित्र होकर रहेगी, इसमें पलनी को सन्देह नहीं था ।

लेकिन भावावेश के साथ उसको चूम लेना अब पलनी के लिए असम्भव था । आर्लिंगन के समय उसके हाथ अब ढीले ही रह जाते । करुत्तमा दुगने आवेश मे अश्रु-पात के साथ क्या-क्या बोल जाती थी । हाथ से वह निकल न जाय, इस डर से वह पति को कसकर पकड़ लेती थी, ऐसा लगता था कि उसके मन मे हमेशा यह डर है कि पलनी कही हाथ से निकलकर बाहर न गिर जाय । ‘मुझ पर विश्वास नहीं है ?’, इसके सिवा ‘मुझसे प्रेम नहीं करते क्या ?’—यह सवाल वह पूछ नहीं सकती थी । लगता था कि ऐसा सवाल करने का उसका अधिकार खत्म हो गया ।

पलनी ने, जो कभी किसी से नहीं झगड़ता था, अब एक झगड़ा खड़ा कर दिया। एक बार पप्पू ने कुछ बाते सुनाईं। पलनी करुत्तम्मा से सब सुन चुका था, फिर भी एक तीसरे व्यक्ति से सुनना वह सहन नहीं कर सकता था। दोनों में झगड़ा हो गया और पलनी ने उसे मार दिया।

यह झगड़ा छोटा होकर नहीं रहा। पप्पू एक बड़े परिवार का अग था। बात बढ़ गई कि पप्पू को मारने वाला पलनी होता कौन है।

करुत्तम्मा के घर जाने का सवाल इस तरह खट्टम हो गया। उन दिनों समुद्र में मछली भी नहीं मिलती थी। पलनी में कोई उत्साह नहीं था। करुत्तम्मा को भी ‘क्या हिस्सा मिला है’—यह रोज पूछने की हिम्मत नहीं रही।

क्या करुत्तम्मा को सजा-धजाकर मण्णारशाला मेला मे नहो ले जायगा? क्या उस घर को, एक खाना बनाने और एक सोने के लिए—दो कमरों वाला नहीं बनाया जायगा! नाव और जाल की बात को तो छोड़हीं देना है। वह बड़ी दूर की बात है। नाव और जाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर तो रोज का खर्च हो जुटाना मुश्किल हो गया। रोज के चावल का खर्च भी कभी-कभी नहीं जुट्ठा था। करुत्तम्मा को एक और कपड़ा और ब्लाउज चाहिए। पलनी की देह पर भी एक ही कपड़ा था।

“मेरे कल से मछली बेचने पूरब मेरा जाऊँ?”

करुत्तम्मा के इस प्रश्न का पलनी ने झट से कोई उत्तर नहीं दिया। करुत्तम्मा ने बतलाया कि जाने से क्या-क्या फायदे होंगे और कहा कि उसे मजूर हो तभी वह जायगी। पलनी ने कहा, “तब जाओ।”

दो दिन मे करुत्तम्मा ने एक टोकरी खरीद ली। अगले दिन जब नावे किनारे लगी तब वह बेचने के लिए मछली लेने समुद्र-तट पर पहुँची।

शादी के बाद इतनी जल्दी लड़की टट पर आ जाय, यह किसी को ठीक लगने वाली बात नहीं थी। कोच्चू ने पूछा, “तू क्यों इस काम के लिए आई है री?”

“मैं भी तो इस तट की मल्लाहिन हूँ” — करुत्तम्मा ने जवाब दिया। फिर भी उसका तट पर जाना उस दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय हो गया।

करुत्तम्मा को उस काम का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे काम पर जाना पड़ेगा, यह उसने कभी सोचा था? कौन जाने? उसकी माँ ने यह काम किया था जरूर। लेकिन चक्की ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी को भी सिर पर भारी टोकरी लेकर बेचने के लिए धूमना पड़ेगा। नावों के किनारे लगाने पर करुत्तम्मा भी दूसरी औरतों के साथ आगे बढ़ी। एक व्यापारी ने एक नाव से थोक माल ले लिया। करुत्तम्मा और तीन-चार औरतों ने मिलकर उस माल को खरीद लिया।

दूसरी औरते करुत्तम्मा से आगे निकल गई। उन्हे अभ्यास था। करुत्तम्मा भारी टोकरी सिर पर लेकर दौड़ नहीं सकती थी। वह सबसे पीछे पड़ गई। कभी-कभी तीन-चार मील दूर जाना पड़ता था। करुत्तम्मा को न जगह से परिचय था, न वहाँ के लोगों से।

आगे जाने वाली सब स्त्रियाँ घरों में जा चुकी थीं। नया रास्ता ढूँढ़-कर जाना उसे मालूम नहीं था। सब घरों में उसने पूछा। कहीं से जवाब मिला कि खरीद चुके हैं, कहीं दाम नहीं पटा, तो कहो मछली ही पसन्द नहीं आई। काफी दूर तक ढौने पर भी माल नहीं बिका। घाटे पर भी बेच देने का उसका मन हुआ। लौटाकर कैसे ले जाती? इस तरह अन्त में घाटे पर ही बेचकर वह थकी-मॉदी घर लौटी। उस दिन एक सन्तोष की बात यह हुई कि वह कुछ घरों में आगे माल देने की बात पक्की कर आई।

पलनी बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। करुत्तम्मा बहुत थक गई थी। वास्तव में उससे चला ही नहीं जाता था। उसने आशा की थी कि उसकी दशा देखकर पलनी पसीजेगा और कुछ पूछेगा। कम-से-कम इतना तो पूछेगा कि ‘कितना मिला?’ लेकिन पलनी ने कुछ भी नहीं पूछा। इस व्यवहार के खिलाफ वह कुछ कर भी नहीं सकती थी।

वह उसकी पत्नी थी। हक की बात छोड़ भी दी जाय तो भी उसका

कुछ कर्तव्य तो था ही। उसने पूछा, “खाना खाया ?”

पलनी ने जवाब दिया, “हाँ।”

नहाने के बाद बदलने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वह गीला कपड़ा ही पहने रही।

उसने बिना पूछे ही उस दिन का अपना अनुभव सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि उस दिन घाटा होने पर भी आगे की बिक्री की बात वह तय करके आई है। एक बात और वह कहना चाहती है। उसने पलनी से कहा कि वह किसी ‘कम्बा’ जाल वाले के हाथ उसे काम में लगा दे।

पलनी ने जवाब दिया, “मुझसे यह सब काम नहीं होगा।”

दूसरे दिन ‘बटोर’ में ‘आयिला’ मछली मिली। करुत्तम्मा के पास जितना पैसा था उतने से उसने आयिला खरीद ली। वह उस दिन भी सबके पीछे गई। दूसरी औरतों ने एक आने में दो मछली की दर से बेची। करुत्तम्मा ने दो आने में पाँच की दर से बेची। लाभ कम होने पर भी उसे कुछ घरों में रोज मछली देने की सुविधा हो गई। उन घर वालों ने नई मछली वाली के बारे में अच्छा भत प्रकट किया।

तीन-चार दिन के बाद तट पर एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। मछली बेचने जाने वाली औरते मिलकर करुत्तम्मा की शिकायत करने लगी। करुत्तम्मा किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। वह खड़ी-खड़ी रोती रही। एक ने गुस्से में कहा, “वहाँ किसी मुसलमान के साथ रहती ही। अब यहाँ के टट का सर्वनाश करने आई है।”

एक दूसरी ने कहा, “उसे काम तो मिलेगा ही। सब घरों में मर्द लोग उसीसे मछली खरीदने को कहेंगे। यह तो ऐसे ही सज-धजकर धूमने और मर्दों को फँसाने वाली है ही।”

करुत्तम्मा के सामने यह सब कहा गया। सुनकर उसकी ओँखों के सामने अँधेरा छा गया। कान बन्द हो गए। उसका पक्ष लेने वाला इस ससार में कोई नहीं था। किसी ने भी उसकी वास्तविक स्थिति नहीं समझी; दूसरी मल्लहिनों की तरह काम करके जीने का भी उसे हक नहीं था।

समुद्र से लौटने पर पलनी ने उस दिन उससे यह भी नहीं पूछा कि उस दिन वह काम पर गई थी कि नहीं। उसने करत्तम्मा की तरफ सिर्फ देखा। रासा चेहरा देखना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन दिनों वह उस तरह का ही चेहरा देखा करता था। लेकिन उस दिन चेहरा रोज से ज्यादा कुम्हलाया हुआ था। पलनी ने इसका कारण पूछा। करत्तम्मा ने कहा, “कुछ नहीं।” बेचारी और क्या कहती? पूरा किस्सा कैसे सुनाती?

क्या तृक्कुन्नपुषा की औरतों में से किसी से भी कोई गलती कभी नहीं हुई है? नीकरुन्नम तट पर तो औरते जब आपस में झगड़ती थी तो एक-दूसरी की कहानी भी सुना देती थी। लगता था कि सबकी अपनी-अपनी कहानी थी। यहाँ किसी के बारे में भी करत्तम्मा को कुछ नहीं मालूम हुआ। यदि कुछ मालूम हो जाता तो वह भी कुछ सुनाती। क्यों नहीं सुनाती? उसने खुद क्या अपराध किया था?

क्या लड़के-लड़कियाँ यहाँ पर साथ-साथ नहीं खेलते? उसने लड़के-लड़कियों को सीधे चुनते और छोटी मछलियाँ बटोरते देखा है। यहाँ की औरते भी तो बचपन बिताकर हीं यहाँ बड़ी हुई हैं। करत्तम्मा के मन में हुआ कि कैसे भी वह इन लोगों की कहानियाँ जान जाय!

क्या यहाँ की हवा में भी किसी पुरानी स्त्री की प्रेम-कहानी व्याप्त नहीं है? क्या किसी अपराधिनी मल्लाहिन की आत्मा यहाँ भी चाँदनी में मँडराती नहीं फिरती? ऐसी कहानी से सम्बन्धित कोई गाना किसी को गते उसने नहीं सुना है।

करत्तम्मा ने मछली बेचने जाने का काम छोड़ दिया। लेकिन एक दूसरा काम उसने शुरू किया—मछली खरीदना और उन में नमक लगाकर सुखाकर रखना। जब मछली नहीं मिलेगी तब इसका अच्छा दाम बसूल हो जायगा। नहीं तो थोक माल लेने वालों के हाथ भी बेच सकती है।

इस तरह करत्तम्मा वहाँ अपना एक अलग जीवन बिताने लगी।

वास्तव में उसका हमेशा ही अपना एक निजी जीवन रहा है, जिसमें वह अकेली ही रहती आई है। यहाँ भी बिना किसी से दोस्ती लगाये। बिना किसी से बाते किये उसके अनेक दिन बीते हैं।

पलनी की भी वही बात थी। वह रोज काम पर जाता था, पर उसका जोश और उत्साह खत्म हो गया था। उसके साथी थे। लेकिन वह सबसे अलग रहता था।

पति-पत्नी का जीवन इस तरह एक सतह पर आ गया। शुरू के सब आवेदा खत्म हो गए। यदि आवेश स्वाभाविक रूप से ठण्डे हो जायें तो जीवन पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों की बात ऐसी नहीं हुई। प्रज्वलित होता हुआ आवेश एकाएक ठण्डा हो गया। जीवन की बन रही योजनाएँ अचानक भग हो गईं। दोनों के बीच सिर्फ एक भाव-वृन्द या पति-पत्नी का सम्बन्ध रह गया।

ऐसी अवस्था से दोनों सन्तुष्ट थे कि नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। तट पर करुतम्मा जैसे बातचीत का विषय बन गई, वैसे ही पलनी भी बातचीत का विषय बन गया। पलनी जब कही जाता तब उसे लगता कि उसके पीछे लोग आपस में उसके बारे में कुछ कानाफूमी करते रहे हैं।

चार-पाँच महीने पहले जब वह बिलकुल स्वतंत्र था तब उसे देखकर कोई भी उससे प्रसन्न-भाव से कुशल-मगल पूछे बिना नहीं रहता था। उसके बारे में सबका अच्छा मत था। लेकिन आज जहाँ भी वह जाता है, लोगों को कुछ-न कुछ छिपाकर उसके बारे में बोलने के लिए रहता है। कैसा परिवर्तन हो गया! पलनी ने किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा था। . . लेकिन उस दिन पागल की तरह बीच समुद्र में नाव ले जाने के बाद से उसको पतवार नहीं लेने दी गई।

सब के मन में एक डर समा गया कि पलनी को भ्रम हो गया है और करुतम्मा के अच्छा आचरण बाली न होने से पलनी के साथ समुद्र में जाना खतरनाक होगा।

करुतम्मा के पक्ष में एक शब्द भी कहने वाला कोई नहीं था। पलनी

की भी वही स्थिति थी। कोई उन दोनों के बारे में कुछ भी कह सकता था। उसका प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं था।

जिस नाव पर पलनी काम के लिए जाता था वह कुञ्जन 'जालबाले' की थी। कुञ्जन पुराने जमाने से ही नाव का मालिक रहा है। आज उसकी स्थिति गिरी हुई है। वह नाव ही उसके निर्वाह का एक-मात्र आधार थी। उसका घर और जमीन आदि सब दूसरों के हाथ में चले गए हैं। आज उसकी नाव और जाल नष्ट हो जाय तो उसके लिए भूखों मरने की नौकरत आ जाय। मजदूरी वह कर नहीं सकता था। ऊपर से वह बूढ़ा भी हो गया था।

उसके कान में भी करक्तम्मा की कहानी पहुँची। उसको बड़ा धक्का लगा। एक झट्ठा नारी का पति रोज उसकी नाव में जाता था। जब तक नाव नहीं लौटती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। समुद्र में क्या नहीं हो सकता। सब-कुछ नष्ट हो सकता है।

कुञ्जन ने बाते करने के लिए पलनी को छोड़कर बाकी सब मछुआरे को बुलाया। सबको वह डर था। औरते उस डर को रोज बढ़ाती और बचाव के लिए समुद्र-माता का नाम लेती थी। ऐसी परिस्थिति में जब कुञ्जन ने सबको बुलाया तब उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई।

कुमारन ने कहा, "आपको अपनी नाव नष्ट होने का डर है। लेकिन हम लोगों को अपने जीवन का ही डर है। हे मालिक, यदि कुछ हो जाय तो बारह परिवार नष्ट हो जायेंगे।"

वेलायुधन ने भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसको भी शायद भीतर-ही-भीतर डर हो गया था। कुञ्जन ने कहा,—"हाँ-हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। समुद्र की बात पक्की है।"

इस बात के बारे में किसी को भी सन्देह नहीं था। जमाना बदलता है। लेकिन समुद्र के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

कुमारन् ने डर भरी आवाज में कहा, "जब हम समुद्र में जायें और उस समय वह मुसलमान कहीं आ जाय तो क्या स्थिति होगी।"

कुञ्जन डर के मारे काँप गया । उसने कहा, “हाँ-हाँ, कुछ भी हो सकता है ।”

आण्डी ने निराशा के भाव में कहा, “सुनने में आया है कि वह अब भी यहाँ आया करता है ।”

कुञ्जन ने कहा, “ऐ, ऐसी बात है ? उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाय ?”

“ऐसा करने से सकट बढ़ जायगा न मालिक ?”

घरों में औरतों को चैन नहीं है । सब घबराहट में समय बिताती हैं । जब नाव समुद्र में जाती है तब जब तक कि वह किनारे पर लौट नहीं आती तब तक सब व्याकुल रहती है । आण्डी ने आगे कहा, “औरतों का कहना यदि ठीक है तो समुद्र-माता ही बचाती आई है । यदि पुराना नियम चलता तो हममें से कोई भी अब तक जिन्दा नहीं रहता । सब-के-सब समुद्र के भीतर ही सड़ गए होते और सिर्फ हड्डी रह जाती ।”

वेलुत्ता ने पप्पू से सुनी हुई बाते दुहराईं । चार-पाँच दिन पहले आधी रात के समय परी को वहाँ गाना गाते देखा गया था । इस तरह वह बराबर आया करता है ।

इतने पर भी पलनी के प्रति सबकी सहानुभूति थी । बेचारा पलनी ! उसकी ऐसी तकदीर हो गई ! कोई क्या कर सकता था ।

कुञ्जन ने घबराकर पूछा, “अरे, इसके लिए क्या उपाय है ?”

कुमारन् की राय में एक ही उपाय था । वह था पलनी को नाव से अलग कर देना ।

यह राय सबको ठीक लगी । वही एक रास्ता था । कुमारन् ने उस दिन बीच समुद्र में पलनी के नाव ले जाने की बात को शायद सौंदरी बार विस्तार से दुहराया । उसने आगे कहा, “उस पर फिर उस तरह का पागलपन सचार हो सकता है, मैं तो नाव में बराबर उसके चेहरे की तरफ देखता रहता हूँ, जिससे यह पता चल जाय कि कब उसका रंग बदलता है ।”

सबने यह बात मान ली। पतवार उसके हाथ में न रहे, पर डौँड भी कही गलत चला दे तो खतरा ही है न ?

कुमारन् की बात सबको ठीक लगी। लेकिन इससे सब को दुख भी हुआ। पलनी बचपन से ही कुञ्जन की नाव पर काम करता रहा है। शुरू में, उसे जाल फैलाने के काम में लगाया गया था। बीच समुद्र में भी पलनी को काम में लगाने में किसी को सकोच नहीं होता था, क्योंकि उसे कुछ हो भी जाय तो उसके लिए दुखी होने वाला कोई नहीं था। जाल फैलाने के काम से उठते-उठते वह पतवार सँभालने के काम तक आ गया। नाव पर पतवार सँभालन का काम करने के लिए हमेशा उसे औरो से दो रुपये अधिक ही मिलते थे। कुञ्जन ने सब से कहा, “कुमारन्, पलनी के हाथ से पतवार ले लेने के बाद से आमदनी कम हो गई है न ?”

कुमारन् ने यह मान लिया। लेकिन सकट से बचने के लिए उपाय ही क्या था ? दूसरा कोई उपाय नहीं था।

पलनी से यह बात कहे कौन ? कहे कैसे। कुञ्जन यह नहीं कर सकता था। उका मन तैयार नहीं होता था। उसने कुमारन से कहा, “तुम लोगों में से कोई भी कह दे ।”

कोई तैयार नहीं था। तब काम कैसे होता ? कर्ष्णा ने एक सुझाव दिया, “उसके आने के पहले ही नाव उतारकर चल दिया जाय। उसी तरह जरूरत पड़ने पर आदमी को भी बदला जा सकता है।”

कुञ्जन को यह तरीका मालूम था। लेकिन उस तरह निकाले जाने वाले आदमी पीछे मालिक से झगड़ने आते हैं। पलनी जब आयगा तब वह उससे कैसे मिलेगा, यह भी परेशान करने वाला सवाल था।

लेकिन वही एक उपाय था। इसलिए सब नाव में काम करने वालों ने मिलकर ऐसा ही करना तय किया। उसके बाद सब लौट गए। कुञ्जन ने पलनी की जगह एक नये आदमी को रख लिया।

पलनी रोज की तरह सवेरे उठकर समुद्र-किनारे गया। तब तक नाव चली गई थी। उसने जोर से आवाज देकर पुकारा। उसकी आवाज

एक गम्भीर गर्जन की तरह गौंज गई । इतने जोर की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी । पलनी को जब लगा कि वह जान-बूझकर छोड़ दिया गया है तब उसमे एक समुद्र की सन्तान की जो शक्तियाँ छिपी थी, सब एक साथ जागृत हो गईं । उसके शरीर की मास-पेशियाँ अजीब ढंग से फड़कने लगी । उसे उसके काम से रोका गया था । उसका शरीर समुद्र के तूफान और ऑधी-पानी से होड़ लगाने के लिए बना था । इतने दिनों से वह प्रकृति से होड़ लगाता आया है । अब उसे ऐसा करने से रोका जा रहा था । इस रुकावट से पलनी की शक्तियाँ जाग उठी । समुद्र में आने वाली हवा ने पलनी के गर्जन की आवाज को आगे के घरों तक पहुँचा दिया । नाव वाले उसकी पुकार सुन भी लेते तो क्या लौट आते ? नहीं लौटते । जिस नाव को उसने प्यार किया था, वह समुद्र में काम करने की उसकी अपाव्रता का प्रख्यापन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी ।

पलनी की जागृत शक्तियाँ काबू में नहीं आती थीं । उस घटना का अर्थ वह जानता था । वह अपना हक पाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा, मगर और शार्क की तरह वह पश्चिम वी ओर बढ़ा ।

यह, मल्लाह होकर, समुद्र की सन्तान होकर जीने के उसके आग्रह का फल था । एक उत्तुग तरंग-इतनी ऊँची कि वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, उसके सिर के ऊपर से उठी और दूसरे ही क्षण उसने उसकी शक्तियों को निचोड़कर उसे एक गेद की तरह टट की जमीन पर फेक दिया ।

पलनी हार गया । वह उठकर कुञ्जन ‘जाल चाले’ की धर की तरफ दौड़ा । उसे कुञ्जन से एक प्रश्न पूछना था, “क्या मैं समुद्र में काम करने के योग्य नहीं हूँ ?”

कुञ्जन कोई जवाब न दे पाने से परेशान हुआ, “अरे वह . . .”

“वह बात झूठ है, सर्वथा झूठ है । करत्तम्मा भष्टा नहीं है ।

“फिर भी सब ऐसा ही कहते हैं न ?”

कोध से भरे पलनी ने गरजकर कहा, “ऐसा ही कहते हैं ? . . . . . ।” और वह वहाँ से लौटकर चला गया ।

पलनी जब लौटा तब करुत्तमा घबरा गई। क्या वात है, यह उसे मालूम नहीं हुआ। उसने कारण पूछा। पलनी ने जवाब दिया, “लोग कहते हैं कि तुम भ्रष्टा हो; इसलिए मैं समुद्र में जाने लायक नहीं रहा।”

करुत्तमा सुनकर स्तम्भित रह गई। उसे दूसरों को भ्रष्टा कहते उसने पहले सुना था। लेकिन पति के मूँह से उसने पहले-पहल आज ही सुना। भले ही उसने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि दूसरों के शब्द ही क्यों न दुहराए हो।

इस तरह करुत्तमा के कारण एक अच्छे मल्लाह को घब्बा लग गया।

पलनी ने उससे पूछा, “यह वात भूलकर कि तू एक मल्लाह की लड़की हैं, तू बचपन में क्यों उस मुसलमान छोकरे के साथ खेलने और हँसने गई?”

बात महीं थी। लेकिन ऐसा सवाल अब तक किसी ने नहीं पूछा था। माँ ने शुरू में ढाटा तो था। लेकिन इतने स्पष्ट और सीधे प्रश्न का सामना करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। करुत्तमा व्याकुल हो गई। उस सवाल का मतलब वह समझ गई, लेकिन क्या जवाब देती? उसने अपनी गलती मान ली। उसन कहा, “ऐसा हो गया। माफ करो।”

पलनी का सवाल सीधे करुत्तमा से नहीं था। उसने कहा, “नहीं, तुम्हे कुछ क्यों कहना चाहिए? वह तुम्हारी गलती नहीं थी।”

करुत्तमा को जरा तसल्ली हई। पति ने उसे माफ कर दिया। उसकी बात का वह विश्वास भी करता है। उसकी गलती सिर्फ़ सावधान

न रहने की थी । यह एक बड़ी तसल्ली की बात थी ।

“लड़की को उस मुसलमान के साथ खेलने-कूदने के लिए छोड़कर  
। अब बेटी भोगे । माँ-बाप को ही न बच्ची की देख-भाल करनी  
चाहिए थी ।”

पलनी का गुस्सा इतने से ही शान्त नहीं हुआ, उसने करुत्तम्मा की  
तरफ देखकर कहा, “बाप ने उस मुसलमान छोकरे को अपनी बेटी  
दिखाकर और उसे धोखा देकर ही अपना नाव-जाल बनाया होगा । बड़ा  
अच्छा धन्धा था ।”

पलनी का यह सन्देह वास्तव में न्याय-संगत था । करुत्तम्मा ने पैसे  
का वह रहस्य पलनी से नहीं कहा था । करुत्तम्मा को लगा कि वह भी  
कह देना चाहिए था । मौका मिलने पर वह भी उससे कह देगी । पलनी  
ने पत्नी को चेतावनी दी, “देख, तेरे माँ-बाप ने तुझे जिस तरह पाला है,  
✓ तेरे पेट में जो है, उसे भी वैसे ही पालना । लड़की हो तो उसे तट पर  
के किसी लड़के के दुख का कारण बना देना ! सुना ?”

“करुत्तम्मा ने कहा, “नहीं, नहीं ।”

वह बात समझ गई । उसने यह तय किया कि पेट में जो बच्चा  
है उसे वह कभी भी अपनी तरह नहीं भोगने देगी । उसने खुद कितना  
भोगा है । उसने काफी सबक सीखा है ।

जीवन की एक बड़ी घटना का वह सामना कर रही थी । फिर भी  
उसे एक बात से घोड़ी तसल्ली हुई । आज पलनी ने पहले-पहल उसके  
पेट के बच्चे के बारे में चर्चा की । वैसे ही, उसकी गलती के बारे में भी  
आज ही उसने खुलकर पहले-पहल जिक्र किया । उसके बारे में जो बद-  
नामी फैलाई गई है उस पर उसका विश्वास नहीं था । करुत्तम्मा के  
यह कितनी बड़ी सात्वना की बात थी ।

एक ही घर में रहते हुए भी पति को पत्नी के घर में रहने का ख्याल  
नहीं रहता था । करुत्तम्मा जब अपने को निस्सहाय पाकर उसके पास  
जाकर बठती तब वह उसे लात मारकर हटा नहीं देता था—बस इतना ही ।

करुत्तम्मा इसे ही बहुत मानकर धीरज धारण करती थी। उसने पूछा, “आगे हम लोगों का निर्वाहि कैसे होगा ?”

पलनी के सामने वह सवाल नहीं था। करुत्तम्मा ने बाकी लोगों को दोषी ठहराया। उसने कहा “बड़े उपद्रवी हैं सब। मुझे घर-घर जाकर मछली बेचने का काम नहीं करने दिया। और अब तुम्हे समुद्र में भी नहीं जाने देते !”

पलनी ने जिद पकड़ी। उसने दृढ़ता से कहा, “मैं मल्लाह हूँ री। मल्लाह की तरह गुजारा करूँगा और मल्लाह की तरह ही मरूँगा।”

करुत्तम्मा ने पलनी को अपने सामने मूर्तिमान पौरुष के रूप में देखा। परिश्रम से पुष्ट हुई उसकी मास-पेशियाँ फड़क रही थीं। करुत्तम्मा को लगा वह सब तरह से मजबूत एक मल्लाह के सरक्षण में है। पलनी ने अपना होठ काटते हुए कहा, “अरी किसका अधिकार है यह कहने का कि मैं समुद्र में जाने योग्य नहीं हूँ। समुद्र में काम करके जीने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। समुद्र में जो कुछ भी है, वह सब मेरा भी है। ‘नहीं’ कहने का अधिकार किसको है ?”

पलनी का मन अपने अधिकार-बोध से लवालब हो गया था। अनन्त रत्नाकर का उत्तराधिकारी था वह।

“मल्लाह कभी कुदाली चलाने और जमीन जोतने नहीं जाता री। पलनी भी यह सब नहीं करेगा। यह निश्चित बात है।”

पलनी ने पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहा, “तू निश्चिन्त रह ! समुद्र की सम्पत्ति से पलनी का गुजारा होगा।”

समुद्र में जाल खोचने का वह समय था। पाँच साल की उम्र से समुद्र में ही उसका जीवन बीता है। इतने समय में आज ही पहली बार बिना काम के वह घर बैठा रहा।

पश्चिम की तरफ देखा तो बीच समुद्र में नावे पड़ी दिखाई दी। उस दिन ‘आयिला’ और ‘कुरिच्ची’ मछलियों का ‘बटोर’ था। पलनी अधीर होने लगा। क्या करे ? गुस्से के मारे वह अपने-आप बोलता रहा।

उसका पौरुष जागता गया ।

करुत्तम्मा की शक्ति भी जागी । पलनी मल्लाह था, तो वह भी मल्लाहिन थी । उसे भी समुद्र के धन से जीना था । कोई भी मल्लाहिन नारियल का छिलका पीटकर और रस्सी बॉटकर गुजारा नहीं करता ।

उसने पूछा, “मैं मछली बेचने जाऊँ ?”

पलनी ने मना किया । उसने कहा, “नहीं, तू घर मे ही रह ! भारी वैष्ट लेकर बोझ ढोने की जरूरत नहीं है ।”

“मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है । तकलीफ शुरू होने का समय अभी नहीं हुआ है ।”

पलनी ने कहा, “तेरा खर्च मैं चलाऊँगा, इसी विचार से मैं तुझे लाया हूँ । इतनी शक्ति मुझमे है । तू चुपचाप रहे तो काफी है ।”

करुत्तम्मा यह आदेश पूर्ण रूप से नहीं मान सकी । फिर भी उस आदेश मे एक बात छिपी थी । कसूरवार होने के काण उसे अपने भविष्य के बारे मे चिन्ता थी । पति अब उसे काम करने को नहीं कहेगा । वह उसका भरण-पोषण करेगा ।

उसके जीवन मे यह दिन कभी न भुलाया जा सकने वाला था । यथार्थ मे उसने उसी दिन पत्नी का-सा अनुभव किया । अब उसे कमी किस बात की रही ? ऐसे ताकतवर पति वाली दूसरी स्त्री उस तट पर कही नहीं थी । वे पति-पत्नी के आपसी सम्बन्ध के बारे मे एक स्पष्ट निश्चय पर पहुँच गए । एक ही बात अब बाकी रही ।

पलनी ने कहा, “करुत्तम्मा, एक ही बात जरूरी है । तुझे अपनी मर्यादा का पालन करना है । तब इस तट पर मल्लाहिन के तौर पर तुम्हारी गुजर हो जायगी ।”

इस तरह पलनी ने स्पष्ट रूप से एक माँग की । अब तक करुत्तम्मा पैर पकड़कर या छाती पर सिर रखकर बचन देती रही थी । अपनी तरफ से पलनी न इसके पहले माँग नहीं की थी ।

वास्तव मे आवश्यकता न होने पर भी इस तरह की माँग करना

पूछूँगी ।”

नीव मजबूत हो गई । दोनों एक हो गए । फिर भी जीविको-पार्जन का प्रश्न हुल करना बाकी ही रहा । करुत्तम्मा ने पूछा, “क्या करोगे यह क्यों नहीं बताते ?”

पलनी भी वही सोच रहा था । करुत्तम्मा ने आगे कहा, “मेरे पास बारह रुपये हैं ।”

उससे तो कुछ नहीं होगा । एक फेकने वाला जाल लेने के लिए भी कम-से-कम तीस रुपये खर्च होगे । करुत्तम्मा को एक बात सूझ गई । उसने कहा, “काँटा क्यों न खरीदा जाय ।”

पलनी ने कहा, “कॉटा खरीदेगे तो एक छोटी नाव भी चाहिए न ?”

“तब एक और आदमी भी चाहिए । कौन है साथ देने वाला ?”

उस प्रश्न को गौण बताते हुए पलनी ने कहा, “वह कोई कठिनाई नहीं है । एक छोटी नाव हो जाय तो मैं अकेला भी जाकर रोज के खर्च लायक कमा सकता हूँ ।”

✓काँटा ढालने के लिए जाने वाली पाँच-छ नावे उस टट पर थीं । करुत्तम्मा ने कहा कि उनमें से एक किराये पर ले ली जाय । पलनी ने कहा, “कोई भी नहीं देगा री ! कुछ हो जाय तो नाव ही जो नष्ट हो जायगी सो ।”

“तब और क्या उपाय है ?”

पलनी थोड़ी देर तक सोचता रहा । उसने कहा, “वह पैसा निकाल, मैं एक काँटा ही खरीद लाऊँ ।”

करुत्तम्मा ने रुपये निकालकर दे दिये ।

जीने का निश्चय करन वाले व्यक्ति की पत्नी ही वास्तव में भाग्य-वती होती है । घर, सामान, नाव, जाल आदि अनेक चीजे भविष्य के अन्तरिक्ष में दृष्टिगोचर होने लगी । मण्णारशाला का मेला खत्म हो गया । लेकिन अगले साल फिर होगा ।

करुत्तम्मा ने भगवान् से प्रार्थना की कि उसके पेट में जो बच्चा है वह

लड़की न हो। लड़की होने का नतीजा उसने पूरा-पूरा भोग लिया है। यदि लड़की हो जाय तो समझव है कि उसकी कहानी दुहराई जाय। नहीं, वह उसे किसी लड़के के साथ खेलने-बढ़ने नहीं देगी। उसे किसी प्रेमन् बन्धन में नहीं बँधना चाहिए। यदि लड़का हुआ तो वह उसके कारण किसी लड़की का जीवन नहीं बिगड़ने देगी।

उसने खाना तैयार किया। आज पहले की तरह एक ही बरतन में वह पति के साथ खाना खा सकती है, ऐसा उसे लगा। उसने सोचा कि आज वह बड़ा-बड़ा कौर उठाकर पति के मुह में देगी। वह इस तरह का दिवा-स्वप्न देखती रही।

भूखी रहना पड़े तो उसे वह सह सकती है। पति उसे प्यार करता है। उसने उसे माफ कर दिया है। अब और क्या चाहिए? उसके ईश्वर ने उसकी रक्षा की है।

रात को पलनी छोटा और बड़ा, दोनों काँटा खरीदकर लौटा। ठीक ढंग से कमवार कॉटो में रस्सी पिरोकर बौंध दी। इस तरह सब तैयारी कर ली गई।

जब सब लोग सो गए तब कॉटा उठाकर पलनी जाने के लिए तैयार हो गया। करूतम्मा ने पूछा, “क्या विचार है?”

उसने कहा कि किसी की नाव पानी में ठेल कर वह चला जायगा और मछली पकड़कर लोगों के सोकर उठने से पहले ही लौट आयगा। उसने कहा “मुझे भी समुद्र से जीवन-निर्वाह करना है।”

करूतम्मा डर गई। रात के समय समुद्र में जाना। ऐसे में न जाने कितने सकट आ सकते हैं।

उसने कहा, “बाप रे बाप! वह ...”

“उँह, क्या है री?”

“अकेले हो न ?”

“मैं समुद्र की सन्तान हूँ।”

जब वह आगे बढ़ा तब करूतम्मा ने कहा, “मछली खोजते-खोजते

समुद्र में दूर तक न जाना !”

पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया।

करुत्तम्मा को नीद नहीं आई। वह बाहर पश्चिम की ओर देखती हुई एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी रही। उसने नाव को जरा दक्षिण की तरफ से समुद्र में उतरते देखा। उसकी हार्दिक प्रार्थना ने अवश्य उसके लिए एक रक्षा-क्वच का काम किया। पलनी लोगों के जग जाने के पहले ही मछली मारकर लौट आया। सुबह ही कातिकिपल्ली हाट में जाकर उन्हें बेचा। आठ रुपये मिले।

एक छोटी नाव खरीदना जरूरी था। पैसा कमाकर वचत से खरीदने में थोड़ा समय लग जायगा। डेढ़ सौ रुपये हो तो एक नाव खरीदी जा सकती है। इसके लिए एक उपाय था। करुत्तम्मा के पास सोने का गहना था, लेकिन उसका गहना बेचकर नाव लेने के लिए पलनी सहमत नहीं था। उसने पूछा, “वह तो तेरे लालची बाप की कमाई का है न ?”

करुत्तम्मा ने कहा, “ना, वह मेरा है। माँ ने ही मेरे लिए बनवा दिया था।”

“फिर भी स्त्री का गहना बेचकर ”

“तब क्या मैं दूसरी हूँ ?”

‘हूँ’—कहने के लिए वह तैयार नहीं था। लेकिन पत्नी का गहना बेचकर नाव खरीदना अपमानजनक था। फिर भी सोने का गहना ले जाकर पलनी ने बेचा और एक नाव खरीदी। नाव बहुत छोटी थी। पैसा उतनी ही बड़ी के लिए था।

पलनी के नाव खरीदने की बात सारे तट पर फैल गई। सम्भव है कि उसके बारे में भी कहानियाँ गढ़ी गई होंगी।

पलनी की नई योजना बुरी नहीं थी। कभी-कभी दस-दस रुपये तक की आमदनी हो जाती थी। कभी कुछ भी नहीं मिला, ऐसा भी होता था। पलनी के मजबूत हाथों की मास-पेशियाँ इतनी छोटी नाव के काम

से सन्तुष्ट नहीं होती थी। पलनी को नाव बहुत छोटी लगती थी। उसे लगा कि एक बड़ी नाव जलदी ही खरीदनी चाहिए। उसकी पतवार सँभाल कर वह 'चाकरा' मे भाग लेगा।

कर्ष्टम्मा ने पूछा, "नाव बड़ी होगी तो अकेले कैसे सँभाल पाओगे ? साथ मे जाने के लिए तो कोई तैयार होगा नहीं।"

पलनी ने कहा, "जब नाव हो जायगी तब सब कुते की तरह आयेंगे।"

उसने अपना यह निश्चय भी सुनाया कि आगे वह दूसरों की नाव मे काम पर नहीं जायगा।

कर्ष्टम्मा की स्थिति बदलने लगी। समुद्र मे जाने पर पलनी को हमेशा पत्नी के बारे मे चिन्ता बनी रहती थी। वह जलदी ही लौट आने के लिए प्रेरित होता था। एक दिन जब वह लौटा तब उसने अपने घर पर चार-पाँच औरतों को देखा। उन लोगों ने हँसते हुए कहा, "लड़की हुई है।"

बच्ची को सब नहला रही थी। वह जोर-जोर से रो रही थी। धाय ने बच्ची को नहला कर पलनी की ओर बढ़ा दिया। पलनी को मालूम नहीं था कि उसे कैसे लेना चाहिए। उसने कभी किसी बच्चे को गोद मे नहीं लिया था।

**[पिति-पत्नी जब अकेले हुए तब पलनी ने पूछा, "क्यों री ! तुझे अच्छा नहीं लगता क्या ?"]**

कर्ष्टम्मा जरा उदास दीख रही थी। उसने कहा, "लड़का होता तो।" उसने आगे पूछा, "क्या पिता को ऐसा नहीं लगता ?"

"मुझे ऐसा नहीं लगता।"

"झूठ कह रहे हो।"

"न। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क है ?"

कर्ष्टम्मा ने अपना निश्चय एक बाक्य मे सुनाया, "जो भी हो, मे इसे एक दूसरी कर्ष्टम्मा नहीं होने दौँगी।" एक हँसी के साथ पलनी

ने कहा, “तब तो पलनी भी एक चेम्पन नहीं बनेगा।”

उस छोटी बच्ची के आगमन ने उन दोनों के जीवन को गौरवान्वित बना दिया। दोनों एक तीसरे प्राणी के लिए जीने लगे। पलनी के लिए वह आनन्द का केन्द्र बन गया। समुद्र में मछली पकड़ते समय उसके मन के सामने बच्ची की आँखे चमक उठती थी। वह तुरन्त घर पर जाकर बच्ची को गोद में उठा लेने के लिए अधीर हो उठता था। बच्ची को कैसे लेना चाहिए, यह करुत्तमा ने उसे सिखा दिया। कभी-कभी वह पलनी से कहती—“इस तरह हमेशा उसे गोद में उठाये रहने से वह बिगड़ जायगी।” यह सुनकर डर से पलनी बच्ची को तुरन्त नीचे लिटा देता।

करुत्तमा की बात कही जाय तो बच्ची के जन्म से उसे एक दुख हुआ। उसकी माँ बच्ची को नहीं देख सकी। बच्ची को देखते ही उसे पचमी की याद आ जाती थी। पचमी जब इतनी ही छोटी थी तब वह हाथ-पाँव फेककर खेला करती थी। वह उसे प्राणों से बढ़कर कैसे प्यार करती थी। पचमी ने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन उससे भी करुत्तमा का विच्छेद हो गया। पचमी अब किस हालत में होगी, यह करुत्तमा को नहीं मालूम था। उसकी चिन्ता उसे असह्य मालूम पड़ती थी।

एक दिन पलनी ने एक नया समाचार सुनाया। चेम्पन ने चेर्टला या कहीं से एक औरत को लाकर घर में रख लिया है। नीरकुञ्जम से कोई आया था। उसीसे यह खबर लोगों को मिली है। इस तरह जिस घर में करुत्तमा ने जन्म लिया, जहाँ वह पली और जिस घर में उसकी माँ का अधिकार था वहाँ अब एक अनजान औरत गृह-नायिका होकर आई है। उस घर को उसकी माँ ने ही बनवाया था। वही उसकी स्वामिनी थी। पचमी के साथ इस अपरिचित औरत का कैसा व्यवहार होगा?

पलनी जब बच्ची को लेकर धूमता था तब उसे याद आ जाता था कि उसका बाप उसे उसी तरह लेकर खिलाया करता था। बाप उसे ज़रूर प्यार करता था।

जब करुत्तमा को पलनी के ऊपर अपना अधिकार महसूस होने लगा

जब उसे लगा कि वह उसकी गलती भी निकाल सकती है, तब मौका पाकर उसने अपने घर की बाते उठाईं, “शादी के बाद हम दोनों अगर वहाँ अपने ही घर में रहते तो.. वप्पा तो यहीं चाहता था न !”

पलनी ने पूछा, “जिस मल्लाह मेरे ताकत है वह मल्लाहिन के घर मेरे रह सकता है री ?”

फिर एक बार, जब पलनी बच्चे को बैठा खिला रहा था, करुतम्मा ने कहा, “मुझे इसका चेहरा देखकर पचमी की याद आ जाती है। मैं उसे कभी नीचे नहीं रखती थी।”

सजल ने त्रों से उसने आगे कहा, “बेचारी अब सोतेली माँ को मार खाती होगी।”

पलनी ने पूछा, “मार क्यों खाती होगी ?”

करुतम्मा ने कहा, “सोतेली माताएँ ऐसा हीं करती हैं।”

“तब क्या किया जाय ?”

होशियारी से करुतम्मा ने कहा, “उसे जरा देखने की इच्छा होती है।”

पलनी ने कुछ नहीं कहा।

फिर एक बार अच्छा मोका पाकर करुतम्मा ने पूछा, “पचमी की देख आने के लिए मैं जरा नीरकुन्नम जाऊँगी ?”

पलनी को पसन्द नहीं आया। एक हृदयहारो मन्द मुस्कान के साथ करुतम्मा ने कहा, “हमारी भी एक लड़की है। वह भी बाप को देखने के लिए नहीं आयगी।”

कठोर स्वर मेरे पलनी ने पूछा, “तुम्हे क्या चाहिए। पचमी को देखने के बहाने तू किर उस मुसलमान छोकरे को देख आना चाहती है ?”

करुतम्मा चौक गई। पलनी जरा भी नहीं बदला। मुसलमान छोकरे को काली छाया अब भी मिट्टी नहीं है। क्या वह कभी मिटेगी नहीं ?

करुतम्मा को लगा कि उसने एक गलत कदम उठाया है। उसने

कहा, “नहीं, नहीं ! मैं आगे वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, न जाने की बात ही उठाऊँगी ।”

उसे डर लगा कि कहो जीवन फिर कटु न हो जाय । रोते हुए उसने पूछा, “क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ?”

जीवन-भर लम्बाती रहने वाली वह काली छाया ! इससे बचने का क्या उपाय है ? . . . कोई नहीं ! . . . जीवन में निश्चिन्तता लाने के लिए फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

एक पत्नी जब मर जाती है तब उसकी आत्मा पति के शयनागार में रात के समय मँडराती है। मृत्यु के बाद पत्नी की आत्मा की यही स्थिति है।

“किसी दूसरे से शादी कर लेना”—यह बात चक्री ने कैसे कह दी? नायद परिस्थिति को देखकर उसे यही सलाह ठीक जाँची होगी। नहीं तो चेम्पन के सुख के लिए जहरी समझकर ऐसा कहा होगा।

चक्री के मरने के बाद चेम्पन पागल की तरह पूछता रहा, “मैं क्या करूँ चक्री? तू मुझे छोड़कर चली गई?”

सबने कहा कि चक्री के भरने में चेम्पन का दाहिना हाथ भी मानी बट गया। बात भी ठीक ही थी। उसकी सारी मवृद्धि का कारण चक्री थी। उमकी तरह होगियार कोई दूसरी स्त्री वहाँ नहीं थी।

अब चेम्पन क्या कर सकता था? वया पचमी-जैसी छोटी बच्ची से घर सैंभलवाता? करत्तम्मा तो आती नहीं। चेम्पन उमकी बुलाता भी नहीं। उमका नियम था ‘धुएँ वाली लकड़ी को बाहर ही फेक देना चाहिए।’

चक्री के अन्तिम शब्द उसके कान में गूँजते रहे कि ‘किसी दूसरे से शादी कर लेना!’ उसने अच्छन से राय ली।

अच्छन ने कहा, “एक को लाये बिना काम नहीं चलेगा। बच्ची की देख-भाल के लिए भी एक माँ की जरूरत है न?”

“लेकिन कोई भी आये, वह मेरी चक्री की वराबरी नहीं कर सकती।”

“ना, उसके-जैसी दूसरी कोई होगी ही नहा।”

पचमी को नल्लम्मा के यहाँ छोड़कर चेम्पन और अच्चन खोज मे निकले ।

अच्चन ने इस सम्बन्ध मे चेम्पन को सलाह दी कि उसकी स्थिति के अनुसार ही अच्छी स्थिति की अनुकूल पत्ती ढूँढ़नी चाहिए ।

चेम्पन को सलाह ठीक लगी । इतना ही नहीं, अब तो वह पहले की तरह काम भी नहीं कर सकता । उसका तन और मन दोनों कमज़ोर हो गए । अब उसे आराम की ज़हरत थी ।

जीवन मे सुख भोगने की इच्छा ने भी अब सिर उठाया । इस बात से उसे बहुत दुख हुआ कि चक्री, जिसने अपने जीवन मे काफी कष्ट उठाया था, कुछ सुख नहीं भोग सकी ।

चेम्पन और अच्चन को खबर लगी कि पलिकुन्नम 'जालवाला' मर गया है और उपर्युक्त पत्ती पापी अब आर्थिक कष्ट मे है ।

चेम्पन ने पापी को लाने की बात बिना कुछ सोचे-विचारे ही मान ली । सुख भोगने की अभिलाषा वास्तव मे पापी के घर से ही अकुरित हुई थी न ।

पापी को बात मजूर हो गई । घटवार आदि को खबर देने की कोई ज़हरत नहीं है यही पापी की भी राय थी । चेम्पन पापी को बुश्कर घर लाया । पापी के साथ उसका एक बड़ा बेटा भी था ।

पापी पति के मरने के बाद आर्थिक कष्ट मे पड़ गई थी । तो भी वह अब भी एक सुन्दरी थी । उसके चेहरे पर कुलीनता का भाव था । लेकिन पचमी को घर में आई हुई नई स्त्री पसन्द नहीं आई । वह दौड़-कर नल्लम्मा के पास गई और उससे कुछ कहा । नल्लम्मा ने उसे समझाया, "बेटी, तू कुछ मत कह !"

"कहने मे क्या है ?"

"बाप के गुस्सा आयगा ।"

यह सुनकर पचमी कारण जाने बिना ही रो पड़ी ।

चेम्पन को पहले-पहल उस घर मे खामियाँ मालूम हुईं । उसे लगा

कि उसका घर देखने मेरे अच्छा नहीं लगता। पाप्पी को उसीमे ले आना पड़ा। उसने एक अजीब तरह की हँसी के साथ कहा, “यह घर तो नाव और जाल होने के पहले ही बनाया गया था। मेरी चक्की का भी इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। इसलिए बाद के भी मन्त्रान ठीक से नहीं बनाया जा सका।”

पाप्पी के बड़े मकान मेरे चेम्पन गया हुआ था। अब वह मकान दूसरों के हाथ लग गया। फिर भी, उसका जीवन तो उसीमे बीता था।

चेम्पन ने तय किया कि थोड़ी जमीन लेकर नया घर बनवाया जाय। उसने अपना विचार नई पत्नी को भी सुनाया।

चेम्पन यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी स्नेहमयी चक्की को, जिसने उसे दूसरी शादी करने का आदेश दिया था, यह नई आई हुई पसन्द है या नहीं। चेम्पन ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि उसकी चक्की जरूर उस वातावरण मेरे है।

चेम्पन ने पचमी को बुलाया, जो उत्तर के घर मेरे नल्लम्मा के पास खड़ी-खड़ी रो रही थी। सौतेली माँ से उसका परिचय कराना था न!

नल्लम्मा ने पचमी से कहा, “जा बेटी !”

पचमी ने रोते-रोते कहा, “मैं नहीं जाऊँगी,”

“मौसी भी साथ बलती है बेटी, चल !”

नल्लम्मा ने आँचल के छोर से पचमी का मुँह पोछते हुए उसे रोने से मना किया। पचमी का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर वह चेम्पन के घर गई।

पाप्पी ने बच्ची को ध्यान से देखकर पूछा, “रोती क्यों है री ?”

चेम्पन ने कहा, “बच्ची ही है न ! माँ को याद करके रोती होगी”

बेटी को गले लगाते हुए चेम्पन ने कहा, “रो नहीं बिटिया, यह छोटी माँ बड़ी अच्छी है।”

बच्ची को शान्त करने के लिए चेम्पन बहुत-कुछ कह सकता था। जैसे, उसकी माँ के कहे अनुसार ही वह छोटी माँ को लाया है। छोटो माँ

खासकर उसकी देख-भाल के लिए आई है, इन्हे माँ की तरह ही मानना आदि-आदि ।

पापी का बेटा गगादत्त उस घर में एक अनावश्यक कड़ी-जैसा लगता था । सौतेले बाप से या पचमी से उसको नहीं पटती थी । गगादत्त बड़ा हो गया था । पापी के लिए भी वह एक भार स्वरूप था । ऐसा लगता था कि पचमी के मन में यह सवाल उठता था कि वह लड़का उधर क्यों आया है । उसी तरह, ऐसा मालूम पड़ता था कि लड़के को खुद भी लगता था कि वह वहाँ क्यों आया है । शायद उसको यह भी लगता होगा कि उसको माँ को दूसरे की शरण में नहीं आना चाहिए था । वह सिर्फ अपने भरण-पोषण का ही सवाल हल करने नहीं, वरन् अपने लड़के को परेशान करने के लिए भी जान-बूझकर आई है ।

चेम्पन नाव खरीदने के लिए जब पल्लिक्कुन्नम गया था तब वहाँ जो भोजन किया था, उसका स्वाद वह अब भी नहीं भूला था । वह भोजन उसकी सुख-कल्पना की एक मुख्य कड़ी था । अब वह तोन बार वैसा ही भोजन कर सकता है ।

लेकिन वहाँ की तरह यहाँ इननी अच्छी तरकारी नहीं होती । भोजन में पल्लिक्कुन्नम-घर के भोजन की सफाई और व्यवस्था भी नहीं थी ।

चक्की ने जो पला खरीदा था उस पर वह नहा सोई । चेम्पन न तो उसे मटोंटी बना सका, न गोरी बना सका । इसके पहले ही चक्की हमेशा के लिए विदा हो गई ।

चेम्पन ने तोशक भी सिलवा लिया था । वैसा ही नोशक, जैसा उसने पल्लिक्कुन्नम में देखा था । लेकिन पापी यहाँ अने पर दुबलातो नजर आई । चेम्पन को सन्देह हुआ कि शायद इस तट की हवा ही ऐसी है कि गोरे आदमी का रंग भी बिगड़ जाता है । पापी का पहले का तेज भी चेम्पन को घटता मालूम हुआ ।

पल्लिक्कुन्नम से लौटने के बाद, चेम्पन के मन में सुख-भोग की जो

कल्पना थी उसको मार्यंक करते का जब समय था तब उसे मालूम हुआ कि पतिन्ततों को भुजाओं में न ताकत है, न प्रेम-चुम्बनों में कोई गरमी है। चेम्पन के मुँह से निकला, “ओ मेरी चक्की . . . !” पापो भी नई स्थिति में घुल-मिल न सकी। दोनों मिलकर एक नहीं हो सके। दोनों के बीच दो और आत्माएँ थीं।

उम घर में इंसने-बोलने की कोशिश ज़हर हुई। लेकिन वह बेजान की हँसी हँती थी और जबरदस्ती अपनाया गया रगड़ग होता था।

उम नये जीवन में भी एक शोभा थी। लेकिन साथ-साथ चेम्पन को एक बेचैनी भी मालूम होती थी। एक अज्ञात अकथनोंय उत्कष्टा उसे बेचैन बना देती थी। वह काम के बिना नहीं रह सकता था। बिना काम किये वह कभी नहीं रहा था।

कण्डनकोरन मलमल की लुगो पहनकर किनारे वाली मढ़ीन चादर कन्धे पर लटकाये, नाव किनारे पर लगते समय समुद्र-तट पर जाया करता था और माल की बिक्री करता था। लेकिन चेम्पन! चक्की के माथ आगे बढ़ने को जो उसकी तीव्र इच्छा थी वह भी बुझ गई। अब कण्डन-कोरन-जैसा बनने की कोशिश कहाँ तक सफल हो सकती थी?

आर्थिक कष्ट न होने पर भी चेम्पन अच्छा नहीं दीखता था। लेकिन खून को कमों से रग जरा सफेद हो गया था। एक दिन चेम्पन ने पापो से कहा, “आजकल हिस्सा बहुत कम मिलने लगा है।”

पापो को इसके बारे में कुछ नहीं कहना था। शायद उसको पहले भी ऐसी बातों के बारे में कुछ कहने की आदत नहीं थी। चेम्पन ने आगे कहा, ‘‘मेरा हिस्सा पहले इस तरह का नहीं होता था। पहले नाव का, जाल का और ऊपर से पतवार चलाने का यह सब हिस्सा आता था। उस पर, मेरी नाव का बटोर भी दूसरों से दुगुना हुआ करता था।’’

बिलकुल सच्ची बाते कहते समय भी चेम्पन के चेहरे पर जरा सकोच का भाव था। उसने आगे कहा, “अपना हिस्सा लाकर जब मैं चक्की के हाथ में देता था तब वह किस तरह बढ़ जाता था, इसका क्या कहना!”

उसने બતા�ા કि ચક્કી ને કિતના પરિશ્રમ કરકે કમાયા થા । કૈસે વહ મછલી બેચને જાયા કરતી થી, કૈસે કમ્બા જાલ ખીચને જાતી થી આદિ-આદિ । બાતે કરતે-કરતે ચેમ્પન ને પાપ્પી કી ઓર દેખા । ઉસકા ચેહરા ઉત્તરા હુઅ દેખકર ઉસને ઝટ સે કહા, “તુમકો વહ સબ કરન કે લિએ નહી કહ રહા હું । ચક્કી ને બચપન સે હી કામ કરના સીખા થા । લેકિન તુમ્હારી બાત એસી નહી હૈ ।”

ફિર ભી, પાપ્પી કો એસા ન કર સકને કી બાત સે તકલીફ હૈ, એસા ચેમ્પન કો લગા । ઉસ ઘર મે જો-કુછ ભી હૈ, સોને કા પલગ તક, ચક્કી કે પ્રયત્ન કા ફલ હૈ ।

દૂસરી ઓર ગગાડત્ત માઁ કો તગ કરતા રહતા થા । માઁ ને આશા દિલાઈ થી કि વહ ઉસકે લિએ કુછ ઇન્તજામ કર દેગી । લેકિન અબ તક વહ કુછ નહી કર સકી થી । લડકે ને જિદ પકડી કિ વહ ઉસે જલ્દી વિદા કર દે । ઉસને કહા, “ઉસ લડકી સે મુજ્જે ડર લગતા હૈ, વહ કુછ કહ દેગી । ઉસકે પહ્લે હી મુજ્જે ચલા જાના ચાહિએ ।”

કુછ રૂપયો કા ઇન્તજામ કરકે ગગાડત્ત કો કૈસે વિદા કરે ? ઘર મે પેસા તો થા નહી, યહ પાપ્પી જાનતી થી । માંગના બુરા લગતા થા ।

પચમી ને એક દૂસરી ચાલ ચલી । વહ હમેશા બાપ કે સાથ રહને લગી, જિસસે પાપ્પી કો બાપ કે સાથ જ્યાદા સમય બિતાને કા મૌકા ન મિલે । પાપ્પી ને ભી પચમી કો હૃતાને કી કોશિશ નહી કી ।

પાપ્પી પહ્લે અચ્છી સ્થિતિ મે થી । જવ સબ નષ્ટ હો ગયા તવ જીને કા ઉસને યહી ઉપાય અપનાયા । ઇસ તરહ વહ ચેમ્પન કે યહોઁ આઈ । ઉસને જીવન મે સુખ કી કમી હોને સે યા એક પતિ કે સાથ રહને કી ઉત્કટ આકાશા સે પ્રેરિત હોકર શાદી કરના સ્વીકાર નહી કિયા થા । ગુજારે કે લાયક સમ્પત્તિ બચ ગઈ હોતી તો વહ એસા કામ કભી નહી કરતી । અબ વહ સિર્ફ એક પતની હૈ, તો ભી ઉસકે હૃદય મે, ઉસકા ભરણ-પોષણ કરને વાલે કે પ્રતિ ભક્તિ હૈ । વહ અપના હક સાચિત કરને કી કોશિશ નહી કરતી । વહ હુકમ નહી ચલાતી । ખુદ હુકમ કા પાલન કરતી હૈ ।

चक्की ने कमाया था। वैसा करके वह पति की मदद नहीं कर सकती थी, इसका शायद उसे दुख भी होता होगा। चेम्पन वैसा करने के लिए उसे नहीं कहता। फिर भी उसके मन में ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक था न!

क्या चक्की ने एक ऐसी ही पत्नी को लाने की सलाह दी थी? नहीं, उसने अपनी ही जैसी को लाने के लिए कहा होगा, जो उसके बनाये हुए घर को और समृद्ध बनाने वाली और पति की अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा करने वाली होती।

पचमी बड़ी नटखट हो गई। वह छोटी माँ को कुछ समझती ही नहीं थी, गगादत्त को वह मुँह बनाकर चिढ़ाती थी। उसे लगता था कि वह दोनों अनावश्यक हीं यहाँ आ टपके हैं।

एक दिन पाप्पी चल रही थी तो पचमी पीछे से उसके चलने की नकल कर रही थी। पाप्पी एकाएक मुड़ी और पचमी को नकल करते देख लिया। नल्लम्मा अपने यहाँ से यह तमाशा देखकर हँस रही थी। पाप्पी रो पड़ी।

चेम्पन जब घर लौटा तब पाप्पी ने कहा, “इस लड़की को बहुत सावधानी से रखना चाहिए।”

चेम्पन ने पूछा, “क्या बात है?”

पाप्पी ने शिकायत न करके कहा, “इसे दूसरी जगह जाकर रहना है। प्यार मन में रखना काफी है। यह बड़ी बदमाश होती जा रही है।”

चेम्पन ने फिर पूछा कि बात क्या है। पाप्पी को डर था कि चेम्पन को अपनी बेटी की शिकायत अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए डरते-डरते ही पाप्पी ने कहा था। चेम्पन को भी, माँ के न रहने से पचमी का बहुत खयाल रहता था। बहुत सयम के साथ पाप्पी ने कहा, “मुझे यह कुछ समझती ही नहीं। पड़ोस वाली स्त्रियाँ सब इसे चढ़ा देती हैं।

चेम्पन ने पचमी को बुलाया। वह नल्लम्मा के यहाँ थी। पुकार सुनकर वह डर गई। पाँच-छँवार पुकारने के बाद वह आई। पाप्पी ने उसे मारने को नहीं कहा। फिर भी गुस्से में चेम्पन ने उसे दो थप्पड़ लगा दिये। पचमी के प्रति नहीं, पड़ोसियों के प्रति जो गुस्सा था वह इस

रूप मे प्रकट हुआ ।

पचमी अपनी माँ को पुकार-पुकारकर रोने लगी । पड़ोसियों का दिल क्षुब्ध हो गया । नल्लम्मा दौड़ी आई और उसे पकड़ लिया । उसने पापी से पूछा, “यह क्या है री ? इस मातृहीन बच्ची को मरवा देना चाहती है ?”

पापी ने जवाब दिया, “वह बिगड़ न जाय इसी विचार से न . ।”

उस जवाब मे, उसके मन मे पड़ोसियों से जो गुस्सा था, सो भी मिला हुआ था ।

नल्लम्मा ने पूछा, “वह कैसे बिगड़ रही है ?”

चेम्पन की ओर देखकर नल्लम्मा ने कहा, “औरत को देखकर बच्ची को नहीं मार डालना है, समझे ?”

पापी ने नल्लम्मा से पूछा, “तुझे इससे क्या मतलब है ?”

नल्लम्मा ने कहा, “तू जिस धन से खाती-पीती है उसे बनाने वाली वह चक्की भरते समय इस बच्ची को भेरे ही हाथों में सौप गई है ।”

पापी सीधी होने पर मल्लाहिन तो थी ही । उसका मल्लाहिनपन जाग उठा । उसने कहा, “तू चुप हो जा । मैं पापी हूँ, पल्लिक्कुन्नम कण्णनकोरन के साथ रह चक्की हूँ ।”

नल्लम्मा की तरफ से मुँहतोड़ जवाब आया, “अब तो चेम्पन की ही मल्लाहिन है न ? खाती है चक्की की कमाई हुई सम्पत्ति से । खुद ही चुप हो जा ।”

चेम्पन निस्सहायावस्था मे खड़ा रहा । पापी भी अपने को गुस्से मे भूल गई । उसने कहा “तेरा इससे क्या नाता है ?”

“चेम्पन तेरा कौन है ?”

नल्लम्मा भी गुस्से से कॉप गई । उसने कहा, “जा-जा ! मेरा भी अधिकार है, जान को हथेली पर रखकर समुद्र मे जाकर मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश करने वाले मेरे पति का यह ब्रन्चन का साथी है, मैं अपने पति को ध्यार करती हूँ । इसलिए चेम्पन

की बातों के बारे में भी बोलने का मेरा अधिकार है। चक्की के आने पर उससे मेरा बहुत स्नेह हो गया था। कभी-कभी आपस में हम झगड़ भी लेती थी। फिर भी हम एक-दूसरे को बहुत चाहती थी। मरते समय उसने अपनी बच्ची को मेरे हाथ में सौप दिया था। यही मेरा अधिकार है। पचमी मेरे पेट से पैदा नहीं हुई तो क्या? अब मेरा अधिकार समझी तू?”

नल्लम्मा ने धूमकर चेम्पन से कहा, “चेम्पन भैया! तुम इसको छोड़ दो! मैं इसे पा लूँगी।”

आगे उसने तुरन्त कहा “नहीं तो, तुम्हे यह सब भोगना ही चाहिए। चक्की इतनी भली थी। तुमने उसे कष्ट देकर मार डाला। तुम बडे लालची हो। बड़ी लड़की को तुमने छोड़ ही दिया है। अब यही बच्ची बच्ची हुई है। आखिर नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी।”

नल्लम्मा का गुस्सा खत्म ही नहीं होता था। वह फिर पापी की ओर मुड़ी और कहा “यहाँ पर मल्लाह मर जाता है तो हम लोग दूसरे मर्द के साथ नहीं जाती। समझी? यही यहाँ का नियम है।”

नल्लम्मा की बाक्धारा के सामने पापी का वश नहीं चला। चेम्पन भी कुछ नहीं कह सका। थोड़ा बरस जाने के बाद नल्लम्मा का गुस्सा ठण्डा हो गया। फिर भी वह पचमी को उन लोगों पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पचमी से पूछा, “तू आ रही है री?”

चेम्पन स्तब्ध रह गया। नल्लम्मा उसकी बेटी को बुला रही थी। पचमी चली गई।

पापी को इस तरह का अपमान जिन्दगी में कभी भी नहीं सहना पड़ा था। उसने क्या-क्या सुना! अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। दुख और गुस्से से उसने पूछा “मान-मर्यादा के साथ रहने वाली थी मैं। यही सब सुनने के लिए मुझे यहाँ ले आए हो?”

चेम्पन निस्सहाय भाव से मौन था।

पापी ने आगे कहा, “कोई मल्लाहिन भेरे सामने मुँह नहीं खोलती थी। मैं पोन्नानी-धाट के घटवार के परिवार की हूँ।”

उसे शान्त करने के लिए चेम्पन ने कहा, “यहाँ वाली सब ऐसी ही है।”

“तुम कुछ बोले क्यों नहीं ?”

“मैं क्या बोलता ?”

“एक अच्छे मर्द के साथ रहने के बाद . . . यह सब मेरे भाग्य का ही दोष है।”

नल्लम्मा ने जो-कुछ भी सुनाया था उसका जवाब अब चेम्पन को देना पड़ा। पापी का गुस्सा पचमी की ओर गया, “दुलारी बेटी ! उसके बुलाने पर कैसे चली गई !”

चेम्पन ने कहा, “दोनों बच्चों को इन्हीं लोगों ने पाला है।”

उमडते हुए गुस्से से भरी पापी ने एक शाप दिया, “अच्छा, यह भी बड़ी की तरह ही भ्रष्टा होकर रहेगी।”

चेम्पन चौक पड़ा। कितना कठोर शाप था वह। बड़ी लड़की उसके लिए मर चुकी थी। अब सिर्फ पचमी बच्ची थी। वह भी नष्ट हो जायगी, यही कहती है।

पापी आगे बोली। बिना बोले वह रह नहीं सकती थी, “यह भी अपनी दीदी-जैसी ही है। यह भी किसी मुसलमान छोकरे के साथ लग जायगी और यहाँ धूमती फिरेगी।”

चेम्पन के मस्तिष्क मे बिजली कौध गई, उसे ऐसा लगा। कुछ पूछने-कहने के लिए बाकी नहीं रहा।

तो मुसलमान के साथ जोड़ा है। वह कहानी अब स्पष्ट मालूम पड़ने लगी। परी का पैसा लौटा देने की व्यग्रता ! सब उसे अब साफ मालूम होने लगा। वह . . . वह . . . चक्की ने भी क्या उसकी मदद की होगी ? . . . अब इतना ही उसे जानना था।

चेम्पन पर एक पागलपन सवार हो गया। वह दौड़कर नल्लम्मा

के घर गया । पचमी को उसकी गोद से खीचकर एक छड़ी लेकर उसने खूब पीटा । वह पचमी से पूछता जाता था कि क्या वह मुसलमान के साथ जायगी ?

नल्लम्मा मुँह बाये खड़ी रह गई । पचमी 'माँ-माँ' कहकर चिल्ला रही थी ।

मारते समय चेम्पन कहता गया, "कह कि मुसलमान का साथ नहीं करेगी ।"

मार खाते-खाते व्याकुल होकर पचमी ने कहा, "मुसलमान का साथ नहीं करूँगी बप्पा !"

बेचारी पचमी ! क्या वह कुछ जानती थी ? हो सकता है कि जानती भी हो । उसने भी कुछ देखा था न !

चेम्पन उसे घर की ओर खीच लाया ।

उस दिन उसे चक्की के शव-स्त्रकार की जगह को खोदते देखा गया किसलिए खोदता था ? मालूम नहीं ।

शायद उससे कुछ पूछकर तसल्ली पाना चाहता हो ।

## १८

कुछ दिन के बाद चेम्पन का पागलपन उतर गया। लेकिन उसकी बुद्धि मन्द हो गई। वह बिलकुल मौत रहने लगा। उसका तौर-तरीका देखकर लगता था कि वह बिलकुल टूट गया है। उसका धन खत्म हो गया। उसके पास अब पैसा नहीं था। उस समय तक की कमाई का सब पैसा लुट्ठ हो गया। ऐसी हालत में बुद्धि भी नष्ट हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या! ऐसा नहीं होता तो जीवन और भी कष्टपूर्ण हो जाता।

चेम्पन की दोनों नावों में मरम्मत की ज़रूरत थी। बिना मरम्मत के वे काम में नहीं लाई जा सकती थी। जाल भी समय पर मरम्मत न होने से बेकार हो गए थे। एक 'आयिला' जाल में एक बड़े जल-जल्तु के फँस जाने से वह फट गया था। सबको ठीक करने के लिए कुल मिलाकर एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी। घर में खर्च ज्यादा था, लेकिन आमदनी नहीं थी, क्योंकि चेम्पन समुद्र में नहीं जाता था।

पापी ही घर का काम सँभालती थी। उसने चेम्पन से नाव और जाल की मरम्मत की बात कही। रुपये कर्ज़ लिये बिना काम नहीं चल सकता था। चेम्पन ने कर्ज़ लेने की बात मान ली।

किससे कर्ज़ लेता? औसेप्प ही एक ऐसा आदमी था जिससे कर्ज़ ले सकता था। माँ के समय से 'ऊपा' बटोरकर पचमी ने जो कमाया था उसमें से २० रु उसके पास थे। उसने उन रुपयों को चेम्पन के हाथ मे दे दिया। चेम्पन उन रुपयों को लेते हुए रो पड़ा। पचमी ने कहा, "रोज यदि 'ऊपा' बटोर पाती तो इससे ज्यादा हुआ होता, बप्पा! नहीं तो, माँ रहती तब भी काम हो जाता!"

चेम्पन ने कुछ नहीं कहा। उसके हृदय में अब किसी महत्वाकांक्षा के लिए स्थान नहीं था।

गगादत्त ने विदा किये जाने के लिए अब अपनी माँ को खूब तग करना शुरू किया। पापी अभी तक अपनी यह जरूरत चेम्पन के सामने नहीं रख सकी थी। वह अपने गुज़ारे के लिए या गगादत्त के कारण बहुत-कुछ चुपचाप सहती हुई समय बिता रही थी। पचमी का भाव उसके प्रति बदला नहीं। पापी को यह भी लगता था कि उसके लड़के को वहाँ रहकर खाते रहने का कोई हक नहीं है। ऊपर से चेम्पन की उदासीनता! उसने सोचा नहीं होगा कि बाते ऐसी ही जायेंगी।

चेम्पन इस तरह कष्ट में पड़ जायगा, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसके कष्ट को बढ़ाने का काम वह नहीं करेगी। वह उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति है।

शायद पापी को ऐसा लगता होगा कि वह चक्की की तरह चार पैसे कमाने वाली होती तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। इससे उसे दुख भी होता होगा। यदि वह माल बेचने के लिए चक्की की तरह जा सकती, यदि उसे जाल खीचनी आता तो स्थिति सँभालने में कुछ सफलता होती। हो सकता है कि कोई धन्या शुरू करने का विचार उसके मन में कभी-कभी उठता भी हो।

पापी ने एक पति की सेवा की थी। वह काम उसे मालूम था। उसने चेम्पन को भी प्यार किया। बिना प्यार किये वह रह नहीं सकती थी। सिर्फ़ इतना ही फर्क था कि पापी के हृदय में पहले कण्डनकोरन के लिए स्थान था। इस बात में जैसे चेम्पन को चक्की की याद आती थी, मुझकिन है पापी को कण्डनकोरन की याद आती हो और मन-ही-मन वह उससे क्षमा भी माँगती हो।

पापी वास्तव में बेचैन थी। उसे स्थिति की और भी उलझने की सभावना थी। उसे शायद यह भी लगता होगा कि सारी गडबड उसीके कारण हुई है। चक्की के साथ चेम्पन ऐश्वर्यशाली बना। अब पापी के

साथ उसका हास हो रहा है । चक्की थी समुद्र में काम करने वाले एक मल्लाह की पत्नी और पापी थी एक 'जालवाले' की पत्नी ।

नावे-बेमरम्मत ऊपर पड़ी रहे यह पापी के लिए असह्य हो गया । उसने औसेप्प को बुलाने का निश्चय किया । रात का खाना खाकर जब चेम्पन चिन्ता में डूबा बैठा था तब पापी ने उसके पास जाकर पूछा, "इस तरह बैठे रहने से कुछ न होगा । नावों की मरम्मत होनी चाहिए न ।"

चेम्पन ने सिर उठाकर पापी की ओर देखा । वह कुछ बोला नहीं । पापी ने फिर पूछा । तब चेम्पन ने सिर्फ 'हाँ' कह दिया ।

पापी ने आगे पूछा, "तब औसेप्प को बुलवाऊँ ?"  
"बुलवाओ ।"

चेम्पन ने झट से उत्तर तो दे दिया । पर यह स्पष्ट था कि उसने कुछ सोच-समझकर जवाब नहीं दिया । क्योंकि औसेप्प से रुपया कर्ज लेने का क्या मतलब है, यह उससे ज्यादा वहाँ किसी को नहीं मालूम था । वह जरा भी सोचता तो औसेप्प को बुलवाने को नहीं कहता । ऐसा भी लगता था कि नावे पड़ी-पड़ी खराब होती जा रही हैं, इसके बारे में भी उसे चिन्ता नहीं थी ।

उस घर में प्रतिदिन रात का खाना खाने के बाद इसी तरह विचार-विनिमय हुआ करता था । उन दिनों मिट्टी के तेल का दिया ऐसे दृश्यों की गवाही देता था । उन दिनों तीक्ष्ण बुद्धि, कर्मठ और फुर्तीले चेम्पन और बचपन में ही उसकी सहधर्मिणी होकर आई हुई चक्की के जीवन-सम्बन्धी बातों के बारे में साफ-साफ चर्चा हुआ करती थी । वे सब पहुलुओं पर खूब गम्भीरता से सोचा करते थे और दोनों बच्चियाँ शान्ति से सोती रहती थीं । आज जब पापी और चेम्पन के बीच बातचीत हुई, तब पचमी भीतर सोते-सोते डरावने सपने देखकर नीद में कराह रही थी ।

पापी ने पूछा, "मैं क्या करूँ ?"

चेम्पन चुप था । पापी ने आगे कहा, "मैं एक भार-स्वरूप हूँ । मुझसे कुछ नहीं हो सकता । म क्या करूँ, मर्द जो कमाकर देता है । मैं

उसीसे गुजारा करना सीखा है।”

चेम्पन चुपचाप सुनता रहा। पाप्पी रो पड़ी।

“मैं कितने लोगों के विनाश का कारण बनी! मेरे यहाँ आते ही तुम्हे भी घाटा होने लगा।”

चेम्पन का मुँह खुला, “तब?”

“अब क्या किया जाय?”

“कुछ भी करो!”

गगादत्त अपने लिए ५०० रु का ज्ओर मार रहा था। पाप्पी ने उसे जन्म दिया था। उसकी माँग की पूर्ति करना वह आवश्यक समझती थी। लेकिन वह कैसे कर सकेगी, गगादत्त को यह जानना आवश्यक नहीं भालूम पड़ता था। उसका खयाल था कि यह रुपया देना चेम्पन का कर्तव्य है; क्योंकि पाप्पी को उसने खरीदा है। माँ ने अपने को दूसरे के हाथ बेच दिया है। उसमें कण्डनकोरन का खून था। पाप्पी को कभी-कभी लगता था कि गगादत्त के भीतर से कण्डनकोरन ही बोल रहा है।

पाप्पी ने आदमी को भेजकर औसेप्प को बुलवाया। उसने औसेप्प को अपनी आवश्यकताएँ बतलाई। औसेप्प ने रुपया देना मजूर कर लिया। इसके लिए दोनों नावों को बन्धक रखने को कहा और यह भी कहा कि निश्चित समय पर रुपया नहीं लौटाया गया तो दोनों नाव और जाल उसके हो जायेंगे।

चेम्पन ने कोई जवाब नहीं दिया। औसेप्प ने पूछा, “क्यों चेम्पन! तुम क्यों नहीं बोलते?”

चेम्पन ने कहा, “क्या बोलना है? किसी भी तरह हमें रुपये चाहिएँ।”

दूसरे ही दिन औसेप्प करार-पत्र तैयार कर लाया। उसे बिना पढ़े ही चेम्पन ने उस पर दस्तखत कर दिए। औसेप्प ने ७९५ रु गिनकर दे दिये। पाँच रुपये का कुछ खर्च बतलाया। चेम्पन ने रुपये लेकर अपने बड़े मे बन्द कर दिए।

इसके बाद उसका मौन-भाव थोड़ा दूर हो गया। नावों की मरम्मत और समय पर लौटने आदि के बारे में वह कुछ-कुछ बोलने लगा। उसने कहा कि समय पर रूपया नहीं लौटाया जायगा तो मुश्किल में पड़ जायेंगे, क्योंकि औसेप्प एक हृदय-शून्य आदमी है। पाप्पी ने अपनी ओर से इसके लिए कोशिश करने की बात कही।

रूपया घर में आने की बात जानकर या बिना जाने ही गगादत्त ने माँ को रूपये के लिए बहुत तग किया। उसने कहा कि वह वहाँ एक मिनट भी अधिक नहीं ठहर सकता। उसे तुरन्त जाने दिया जाय। पाप्पी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि नावे मरम्मत हो जाने पर समुद्र में जाने लगेगी तब किसी भी तरह वह रूपया निकालकर दे देगी।

गगादत्त ने अपना निश्चित जवाब दिया, “नहीं, मैं नहीं ठहर सकता !”

पाप्पी को गुस्सा आया। उसने कहा, “नहीं ठहर सकते तो नहीं सही। मैं क्या करूँ ?”

“तब तुम्हे यह भी समझ लेना होगा कि मेरे-जैसा तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है।”

पाप्पी दृढ़ता पूर्वक कोई जवाब नहीं दे सकी। वह उसकी माँ थी। उसीने उसको जन्म दिया था। वह अपने पति को भुलाकर चेम्पन के साथ चली आई थी। उसने निस्सहाय भाव से कहा, “इस आदमी से कैसे माँगूँ बेटा ?”

“किसी भी तरह तुम मुझे छुट्टी दे दो !”

वह मानने वाला नहीं था। उसका यही मतलब न था कि उसे विदा करके माँ सिर्फ चेम्पन की होकर रहे। पाप्पी ने कहा, “बेटा, तेरे भविष्य के बारे में भी सोचकर मैं यहाँ आई थी।”

“तब भी अब मुझे विदा दे दो !”

यह झंझट चेम्पन के सामने रखने की हिम्मत पाप्पी की नहीं हुई। झंझट बढ़ता ही गया।

पाप्पी को जरा भी शान्ति नहीं रही। चेम्पन के बारे में उसें डर था कि उसका सब-कुछ समाप्त हो गया। एक और यह चिन्ता दूसरी ओर गगादत्त का हठ।

उसे लगा कि यह दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तब तो सिर्फ जीवन-निर्वाह का ही प्रश्न सामने रहता। उसने नहीं सोचा था कि शादी करने से वह ऐसी उलझनों में फँस जायगी। . . शादी न की होती तो शायद गगादत्त इस तरह हठ भी न करता; और चेम्पन की तकलीफ भी न देखनी पड़ती। यह नया जीवन शुरू करना ही एक भारी गलती थी। एक साधारण मल्लाहिन रहती तो आज सिर पर बोझा उठाकर मछली बेचती और गुजारा करती। दो नाव के मालिक-जैसे एक ऐश्वर्य-शाली व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने की बात सोची थी। अब क्या होगा?

उस तीक्ष्ण छन्द में माँ के हृदय ने ही विजय पाई। उसीका विजय पाना स्वाभाविक भी था। वह भूखी रहने को तैयार थी। भीख भी माँग सकती थी। आखिर यही नतीजा तो हो सकता था। यह सब भोगने के लिए वह तैयार थी। उस घर से उसका क्या सम्बन्ध था?—सोचा जाय तो कुछ नहीं। चेम्पन का सब-कुछ नष्ट हो जाय तो?

आखिर उसे भी भूखी रहना ही पड़ेगा।—कुछ रूपयों के साथ गगादत्त चला जाय और अपने काम में उन्नति कर ले तो माँ का भी जीवन बन जायगा। और माँ का जीवन बन जाय तो चेम्पन का भी बन जायगा। इस तरह माँ की ममता की जीत हुई।

एक दिन चेम्पन जब कहीं बाहर गया हुआ था तब अबसर पाकर पाप्पी ने उसका बक्सा खोला। उस समय पचमी वहाँ नहीं थी। औंसेप्प से लेकर जो रूपये रखे थे उनमें से सौ-सौ के दो नोट निकालकर उसने बक्सा बन्द कर दिया।

उस रात को पचमी ने माँ-बेटे को घर के पश्चिम की तरफ खड़े-खड़े आपस में गुप्त बाते करते देखा। उसने एक नारियल के पेड़ की आड़ में खड़ी होकर सुनने की कोशिश की। बात कुछ-कुछ उसकी समझ में

आ गई। अभी दो ही सौ से काम चलाने के लिए माँ ने कहा था और बाकी का इन्तजाम पीछे करने की बात कही थी।

माँ का आशीर्वाद लेकर बेटे चला गया। मॉं बेटे को देखती रही। उसकी आँखे भर आईं। आँख पोछकर वह घर में चली आई।

पचमी को एक अच्छा हयियार मिल गया। उसका उपयोग करने का उसने निश्चय किया। छोटी मॉं ने बेटे को रूपये दिये हैं। उसे मालूम नहीं था कि वह बप्पा के बक्से से निकाले गए थे। फिर भी उसे यह तो निश्चय था कि छोटी मॉं ने बप्पा को ज़रूर धोखा दिया है। रूपये के लिए प्रेशान होकर जब बप्पा ने नाब-जाल बन्धक रख दिया तब इनके पास कुछ रूपया हो गया। अब उसे ही छिगकर इन्होने बेटे को दिया है। ऐसा ही पचमी ने सोचा। यह भेद उसने बप्पा से कहने का निश्चय किया।

दूसरे दिन जब चेम्पन समुद्र-तट की ओर चला तब पचमी भी उसके साथ हो ली। थोड़ी देर के बाद चेम्पन पागल की तरह घर लौट आया। उसने बक्सा खोलकर देखा, बक्से में ५०० रु ही थे। उसके बाद उसका एक गर्जन ही सुनाई पड़ा, “अरी, इस बक्से से रूपये निकाले हैं तूने?”

चेम्पन गरज पड़ा, “मेरे घर से निकल जा !”

पापी ने कबूल किया।

पापी बिना कुछ कहे ही बाहर जाने लगी। पचमी को यह अच्छा लगा। चेम्पन फिर चिल्लाया, “चली जा यहाँ से !”

पापी समुद्र-तट की ओर जाने लगी। चेम्पन ने घर का दरवाजा बन्द कर दिया और कहा, “अब इस घर मे पैर नहीं रखने दूँगा।”

पापी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह उस तट पर अकेली इधर-उधर घूमती दिखाई पड़ी।

चेम्पन को फिर एक जोश आया, जो कुछ समय से खो-सा गया था। लगता था कि वह पहले का जोश अब नहीं रहा।

चेम्पन ने पापी को मार भगाया है, यह खबर सारे समुद्र-तट पर फैल गई और वह लोगों के बीच बातचीत का विषय बन गई। पापी

एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी । उसे और कोई जगह नहीं थी, जहाँ जाती । चेम्पन का दिल नहीं पिघला । लोगों ने इस बात को इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं समझा । एक स्त्री अनाथ होकर समुद्र-तट पर धूमती रहे, यह कहाँ तक ठीक था ?

कुछ लोग मिलकर घटवार के पास गये । पोन्नानी घाट के घटवार के परिवार की एक स्त्री, कण्ठन कोरन की पत्नी, चेम्पन के साथ चली आई, यह बात घटवार को पसन्द नहीं थी । उसे लगा कि यह सब घटवारों के लिए लज्जाजनक बात है । ऐसी स्थिति में घटवार ने जवाब दिया कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके निकलने वाली के बारे में वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है । घटवार बहुत नाराज था । लेकिन बूढ़े लोगों ने बात नहीं छोड़ी । शाम के समय आश्रय के अभाव में एक औरत तट पर इस तरह धूमती रहे, यह कैसे ठीक कहा जा सकता है ?

घटवार ने कहा, “जरूरी हो तो दोनों मे से किसी को मारकर समुद्र मे फेक दो ।”

अच्चन ने विनीत भाव से पूछा, “हे मालिक ! यह कैसे ठीक होगा ?”

“तब मैं क्या कहूँ ?”

“आप चेम्पन को बुलाकर कहिये ।”

“मुझसे यह नहीं होगा । उससे मैं क्या कहूँगा ?”

“तब फिर हम लोग क्या करे ?”

“इस पर आपके सिवाय दूसरा कोन विचार कर सकता है ?”

घाट के मल्लाहो के इस प्रश्न के सामने घटवार को झुकना पड़ा । कुछ किये बिना काम नहीं चलता । आखिर उसने एक घटवार के परिवार मे ही जन्म लिया था न ! घटवार ने कहा, “अपनी मर्यादा छोड़ने का ही यह फल होता है । वह यदि एक घटवार के घर मे रहती तो क्या ऐसी स्थिति होती ?”

सबने घटवार की बात से सहमति प्रकट की । घर मे जो माँ की जगह लेने आई थी, वह निकल गई । मानो घर की जो नौकरानी थी

वह चली गई । पचमी अपने बाप को छोड़ती ही नहीं थी । उसे एक काम करना था । उसके लिए वह मौका देख रही थी ।

पचमी का काम ?—घर मे कोई नहीं था, इसलिए दिदिया को बुला लाना था । यह हो जाय तो उसका घर पहले-जैसा बन सकता है । माँ नहीं होगी—यही एक कमी रहेगी । लेकिन पचमी को उपयुक्त मौका नहीं मिल रहा था । चेम्पन एक मिनट शात नहीं बैठता था । हमेशा गम्भीर बना रहता था । आदमी ही बदल गया है—ऐसा दीखता था । वह फिर से पहले का चेम्पन बनने के विचार मे था । हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता था । पापी सारी तबाही का कारण थी, उसके नाते ही घर मे घटती-हीं-घटती होने लगी । उसने उससे शादी करने का निश्चय किया, उसीका उसे दुख था । वह कहता, “मुझे मालूम नहीं, कैसे मेरी मति भ्रष्ट हो गई ! उसका रग, डौल-डौल और बाल आदि देखकर ही मति-भ्रम हो गया होगा ।”

करुतम्मा के बारे मे भी वह बोला करता कि वह एक मुसलमान के साथ धूमती रही, और जब एक मल्लाह आया तब सब-कुछ छोड़कर उसके पीछे चली गई । अब वह करुतम्मा को अपनी बेटी नहीं समझता । वह सोचता ही नहीं कि उमकी कभी ऐसी एक बेटी थी ।

कभी-कभी वह पचमी से पूछता, “तू क्या करने जा रही है री ?” उस पर भी चेम्पन का विश्वास नहीं था ।

उसने एक नया जीवन शुरू करने का निश्चय किया । बीच मे जो घटना हुई उसे उसने अपनी मूर्खता का फल समझा ।

नल्लम्मा ने पापी को बुलाकर अपने यहाँ रखा । पचमी को इससे दुख हुआ । और कोई ऐसा करती तो पचमी को उतना दुख नहीं होता । माँ ने उसे मौसी के हाथ सौपा था । अब मौसी क्यों ऐसा कर रही है ? चेम्पन को भी इससे गुस्सा हुआ । लेकिन उसने सोचा कि अच्छन को हमेशा उससे ईर्ष्या रही है और अब उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है ।

પચમી કો લગા કિ કોઈ સમજીતા હો જાયગા, ઉસકે પહ્લે હી ઉસને અપની દિદિયા કો બુલવા લેના ચાહા । દેખતે-દેખતે આખિર મૌકા પાકર ઉસને કહા, “બપ્પા, દિદિયા કો બુલવા લો તો ક્યા બુરા હોગા ? દિદિયા અચ્છી હૈ । લોગ જો કહતે હૈ સબ ઝૂઠ હૈ ।”

ચેમ્પન કોથિત હો ગયા ઔર ઉસને પૂછા, “કિસકો બુલવાને કી બાત કહતી હૈ રી ?”

(પચમી ડર ગઈ ।)

“ઉસ મુસલમાન કો ઝોપડી ટૂટ ગઈ હૈ । ફિર ભી વહ યાદી જમા હુઅા હૈ । અરી, ઉસ નાલાયક કે લિએ મેરે ઘર મે જગહ નહીં હૈ ।”

પચમી ચુપ રહ્યી । ચેમ્પન ને પૂછા, “તુ ભી ક્યા વહી પાઠ સીખને કા વિચાર રહ્યતી હૈ ? તવ તો તુ ભી અભી સે ચલો જા !”

ચેમ્પન કા ગુસ્સા બઢતા હી ગયા, અપને કો ભૂલકર વહ ગરજ પડા, ‘જા રી, ચલો જા !’ એસા લગા કિ વહ પચમી કો માર ભગાયગા ।

ઇસકે બાદ ચેમ્પન ને પાપી કે બારે મે બોલના છોડ દિયા, કરુત્તમ્મા ઔર પચમી કે બારે મે હો બોલતા રહ્યા । પચમી ભી કરુત્તમ્મા કી તરહ હી નિકલેગી ।

પાપી કે બારે મે વિચાર કરને કે લિએ ઘટવાર આ ગયા, ઉસને ઘાટ કે મુખ્ય-મુખ્ય મળલાહો કો ઔર ચેમ્પન તથા પાપી કો બુલવાયા । વહ ઉસ ટઠ કો એક બડી ઘટના થી । બહુત લોગ જમા હો ગએ । ‘કોઈ સમજીતા ન હો જાય’, ઇસકે લિએ હૃદય સે સિર્ફ એક ને હી પ્રાર્થના કી । વહ થી પચમી । પચમી ને માં કા ઔર સમુદ્ર-માતા કા નામ લેકર પ્રાર્થના કી કિ કોઈ સમજીતા ન હોવે ।

ઘટવાર કો અનેક શિકાયતે થી, દૂસરી શાદી કી તો ઘટવાર કો ખબર હી નહીં દી ગઈ, ઇસકા ચેમ્પન ક્યા જવાબ દેતા ! યહ એક ભારી ગલતી થી । ઘટવાર કો તમ્બાકૂ દેકર શાદી કે લિએ અનુમતિ લેની ચાહિએ થી । એસા ચેમ્પન ને નહીં કિયા થા । ચેમ્પન ઇસ સવાલ કા ક્યા જવાબ દેગા, યહ સુનને કે લિએ સબ ઉત્સુક ખડે થે । અચ્ચન

आदि कुछ लोग इससे सीधे सम्बन्धित थे। उन्हे भी जवाब देना था। कुछ लोग धीरे से सामने की पक्कित से पीछे चले गए। घटवार ने अधिकार के स्वर में पूछा, “क्या कहते हों चेम्पन ?”

चेम्पन तनकर सीधा खड़ा था। लगता था कि वह और भी ऊँचा तथा मोटा हो गया है। उसे कुछ परवाह नहीं है, ऐसा नहीं मालूम होता था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह के गौरव का भाव था। इस रूप में चेम्पन को किसी ने कभी नहीं देखा था।

घटवार ने अपना सवाल दुहराया। चेम्पन का उत्तर एकाएक गूँज उठा, “मैंने शादी नहीं की।”

इस अप्रतीक्षित जवाब से सब चकित हो गए। घटवार भी साँस रोक-कर बैठ गया। तनातनी का क्षण बीत जाने पर घटवार ने सवाल किया, “तब यह औरत यहाँ कैसे आई ?”

“मैंने काम करने के लिए एक नौकरानी के रूप में इसे रखा था, इसमें क्या गलती है ?”

घटवार हार गया। उसका पहला आरोप निराधार होकर गिर गया। आगे आने वाले आगे प भी ऐसे ही गिर जायेंगे।

घटवार ने मर्यादा को भग करने वाली पापी को बुलाकर उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, तब उसने पूछा, “क्या यह सच है री ?”

सबने सोचा कि वह चेम्पन का कहना झूठ साबित करेगी। चेम्पन के भाव में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि पापी उसका कहना झूठ बतायगी या क्या करेगी। उसके भाव से यह लगता था कि वह सबकी अवहेलना करने को तैयार है और किसी भी बात में वह नहीं झुकेगा।

घटवार ने पापी से अपना सवाल दुहराया। उसका जवाब आया, “हाँ।”

सुनकर सब लोग स्तम्भित हो गए। घटवार ने पूछा, “चेम्पन ने तुझसे शादी नहीं की ?”

“नहीं !”

“तुम चेम्पन के यहाँ नौकरानी थी ?”

“हाँ ।”

न्यायपाल घटवार थोड़ी देर मौत होकर बैठा रहा । चेम्पन को भी उम्मीद नहीं थी कि पापी का ऐसा जवाब होगा । अपनी ही भलाई के द्वार बन्द करने वाली, अपने कुल को बदनाम करने वाली पापी की ओर वृणा भरी दृष्टि से देखकर घटवार ने कहा, “तेरी ऐसी गति होनी ही चाहिए । नहीं तो एक अच्छे पुरुष के साथ रहकर . . . . .”

घटवार ने वाक्य पूरा नहीं किया । उसने सोचा कि चेम्पन को इस तरह जीतने नहीं देना चाहिए । उसने चेम्पन से पूछा, “नौकरानी ही सही ! एक औरत को बिना कारण इस तरह बाहर निकाल देना चाहिए रे ?”

उसका भी तुरन्त जवाब आया, “उसने चोरी की है ।”

घटवार के पास अब कोई तर्क नहीं रहा । बात ने ऐसा ही रुख पकड़ा । लेकिन वास्तव में बात ऐसी थी नहीं; यह सबको मालूम था । चेम्पन विधि पूर्वक कपड़ा<sup>१</sup> देकर पापी को अपने घर लाया था ।

घटवार ने एक दूसरा तरीका निकाला । चेम्पन को उसने धमकाया, “अजी, तुम बहुत बढ़ गए हो । यह आज की बात नहीं है, तुम हमेशा से ऐसा ही करते आये हो । इसका क्या नतीजा होगा मालूम है तुम्हे ?”

होठ जरा टेढ़ा करके व्यग के स्वर में चेम्पन ने पूछा, “क्या मालूम करना है । और क्या मालूम कराइयेगा ? चेम्पन के लिए सामने समुद्र है और ऊपर आसमान ।”

उसने आगे कहा, “कुछ भी नहीं मालूम करना है । सब खत्म हो गया । मैं किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । मालिक बुरा न मानिये । मैं आगे किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ।

१. मलयालियों में विवाह-कृत्य के समय एक मुख्य काम वर द्वारा वधू को वस्त्र भेंट करना होता है ।

उहैं, क्यो ? जेब मे कुछ होगा तभी न रास्ते मे डर लगेगा ।”

घटवार ने डराया, “धाट वालो के साथ तुम भत खेलो ।”

घटवार का वाक्य खत्म होने के पहले ही चेम्पन कॉपते हुए शरीर से बोला, “इज्जत बचानी है तो चुप रहिये !”

घटवार के सामने आज तक किसी ने ऐसा व्यवहार नही किया था । वह भी घटवार के लोगो के सामने । इसका मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का अपमान नही, पूरे धाट का अपमान था ।

चेम्पन क्या सोचता है । क्या उसकी मति मारी गई है ? क्या उसे कल की चिन्ता नही है । किसी की समझ मे कुछ नही आया ।

इसके बाद चेम्पन एक शब्द भी बोले बिना वहाँ से चला गया ।

घटवार अपमानित हुआ । धाट वाले सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगे । पाप्पी भी चेम्पन के पीछे-पीछे चली गई ।

पचमी की अभिलाषा व्यर्थ हो गई ? पाप्पी को उसने चेम्पन के पीछे जाते देखा ।

चेम्पन ने पाप्पी को मना नही किया ।

## १६

हूसरे दिन पचमी वहाँ दिखाई नहीं पड़ी । वह कहाँ गई होगी ? घर में शान्ति न रहने से बेचारी भाग गई ! उसे क्या वास्तव में भगा दिया गया है ! इस तरह औरते आपस में बाते करने लगो ।

पापी के बारे में भी औरतों में एक भत्ता था । उसने चेम्न को छोड़ा नहीं है । क्या दूसरी होती तो ऐसा करती ? पापी में अनेक गुण थे, इसमें आश्चर्य ही क्या ? वह एक अच्छे चाल-चलन और पोरुष आदि गुण वाले पति के साथ रह चुकी थी । उसमें अच्छाइयों का होना स्वाभाविक ही था ।

घटवार का अपमान करने वाले चेम्न की क्या गति होती है, यह देखने के लिए सब उत्सुक थे । घटवार का गुस्सा क्या रूप धारण करेगा, कौन जाने ? दोनों नावे तो औसेष्य की हो ही जायेंगी । उसके बाद वह कैसे जियेगा ? वह समुद्र में आगे काम कर सकेगा, इसकी आशा करना व्यर्थ है । आगे उससे यह नहीं हो सकेगा ।

बातचीत का विषय न बनने पर भी जिसका जोबन उस तट पर टूटता जा रहा था, वह नीकुञ्जम टट की एक अविभाज्य कड़ी परी था ।

उस तट पर नावे हैं, झोपड़ियाँ हैं, मल्लाह और मल्लाहिने सब हैं । परी भी है । कभी-कभी वह ऊपर खोचकर रखी हुई नाव के तख्ते पर बैठकर गाता है । गाते-गाते उस गाने का एक खास तर्ज बन गया था । वह परी का विशेष अपना तर्ज था । उस गाने को दूसरा कोई उस ढग से नहीं गाता था । जिसने वह गाना रचा था, क्या उसने कभी सोचा होगा

कि उसका गाना परी के द्वारा उस ढग से गाया जायगा? परी ने उसे अपना बना लिया था। मानो वह उसीके लिए बनाया गया हो। वह तर्ज उसके साथ-साथ खत्म भी हो जायगा। दूसरा कोई भी उसका अनु-करण नहीं कर सकेगा।

परी को झोपड़ी गिर गई। उस तट पर झोपड़ियाँ बनी हैं और गिरी भी हैं। लेकिन गिरी हुई झोपड़ियों के भीतर रहने वालों में से किसी को भी, उसके गिरने के बाद, उस तट पर नहीं देखा गया। लेकिन परी उसी तट पर था। क्या उसके जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी? हो सकता है, न हो।

वह शाम के समय सिर नीचा किये समुद्र-तट पर धूमा करता था, देखने से लगता था कि वह बालू-राशि में कोई खोई हुई चीज़ ढूँढ़ता है। ठीक ही था। एक जीवन ही उस बालू में बिखर गया था। उसे ढूँढ़ कर समेटने की जरूरत थी।

उन दिनों जब करुत्तमा के विषय में अपख्याति उठ खड़ी हुई थी, तब एकाघ बार परी बातचीत का विषय बन गया था। पर वह चर्चा तुरन्त बन्द हो गई, कितने लोगों को ऐसी कहानी हुई होगी! जब कोई घटना घटती है तब वह चर्चा का विषय बन ही जाती है। और वह चर्चा तुरन्त खत्म भी हो जाती है। कोई उस सम्बन्ध को महत्त्व नहीं देता। व्यापार के लिए तट पर डेरा डालकर रहने वाले मुसलमान लोग मल्ला-हिनो से प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है।

परी के भग्न प्रेम की कहानी किसी को मालूम नहीं हुई थी। आज भी जब नावे किनारे लगती है तब परी वहाँ पहुँच जाता है। व्यापार भी करता है। गुजारे के लिए कभी-कभी कुछ कमा भी लेता है, इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था।

चेम्पन की नाव के पास भी, जो ऊपर रखी रहती थी, कभी-कभी जाकर वह खड़ा-खड़ा उसे देखता था, बीते दिनों की याद आती ही होगी।

वह नाव किसे आई, यह भी वह सोचता होगा। आज ऐसे ही जब वह खड़ा-खड़ा देख रहा था, तब एकाएक चेम्पन कहाँ आया। परी ने चेम्पन को आते नहीं देखा।

बहुत दिनों से परी चेम्पन के सामने नहीं आता था। दूर से चेम्पन को आते देखता तो मुड़कर दूसरी ओर चला जाता। वास्तव में चेम्पन के प्रति परी ने कोई अपराध नहीं किया था; किर भी मालूम नहीं किस अपराध-बोध से वह ऐसा करता था।

एकाएक चेम्पन जब पास आ गया तब परी ज़रा घबरा गया। उसने सामने जिसे देखा वह पहले बाला चेम्पन नहो था, न वह चेम्पन का प्रेत ही था। एक ही नजर में मालूम हो सकता था कि चेम्पन की बुद्धि कुछ भान्त हो गई है। चेम्पन भी क्या पहले के ही परी को देख रहा था?

एक क्षण दोनों एक-दूसरे को देखते रहे। तब चेम्पन ने परी से पूछा, “तुमको मुझसे कितने रूपये मिलने हैं?”

परी ने कभी हिसाब नहीं जोड़ा था, न उसे याद ही था। उसे मालूम नहीं था। चेम्पन ने फिर पूछा, “कितने हैं?”

परी ने समझा कि क्या जवाब दे, उसे कुछ मिलना नहीं है, चेम्पन को कुछ देना नहीं है, आदि क्या-क्या वह कहना चाहता था। लेकिन कुछ कहने में उसे डर लगा। उस समय उसको स्थिति ठोक कर्ज लेने वाले को तरह थी, देने वाले की तरह नहीं। ऐसा लगता था मानो कर्ज देने बाला पैसे लौटाने के लिए उसे तग कर रहा है।

उस लेन-देन का वास्तविक रूप क्या था? परी कर्श्टम्मा से स्नेह करता था और कर्श्टम्मा परी से। ठोक है, वह स्नेह-बन्धन निष्कलक था। जब उस स्नेह ने प्रेम का रूप धारण किया, उसी समय चेम्पन और चक्की के साथ लेन-देन हुआ। देते समय ही उसने बापिस न लेने की बात मन में तथ कर ली थी। तो क्या उसका उद्देश्य पैसे से माँ-बाप को आभारी बनाकर अपने प्रेम-मार्ग को सुगम बनाना था? बेटों को पाने

के लिए माँ को धूस देना चाहता था ? नहीं उसका उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता था । परी ने करुत्तमा को अपने वश मे करने की कभी कोशिश नहीं की थी, न उसके लिए उसने कभी माँग ही पेश की, अगर ऐसे उद्देश्य से रूपया दिया होता तो करुत्तमा की शादी जब ही हुई और एक दूसरे व्यक्ति ने उसको अपना बना लिया, उसी समय उसे रूपया लौटा देने को कहना चाहिए था । लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । क्या करुत्तमा ने माँगा था इसलिए दिया था ? यदि हाँ, तो उसने गुप्त रूप मे रूपया नहीं दिया था ।

रूपया देने के कारण उसका आर्थिक विनाश हो गया । आर्थिक विनाश यहाँ तक कि उसके तन पर का सिर्फ पहनने का कपड़ा ही बच रहा । उसका घर-द्वार सब दूसरों के हाथ बिक गया । परी के जीवन मे अब कुछ नहीं रहा । कोई लक्ष्य भी नहीं रहा ।

क्या वह अब भी एक नई झोपड़ी खड़ी करके नये सिरे से जीवन का कुछ कार्यक्रम गुरु नहीं कर सकता ? आदमी को मरते दम तक कुछ सहारा चाहिए न । अब करुत्तमा उसकी नहीं हो सकती थी, जीवन का वह अध्याय उसे भूल ही जाना चाहिए । ऐसी बदली हुई परिस्थिति मे कोई भी बदल जायगा न । लेकिन परी आज भी वही पुराना निराश प्रेमी बना रहा ।

चेम्पन ने जेब से एक पुलिन्दा निकाला और फिर पूछा, “कितना था रे ?”

कोई जबाब नहीं, अपराधी की तरह परी खड़ा था । चेम्पन ने आगे कहा, “मैंने तुझे भला आदमी समझा था । लेकिन तू वैसा नहीं है ।”

उसने दास्तव मे क्या अपराध किया था ? क्या उसने करुत्तमा को धोखा दिया था ? क्या शादी के बाद भी उसके जीवन मे प्रवेश करके कुछ गड़बड़ी पैदा की थी ? आखिर उसने क्या गलती की थी ?

उसने प्रेम किया, वह भी जान-बूझकर नहीं । करुत्तमा को या उसके

परिवार बालों को कुछ हीनि पहुँचाने की नीयत से नहीं। एक पुरुष होकर उसने जन्म लिया था और एक स्त्री से प्रेम किया था। फिर भी उसके जीवन से अलग-अलग ही रहा।

तब भी एक अपराधी की तरह वह खड़ा था। चेम्पन ने कहा, “तुमने मेरी बेटी को देखकर ही न उस दिन रुपया दिया था?”

“नहीं,” यह जवाब परी के कण्ठ तक आकर रुक गया, बाहर नहीं आया। चेम्पन का आरोप उसे अस्वीकार करना चाहिए था! लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चेम्पन कहता गया, “मौंगते ही, पास मे जो था सब उठाकर दे दिया। जरा भी नहीं हिचका, मैंने सोचा कि तू एक अच्छा आदमी है, इसलिए तूने ऐसा किया। लेकिन बात बिलकुल दूसरी ही थी। तेरे मन मे कुछ और ही था।”

पुलिन्दा खोलकर रुपया गिनते-गिनते उसने कहा, “तूने कैसा उत्पात मनाया है, यह तुझे मालूम है?”

परी एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, निर्विकार, निश्चिन्त! चेम्पन की आँखे सजल हो गई, उसने कहा, “तुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। कैमे मालूम होता। तु सचमुच एक शैतान है।”

तब भी परी चुप रहा। चेम्पन ने आगे कहा, “तूने एक कुटुम्ब को बरवाद कर दिया। मेरा जीवन नष्ट हो गया। कितने लोगों को तूने बरवाद किया है यह तुझे मालूम है?”

उस परिवार के पूरे इतिहास पर एक नजर ढौड़ाने की बात थी। एक नाव और जाल खरीदने की इच्छा की पूर्ति के लिए चक्की की सिर पर मछली की टोकरी लेकर बेचने जाने की बात से लेकर पूरी कहानी को देखने पर ऐसा लगता है न कि चेम्पन के शब्दों मे कुछ तथ्य था।

कॉप्ती हुई आवाज मे चेम्पन ने कहा, “इस तट पर चक्की की तरह ही खेलती-फिरती थी मेरी कर्त्तमा। तुमने उसे पथ-भ्रष्ट किया। तभी से यह दुर्दशा शुरू हुई।”

यह ठीक है। अगर परी कर्त्तमा से प्रेम नहीं करता तो यह सब

नहीं होता। एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर जीवन-यापन करने वाला एक साधारण मल्लाह परिवार वहाँ उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता। अपने चिंशिष्ट तरब-ज्ञान के अनुसार, प्रकृति ने निरतर सघर्ष करते हुए जीवन बिताने वाले एक मल्लाह का सारा जीवन मिथ्या नहीं हुआ होता। चेम्पन के लिए अब क्या था? पत्नी गई, बच्चे नहीं रहे, जीवन-भर मेहनत करके जो नाव और जाल खरीदा था, सो भी चला गया। कुछ भी शेष नहीं रहा। जितने प्रिय सम्बन्ध थे, सब टूट गए। चेम्पन ने गिन-कर देखा कि कुल ५९५ रु उसके पास थे। पति-पत्नी ने मिलकर जीवन-पर्यन्त जो कमाया, उसमें से यही बचा था। और चुकाने के लिए एक पुराना कर्ज बाकी था।

एक निकृष्ट कीट की तरह परी ने उस परिवार के इतिहास में प्रवेश किया और उसका अकुर ही खत्म कर डाला। चेम्पन का सवाल ठीक ही था न? जिस दिन परी अपने बप्पा के हाथ पकड़े पहले-पहल वहाँ आया उस दिन को ही उसे (करुतम्मा को), यदि वह समझदार है तो, घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। उसी दिन से चेम्पन के परिवार की शनि-दशा का आरम्भ हुआ। . . . . . लेकिन उस दिन नाव के नीचे से जो बच्ची ऊपा (मछली) बटोरने के लिए आई थी वह उसे निर्निमेष एकटक देखती रही। उसने जो लाल रंग का शख वहाँ उठा लिया था उसे उस लड़के ने माँगा था।

“यह शख मुझे दोगी?”

लड़की ने शख दे दिया। शख क्या दिया, उसके साथ अपना हृदय भी न दे दिया।

लेकिन इसमें परी का कोई दोष नहीं था। उसने जान-बूझकर चेम्पन के पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं किया था। बिना जाने ही वह उस परिवार की अन्तर-शिखा में अपने-आप विलीन हो गया। कोई भी उसे अपराधी ठहरावे, एक अपराधी के रूप में वह भले ही खड़ा होवे, लेकिन उसकी वास्तविकता कौन जानता है। इसका पता कसे लगता?

जानने वाली सिर्फ एक ही है। और वह है करत्तम्मा। करत्तम्मा भी उस सत्य को क्या महत्व देती! उसे देखते ही, उसके बारे में सोचते ही वह घबरा नहीं जाती! हाँ, परी से वह डरती थी।

चेम्पन ने कहा “मेरे ऊपर अब एक ही जिम्मेदारी है। वह है तेरा ऋण। मुझे बरबाद करने के लिए, मेरी बच्ची को पथ-भ्रष्ट करने के उद्देश्य से, तूने जो पैमा दिया था, ले, वह वापिस ले!”

चेम्पन ने रुपया आगे बढ़ाया। परी चुपचाप खड़ा रहा। चेम्पन ने फिर कहा, “ले, इसे ले। ऊँ।।।”

वह ‘ऊँ’ एक उम्र आदेश के रूप में था। परी ने एक यत्र की तरह हाथ बढ़ा दिया। चेम्पन ने उस हाथ में रुपये रखते हुए कहा, “इतना ही मेरे पास है। मुझे हिसाब नहीं मालूम। हिसाब तो मेरी चक्की को ही याद था। कम हो तो क्या किया जाय?”

चेम्पन चला गया। परी हाथ में रुपये लिये ज्यो-का-त्यो बहुत देर तक खड़ा रहा। वह चेतना-शून्य ही खड़ा रहा। ‘हाथ में रुपये हैं’ यह भी उसे मालूम है। ऐसा नहीं लगता था।

उन रुपयों की क्या आवश्यकता थी?—आवश्यकता क्यों नहीं थी?—उसने कितने रुपये डुबोये हैं? उस दिन के भोजन के लायक भी उसके पास पैसा नहीं था। सारा जीवन सामने है। तब वे रुपये, सहारा बन सकते हैं न! एक पुराने कर्ज का ही रुपया वसूल हुआ था न!

परी ने अपने हाथ की ओर देखा। हाथ ने रुपयों को पकड़ रखा था। करेन्सी नोटों के छोर हवा में हिल रहे थे। उसे लगा कि ‘ये रुपये मेरे पास क्यों हैं?’ उसे उसने कभी भी अपना नहीं समझा था। जब अपना नहीं समझा था तब वह उसका कैसे हो सकता है? तब वह किसका है?

इतने में बहुत जोर से किसी के ठाकर हँसने की आवाज सुनकर परी चौक पड़ा। थोड़ी दूर पर चेम्पन की नाव, जिसे उसने कण्डनकोरन से खरीदा था, रखी थी। कई दिनों से वह वहाँ पड़ो थी। उसके सामने

का छोर नीचे की ओर झुका हुआ था और पतवार वाला छोर ऊपर की ओर उठा हुआ था। ऐसा लगता था कि नाव उठे हुए छोर से सामने समुद्र के उस पार क्षितिज की ओर गौर से देख रही है। उस पार से कोई चीज मानो उसे इशारे से बुला रही थी। उसके लिए तो दूर समुद्र बहुत परिचित ही था न! उसे समुद्र में ही रहना चाहिए था। समुद्र के लिए ही वह बनाई गई थी। फिर भी कितने दिनों से वह समुद्र में जाने के लिए तरसती हुई पड़ी थी। ऐसा लगता था कि उसे छू देना काफी होगा। वह तुरन्त तरगों को काटती हुई तेजी से आगे बढ़ जायगी।

उसे देखने से लगता था कि वह दयनीय पुकार मचा रही है कि 'जरा मेरी ओर तो देखो, यह शरीर कितना कृश हो गया है, धूप से कितनी जगह फट गई हूँ, कृपा करके मुझे इस लवण-जल में उतार दो।' समुद्र से आने वाली हवा ने उसे शायद थोड़ी ठड़क पहुँचाई होगी। पल्लिवकुन्नम 'जाल-वाले' कण्डनकोरन की वह नाव थी। चेम्पन ने उसे खरीदा था। वह बड़ी ऐश्वर्यशालिनी थी और समुद्र में पक्षी-जैसे बेग से चलती थी।

नाव का दूसरा छोर नीचे झुक गया था। मानो वह कह रहा था, 'मैं जा रहा हूँ।'

उसी नाव के नीचे से वह जोर की हँसी आई थी। प्रेत के अट्टहास जैसी वह हँसी थी। चेम्पन वहाँ से ठाकर हँस रहा था।

पचमी और करुत्तमा दोनों एक गाढ़ आलिङ्गन में आबद्ध हो गईं। कितनी देर तक वे दोनों उस तरह खड़ी रही, यह उन्हे नहीं मालूम हुआ। दोनों रो रही थीं, बाप की अवज्ञा करके और माँ को मृत्यु-शय्या पर गिरते देखकर भी करुत्तमा चली आई थी। आते समय उसने बहुत दूर तक पचमी को 'दिदिया, हे दिदिया' कहकर पुकारते भी सुना था। वह पुकार बार-बार उसके कानों में गूँजतीर ही है। उसके बाद माँ मर गईं और सौतेली माँ आईं। अब दोनों बहनें आपस में मिल रही हैं।

अपनी योजना में असफल होकर पंचमी तृक्कुन्नपुषा के लिए चल पड़ी

थी। और कहाँ जाती? तृक्कुन्नपुषा मे उसका आना अप्रतीक्षित था। पलनी दोनों बहनों को आलिङ्गन मे आबद्ध खड़ी-खड़ी आँसू बहाते देखता रहा। उसकी गोद मे जो बच्ची थी वह खिल-खिलाकर हँस रही थी। वह अपनी बोली मे कुछ-कुछ बोल भी रही थी। उसे अच्छा लग रहा था।

पलनी ने पूछा, “कौन है? पचमी? तुम यहाँ कैसे आई?” करुत्तम्मा ने बच्ची को अपने हाथ मे ले लिया और कहा, “यह मेरी बिट्ठिया रानी की मौसी है।”

पचमी ने बच्ची को चूम-चूमकर प्यार किया। उसने उसे सपने मे देखा था।

पलनी ने नीकरुन्नम का कोई समाचार नहीं पूछा। उसे कुछ नहीं पूछना था। वहाँ से उसका कोई सम्बन्ध हीं नहीं रहा था।

करुत्तम्मा को बहुत-कुछ पूछना था। पचमी को भी बहुत-कुछ कहना और सुनना था। करुत्तम्मा को किस-किसके बारे मे क्या-क्या पूछना था, उनमे से एक भी पलनी को पसन्द नहीं था। उस जगह का नाम भी उसे पसन्द नहीं था। शायद पचमी से वह घृणा नहीं करता होगा। वह उस बेचारी निरपराध बच्ची से क्यों घृणा करता? लेकिन वह आई कहाँ से? किस-किसके बारे मे समाचार लाइ है? पलनी की दृष्टि मे पचमी सिर्फ एक अनाथ बच्ची हीं नहीं है, वरन् वह जिसे नापसन्द करता है, जिस-जिससे घृणा करता है उन सबकी ओर करुत्तम्मा का ध्यान खींच ले जाने वाली एक काली छाया थी। पचमी को देखकर करुत्तम्मा क्या-क्या सोचेगी, क्या-क्या पूछेगी और किस-किसके बारे मे जानने की इच्छा प्रकट करेगी।

पलनी उदास हो गया। उस घर मे फिर एक काली छाया आ गई। घर का चाताचरण गम्भीर हो गया। उस छोटी बच्ची की तोतली बोली और हँसी ने बादलों के बीच क्षण-भर के लिए बिजली की तरह प्रकाश फैला दिया। बच्ची को रोने की आदत नहीं थी। उसे रोने नहीं दिया जाता

था। लेकिन अब वह रोने लगी। तब पचमी ने कहा, “दोदी, बच्ची को न रुलाओ!” करुत्तम्मा उसे चुप कराने लगी। बच्ची मौसी से तुरन्त हिल-मिल गई।

कुछ भी पूछना-मुनना मुश्किल था। पलनी जब न रहता तभी तो कुछ बाते हो सकती थी। करुत्तम्मा को दम घुटने-जैसा लगता था। बाते करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वह क्या-क्या पूछती है, यह जानने की इच्छा पलनी को हुई होगी।

अगर वैसी इच्छा हुई भी हो तो उसमे पलनी का क्या दोष था? वह पति था, पिता था। करुत्तम्मा ने कसम भी खाई थी। फिर भी उसका हृदय एक बार अपहृत हो चुका था न! वह मुसलमान लड़का अब वहाँ नहीं रहता होगा, इसका क्या निश्चय है। ऐसे भी एक पति को अपनी पत्नी के बारे मे सन्देह होना स्वाभाविक है न! परी के बारे मे करुत्तम्मा क्या पूछेगी?

उस घर मे करुत्तम्मा को अविचारित ही सब बातों से खोझ होने लगी। पति भी झुँझलाया हुआ था। पति-पत्नी मे झगड़ने का भाव पैदा हो गया।

दोनों के मन मे एक प्रकार का द्वन्द्व शुरू हो गया।

एक बार पचमी ने धीरे से कहा, “दोदी, तुम बड़ी निष्ठुर हो!”

करुत्तम्मा ने कहा, “चुप, चुप! जीजा सुन लेगा!”

पलनी ने कहा कि शाम को वह और रोज से जरा पहले ही काँटा डालने के लिए जायगा। उसने कॉटो मे चारा लगाकर उन्हे ठीक करके रख दिया। करुत्तम्मा ने खाना भी तैयार कर दिया। उसे एक बड़ी तसल्ली हुई।

माँ, बेटो को लेकर शाम के समय पलनी को नाव के साथ समुद्र मे जाते देख रही थी। बच्ची ने अपना हाथ हिलाते हुए उठाया। ऐसा करने की उसकी आदत हो गई थी। नाव पर से बाप भी हाथ उठाकर विदा लिया करता था। लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। नाव आगे

बढ़ गई। बच्ची रोने लगी।

घर पर दोनों बहने अकेली थीं। पचमी सब बाते सुनने लगी। माँ की मृत्यु, माँ का उसे नल्लम्मा के जिम्मे लगा जाना, बप्पा को दूसरी शादी के लिए माँ का सलाह देना आदि-आदि बाते सुनाते-सुनाते उसने कहा, “दिदिया, परी मोतलाली एक दिन माँ से मिलने आया था।”

करुत्तम्मा ने विषय बदल दिया। उसका दिल धड़कने लगा।

“क्यों दोदो! उसके बारे मे कुछ सुनना नहीं चाहती क्या?”

करुत्तम्मा ने मानों सुना ही नहीं, ऐसा भाव प्रकट करते हुए पूछा, “माँ मर गई तो मुझे खबर क्यों नहीं दों गई?”

“सबने खबर न देने की बात ही कही थी।”

“सबने?”

“हाँ, सब कह रहे थे कि तुम दुरी हो। तुमने भी अन्याय ही किया था न! ऐसे भी तुमसे ममता नहीं है। तुम बहुत निष्ठुर हो!”

इसके बाद पचमी ने छोटी माँ के बारे मे बाते सुनाई। साथ ही उसे एक खास बात कहनी थी “हमारे नाव-जाल अब हमारे नहीं रह गए। उन्हे औसेष्य चाचा के यहाँ बन्धक रखकर रुपया लिया गया। उस रुपये को छोटी माँ ने अपने बेटे को दे दिया।”

पचमी ने सब बाते विस्तार से सुनाई।

करुत्तम्मा के मन की आँखों के सामने उसके बप्पा का पतवार थामे समुद्र मे पक्षी-वेग से आगे-आगे नाव चलाने का दृश्य उपस्थित होगया।

माँ और बाप के जीवन-भर की कमाई का वह फल था। वह नाव अब दूसरों के हाथ मे चली गई। उसमे उन लोगों का अब कोई हक नहीं रहा। करुत्तम्मा को रुलाई आ गई। रोते-रोते उसने पूछा, “अब बप्पा का काम कैसे चलेगा री?”

“कौन जाने?”

उस खबर से करुत्तम्मा का कलेजा टूक-टूक हो गया। पचमी का उदासीन भाव से ऐसा कहना उसे सबसे ज्यादा दुखदायी लगा। बप्पा का

काम कैसे चलेगा, इसकी पचमी को कोई फिक्र ही नहीं थी। उसके लिए वह एक बहुत गौण बात थी। अपने को भूलकर करुतम्मा कह गई, “वाह री कृतध्न !”

“ऊँ, क्यो ?”—पचमी ने पूछा।

“बप्पा अब क्या करेगा यह बिना जाने, बिना उससे कहे तुम कैसे चली आई ? बप्पा का अब कौन है री ?”

“ओहो ! ! क्या कहना था ? तुमने क्या किया ?”

ठीक ही था। पचमी को क्यो दोष दे ? दोनो मे एक ही फर्क था। वह लाचारी बश माँ-बाप को छोड आई थी। लेकिन पचमी के बारे मे ऐसी बात नहीं थी। पचमी ने कहा, “दिदिया, तुम उस समय न आई होती तो यह सब न हुआ होता। माँ की तरह घर सँभालकर रहती होती तो कितना अच्छा होता ?”

करुतम्मा सोचती बैठी रह गई। ऐसा होता तो क्या सब ठीक होता ? बेचारी बच्ची ! उसे कुछ नहीं मालूम है। रह जाती तो क्या हुआ होता ! दिदिया ही खत्म हो जाती ! ! बेचारी यह नहीं जानती थी।

ज्यादा बोलने की आदी पचमी ने आगे कहा, “एक मल्लाह मिल गया और तुम सब-कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ पड़ो।”

“बाप रे ! यह बात नहीं थी”—यह वाक्य उसके दर्द-भरे हृदय से उसकी जिह्वा तक आकर रुक गया। रुलाई के बीच दो-तीन अस्पष्ट शब्द उसके मुँह से निकले। उसे मल्लाह के लिए जो प्रेम था, उसके कारण, वह नहीं आई थी, किसी की परवाह न करके यही उसको कहना था। पलनी के घर मे बैठकर, वह परिश्रम करके जो कमा लाता है उसे खाकर ऐसा कहना उचित होता ? बेचारा समुद्र मे गया हुआ था। वास्तव मे वह अपने ही बचाव के लिए चली आई थी। वह माँ-बाप को प्यार करती थी या पति के प्रति कर्तव्य-बोध से चली आई, यह भी वह नहीं

आई थी ।

बाते सुनाते समय पचमी ने चेम्पन के पागल हो जाने की बात भी कही । उसने बड़े गुस्से से कहा, “उस मोटकी ने यह भी कहा कि तुम एक मुसलमान के साथ धूमती फिरती थी और तुमने तट का सर्वनाश कर दिया ।”

बड़े दुख से उसने आगे कहा, “बेचारा बप्पा पागल हो गया ।”

करूतम्मा बिना कुछ कहे बैठी रही । उसके कान भारी हो गए । आँखों के आगे अँधेरा छा गया । पचमी ने और भी सुनाया ।

“वह बात इस समय भी तट पर दुहराई जाती है । आज भी लोग उसका जिक्र करते हैं । उसका अभिमानी बप्पा भी बात जान गया । बप्पा उसे क्षमा करेगा ?”

पचमी फिर परी की बात पर आ गई । उसकी दाश्ण स्थिति का वर्णन किया । उसने कहा, “उसके पास कुछ भी नहीं है दिदिया ! समुद्र-तट पर भूखा धूमता रहता है । देखने में पागल-जैसा लगता है । उसकी हालत बहुत खराब हो गई है ।”

करूतम्मा ने यह सब मुनाने के लिए नहीं कहा था । न मना ही किया था । मुनाने की इच्छा तो उसमे थी ही । दूसरी स्थिति में रहती तो वह परी के बारे में जरूर प्रश्न करती ।

उसे, उस तट पर पीला कुर्ता और टोपी आदि पहनकर रेशमी रूमाल लटकाये अपने बाप के साथ आये हुए बच्चे की स्मृति जागृत हो आई होगी । उसने उसको वह शख जो दिया था । इस तरह उसके प्रेम-नाटक के सब दृश्य उसकी आँखों के सामने से गुजरे होंगे ।

एक मूल्यवान जीवन बरबाद हो गया । बरबाद हो गया नहीं, बरबाद कर दिया गया । अपने को भूलकर उसने पचमी से पूछा, “छोटे मोतलाली अब भी नाव पर बैठकर गाया करते हैं क्या ?”

पचमी ने उत्तर दिया, “हाँ, कभी-कभी गाता है ।”

उस गाने का अर्थ पचमी को मालूम था ? नहीं ।

करुत्तमा ने पूछा, “तुमसे मिलता था ?”

“कभी-कभी उसे देखती थी ।”

“तब दीदी की बात तुमसे पूछता था ?” करुत्तमा की आवाज काँप रही थी ।

पचमी ने कहा, “मुझे देखता तो मुस्कुरा देता था ।”

“नहीं ।—पूछता था ।”—एक अस्पष्ट ध्वनि में यह वाक्य सुनाई पड़ा और उसके साथ ही दोनों के सामने पलनी आकर खड़ा हो गया ।

करुत्तमा और पचमी दोनों खड़ी हो गईं । करुत्तमा का रहस्य पकड़ा गया ।

## २०

कर्त्तम्मा मे अब एक मजबूती आ गई, जिसका अब तक उसमे अभाव था। उसमे एक विशेष युक्ति-बोध आ गया और उसके सामने जीवन की एक अस्पष्ट योजना भी बन गई। उसके जीवन की धारा और घटनाओ ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। आज तक वह डरते-डरते जी रही थी, सब से डरती थी और उसे सब तरह का डर बना रहता था। उसमे अपनी कोई इच्छा-शक्ति नहीं थी। शायद वह किसी भी तरह जीना चाहती थी, इसीलिए ऐसा होता था।

लेकिन अचानक एक परिवर्तन हो गया। पचमी का आ जाना इसका एक कारण हो सकता है। जब उसका रहस्य प्रकट हो गया, उस समय पचमी के रूप मे उसे एक साथी मिल गया। अब छिनाने के लिए क्या था? डरने के लिए क्या था? जीवन की सुरक्षा का बोध, अपने को सुरक्षित बनाये रखने का विचार—दोनों एक साथ समाप्त हो गए। सुरक्षित मार्ग पर उसके साथ जाने के लिए अब पचमी उसके पास थी।

उस दिन भी उसने पति से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा दुहराई। उसने अपनी सारी बातें खोलकर उसे बता दी। पलनी ने परी के बारे मे यह पूछा कि बचपन का साथी होने के अलावा उसका उससे क्या सम्बन्ध रहा। जवाब मे कर्त्तम्मा ने कहा कि वह पतित नहीं हुई है। पलनी ने पूछा, “तुम उससे प्रेम करती थी?”

कर्त्तम्मा ने जीवन मे सब-कुछ खोकर समुद्र-तट पर पागल की तरह गाना गाते हुए धूमने वाले परी को अपने मन की आँखो के सामने देखा। पचमी ने थोड़ी देर पहले उसकी जो करुण कहानी सुनाई थी। उस कहानी

ने उसकी एक मूर्ति उसके सामने खड़ी कर दी थी। उसके—ये शब्द ‘मैं रोज यह गाना गाऊँगा’, ‘तृक्कुन्नपुषा-तट पर सुनाने के लिए यह गाता रहूँगा’, ‘नाव और जाल जब हो जायेंगे तब मछली मेरे हाथ बेचोगी ?’ करुत्तम्मा के कानों में गूँज रहे थे।

जवाब देने में क्षण-भर की देर हुई तो पलनी ने अपना सवाल फुहराया। करुत्तम्मा को लगा कि उसके भीतर से कोई डाटकर पूछ रहा है कि अब क्या छिपाना है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, शादी के पहले तुमने किसी से प्रेम किया, इसमें क्या गलती थी ?

करुत्तम्मा ने जवाब दिया, “हाँ, करती थी।”

सारी कोठरी में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। उसे कौन भग करता ? आखिर पलनी ने पूछा, “क्या आते समय तुम उससे विदा लेकर आई थी ?”

करुत्तम्मा ने ‘हाँ’ या ‘ना’ कुछ नहीं कहा।

पलनी ने एक और सवाल पूछा, “फिर कब मिलने की बात कही है ?”

“ऐसी कोई बात नहीं कही।”

बच्ची जागकर रोने लगी। करुत्तम्मा ने उसे उठाकर दूध पिलाया।

उस दिन करुत्तम्मा ने पलनी का हृदय जीतने की कोशिश नहीं की। लेकिन बार-बार अपनी प्रतिज्ञा दुहराती रही। विवाहिता होने के नाते जो मूक प्रतिज्ञाएँ की जाती है, उन्हें ही उसने दुहराया। इसके सिवा और क्या कर सकती है, ऐसा प्रश्न उसके मन में उठता था।

खूब भोर मे ही पलनी उठकर बिना कुछ कहे ही कही चला गया। पचमी ने पूछा, “क्या जीजा रुठ गया है ?”

करुत्तम्मा ने जवाब दिया, “अब दुनिया मे हम दोनों का कोई नहीं है।”

पचमी ने कहा, “दिदिया, तुम्हारा तो घर है। मेरा ही दुनिया मे कोई नहीं है।”

“नहीं नन्हीं, हम दोनों की एक स्थिति है। हम साथ-साथ ही अपना गुजारा करेगी।”

थोड़ी देर के बाद कर्श्चतम्मा ने आगे कहा, “हम दोनों बुद्धिमान चेम्पन की सन्तान हैं।”

उस दिन दोपहर को जब पलनी आया तब कर्श्चतम्मा ने कहा, “मुझे जरा नीकर्कुञ्चम जाना है।”

पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्श्चतम्मा ने चेम्पन की उस स्थिति के बारे में सुनाया। उसके बाद उसने कहा, “बप्पा का अब कोई नहीं रहा।”

इस पर पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया।

उस दिन भी रोज को तरह पलनी ने कॉटो में चारा लगाकर उन्हे ठीक किया। कर्श्चतम्मा ने एक बरतन में रात का खाना रखकर निकाला। पलनी कँटा और डॉड लेकर आगे-आगे और कर्श्चतम्मा एक हाथ में उसका खाना और दूसरे हाथ में बच्ची को लेकर, पीछे-पीछे,—इस तरह दोनों समुद्र-तट पर गये।

उस दिन भी बच्ची ने हाथ उठाकर विदा दी। पलनी ने तरणों को पार करके आगे जाने के बाद मुड़कर देखा। बच्ची हाथ उठाये हुए थी।

कर्श्चतम्मा तट पर थोड़ी देर खड़ी रही। शाम हो चली थी। पश्चिम दिशा में आकाश तपाये गए सोने के समान लाल दिखाई दे रहा था। कैसा गहरा रंग था। समुद्र का नीला जल और आकाश की स्वर्णिम आभा—दोनों के बीच एक काली रेखा खिची-जैसी मालूम हो रही थी। उस रेखा के उस पार क्या है, यह एक रहस्य है। एक बड़ा भारी रहस्य।

पलनी की नाव उस अनन्त जल-राशि में दक्षिण की ओर बढ़ी। वह खड़ा होकर डॉड चला रहा था। तेजों के साथ जब वह नाव से पानी आर-मारकर फेंक देता था तब फिर थोड़ा पानी आ जाता था।

नाव में इस तरह खड़े होकर नाव चलाते कितने दिन हो गए! ऐसा लगता था कि मानो उसकी सोई हुई शक्तियाँ जाग उठी हैं, उसका शरीर

उन शक्तियों को सँभाल नहीं सकता, उसके हाथ में जो डाँड है वह काफी नहीं है और नाव बहुत छोटी हो गई है ।। वह नाव में पानी के भरने की ओर ध्यान न देकर उस काली रेखा को लक्ष्य करके नाव खेने लगा ।

उस जागृत शक्ति की हुकार और गर्जना वहाँ की विशालता में किसी ने नहीं सुनी । लगता था कि पलनी की नाव आकाश में उड़ी जा रही है ।

किसी ने उस शक्ति को जागाया होगा ? उसे अब शान्त करने की शक्ति किसमें है ? मालूम नहीं होता । लगता था कि असीम शक्ति अनियन्त्रित छोड़ दी गई है । पलनी चला जा रहा था ।

समुद्री हाथियों का एक झुण्ड उस नाव के चारों ओर गोता लगाते हुए निकल गया । उनमें से एक ने नाव को अपनी पीठ पर थोड़ा उठा लिया, नाव पानी के ऊपर उठ गई । सम्भव था कि वह दूसरे ही क्षण उलट जाती । लगता था कि पलनी की आँखों से चिनगारियाँ निकल रही हैं, दाँतों से होठ काटते हुए वह जोर से चिपाड़ा । उसने उठी हुई नाव में से एक डॉड़ चलाया । एक ही क्षण में यह सब हो गया । नाव उलटी नहीं । समुद्री हाथी शायद रीढ़ टूट जाने से पानी में डूब गया । पलनी डॉड़ चलाता रहा । वह दूर पश्चिम की ओर—कहाँ जा रहा था ? इस पश्चिम की कोई सीमा नहीं है ।

समुद्र के किनारे बच्ची बिना कारण ही रो पड़ी । शायद निष्कलक बच्ची ने अपने बाप को पागल की तरह आवेश में जाते देखा होगा । बेचारी पिता को अनन्त की ओर जाते देखकर रोई होगी । पलनी ने बच्ची को रुलाई नहीं सुनी । हवा की गति पूरब की ओर थी । समुद्री हाथी से लड़ते समय की पलनी की चीख को हवा ने तट पर पहुँचा दिया । करस्तम्भा ने उसे सुना ?—नहीं । उसके कान में वह आवाज़ नहीं जा सकी । इतनी पवित्रता उसमें नहीं थी ।

पलनी रहस्य की खोज में जा रहा था । समुद्र से ही चन्द्रमा का उदय होते उसने देखा है । वह एक नई दुनिया में पहुँच गया । ऐसा लग रहा

था, मानो चारों ओर नीले जल में चॉदी उँडेल दी गई हो। ऐसा दृश्य था। पलनी चारों ओर क्षितिज से विरे एक नये लोक मे था। उसे एक डर मालूम हुआ। अब तेजी से नाव चलाकर सीमा पार करनो थीं।

समुद्री साँप उसकी नाव पर चढ गए। चारों ओर की चॉइनों की चमक मे उसने साँपों को लौटते देखा। कुछ साँप नाव के छोर पर दूँछ टिकाये, सिर उठाकर नाचते और फिर नाव मे गिर जाते थे। दो साँप नाव मे एक-दूसरे से लिपटकर खेल रहे थे।

दूर पश्चिम से एक उत्तुग तरण क्षितिज के दृश्य को ढकती हुई उठी और उमडती हुई आती दिखाई पडी। पलनी के मन मे उस तरण के नीचे। से गोता लगाकर उस पार निकल जाने की इच्छा हुई। . . . लेकिन ?

उस तरण ने हँसी के बुलबुले फैलाते हुए, नाव को ऊर उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। उस पार समुद्र शान्त था। लेकिन एक काला रग फैला हुआ था। दक्षिण-पश्चिम कोने से एक लबा प्राणों समुद्र की तह से निकलकर बढ़ता-जैसा मालूम हुआ। वहाँ की शान्ति मे एक विशेषता। थी। नाव को इच्छानुसार नहो ले जाया जा सकता था। वहाँ एक अन्तर-वाहिनी धारा का खिचाव था। लगता था कि उधर कहो एक भैंवर है। उसकी बजह से समुद्र की तह का कीचड भी खिच रहा था।

पलनी ने उस खिचाव का सामना करना चाहा। कहो उसकी नाव ही खिच जाय तो ? पलनी ने खिचाव के विरुद्ध खेना शुरू किया, दूर से एक प्रकाश फैलता नजर आया। उसी ओर, न मालूम क्यों, पलनी ने अपनी नाव चला दी, पानी मे छोटो-छोटो लहरों के बीच समुद्रों बगुलों का एक क्षुष्ठ डोलता हुआ नीद ले रहा था। एकाएक सब बगुले प्राण-भय से चोखते हुए ऊपर की ओर उड गए। वे नाव देखकर नहो डरे थे। समुद्र मे एक चीख की आवाज उठी। एक शार्क ने एक बगुले को पकड लिया था। पलनी ने काँटा डाला। एक कुशल मल्लाह हॉशियारी से यही काम करता है।

बहुत देर तक कस्तम्भा और पचमी बाते करती रही। माँ और

परी आदि के बारे में तो बाते खत्म हो चुकी थी । चेम्पन एक समस्या हो गया था । चेम्पन की अभागी लड़कियाँ भी समस्या बन गईं । बाते करते-करते पचमी सो गई ।

करुत्तम्मा को नीद नहीं आई । उस दिन अजीब ढग से एक ही गति से हवा बहती रही । करुत्तम्मा को लगा कि उस हवा में पहले कभी न सुना गया एक दीन स्वर है । उसके कान खड़े हो गए । उसने बार-बार उस आवाज को पहचानने की कोशिश की । इस तरह वह अपने जीवन के परी की ओर बह गई ।

उसका मल्लाह अकेला समुद्र मे गया था । वह दूर समुद्र मे कॉटा डाल रहा था । उस समय करुत्तम्मा को प्रथम मल्लाहिन की तरह तट पर खड़ी होकर एकाग्र चित्त से तपस्या करनी चाहिए थी । पर वह पड़ी-पड़ी परी के बारे में सोच रही थी, लेकिन पूर्ण चेतना के साथ नहीं । वह जगी नहीं थी । सोई भी नहीं थी । परी बेचारा अच्छा आदमी था । करुत्तम्मा भी उसे प्यार करती थी । यह सब बाते स्पष्ट हो गईं । करुत्तम्मा जीवन-भर परी को नहीं भुला सकती थी । परी उसका था और वह परी की थी ।

अन्दर से कोई विरोध नहीं था । वहाँ कोई पीड़ा नहीं थी । उस अर्ध चेतनावस्था मे करुत्तम्मा धीरे-धीरे कुछ बोलती जाती थी ।

उसे लगा कि वह प्रतीक्षा मे जाग गई है कि परी फिर आयगा और बुलायगा । उसे जवाब देना है । उसीके लिए वह जग पड़ी है ।  
“करुत्तम्मा !”

करुत्तम्मा को फिर दूर से उसका नाम पुकारने की आवाज जैसी लगी । वह सोचने लगी कि वह उसकी अर्ध सुषुप्तावस्था का भ्रम था या सचमुच दरवाजे पर कोई बुला रहा था ।

फिर पुकारने की आवाज आई “करुत्तम्मा !”

एक ही आदमी इस तरह रात के समय आकर दरवाजा खटखटाकर उसे बुलाता है । वह तो रोज पुकारा करता है । पलनी ही समुद्र से आकर

उसे पुकारता है। समय करीब-करीब उसके लौटने का हो गया था।  
“करुत्तम्मा !”

फिर आवाज आई और करुत्तम्मा को सन्देह हुआ कि यह पलनी की आवाज है क्या ? उसने जवाब दिया, “हाँ !”

दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा गया। यद्यपि पलनी कहा करता था। फिर भी करुत्तम्मा दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। खूब जोर से हवा चल रही थी। उस हवा में एक तरह की तीक्ष्णता थी। स्वच्छ चाँदनी चारों ओर फैली हुई थी। बाहर उसने किसी को भी नहीं देखा। वह घर के पश्चिम में समुद्र की तरफ देखने गई। वहाँ उस चाँदनी में एक आदमी खड़ा था। वह परी था।

करुत्तम्मा डरी नहीं। चिल्लाई नहीं। ऐसा लगा, मानो उसकी पुकार सुनकर वह दरवाजा खोलकर आई है। परी धीरे-धीरे उसके पास आ गया।

करुत्तम्मा ने परी की ओर ध्यान से देखा। वह उसके पहले के परी-जैसा नहीं था। बहुत दुबला हो गया था।

परी पास मे आया। करुत्तम्मा को डर नहीं लगा। नहीं, अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। उसे एक माँ का गोरव प्राप्त था। . . . फिर भी जब पलनी समुद्र मे गया है तब रात्रि के समय किसी पर-पुरुष के साथ उसे बाते करते रहना चाहिए क्या ?—लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था। इसके पहले भी वह रात मे परी से अकेली मिल चुकी है न ! . . . इससे भी बढ़कर, जिसका जीवन निराशा मे बरबाद हो गया है उसे क्षण-भर के मिलन से थोड़ी सान्त्वना दे सके तो देनी चाहिए न !

थोड़ी देर तक दोनों एक-दूसरे को देखते रहे। करुत्तम्मा को लगा कि सामने जो परी खड़ा है उसके सर्वनाश का कारण वही है। परी हमेशा से प्रेम करता रहा है, यह करुत्तम्मा को मालूम है। कुछ भी हो जाय, कहीं भी रहे और कभी भी हो, वह उससे प्रेम करता रहेगा। हमेशा

उसे माफ करता रहेगा । वह उसके प्रति कुछ भी करे, परी सब सहता रहेगा ।

कुछ ही क्षण मे करूत्तम्मा अपने जीवन की सब विफलताएँ भूल गईं । उसकी हार नहीं हुई । उसके पास एक बड़ा धन है । वह धन, जो दूसरों के पास नहीं है । वह एक बलिष्ठ आदमी के सरक्षण मे है । उसका जीवन उसके साथ सुरक्षित है । जीवन-सम्बन्धी उसकी चेतना बिलकुल दुरुस्त है । उसे कभी भूखी नहीं रहना पड़ेगा । बाहर से किसी प्रकार का आघात उसे नहीं हो सकता, उसके पलनी मे इतनी ताकत है । उसे इसका विश्वास था । इसी प्रकार उसकी आत्मा मे भी अब एक विश्वास उत्पन्न हुआ । एक आदमी उससे प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा । और वह आदमी उसके सामने खड़ा था ।

परी के बढ़ाये हुए हाथों के बीच से वह उसकी छाती से जा लगी । दोनों के अधर मिल गए । परी ने उसके कान मे कहा, “मेरी करूत्तम्मा !”  
“हुँ । ”

परी करूत्तम्मा की पीठ पर हाथ फेरने लगा । परी ने फिर पुकारा, “करूत्तम्मा ! ”

“ऊँ । ”—अर्धचेतनावस्था मे करूत्तम्मा ने फिर जवाब दिया ।  
“मैं तेरा कौन हुँ ? ”

परी के कपोलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ती हुई और अर्ध-निमीलित नेत्रों से उसे देखती हुई करूत्तम्मा ने कहा, “कौन ? मेरे रत्न-भण्डार । ”

दोनों फिर एक हो गए । उस आनन्दानुभूति मे वह परी के कान मे कुछ-कुछ कहती रही ।

उस गाढ़ आलिगन से अलग होने की शक्ति उसमे नहीं थी ।

बहुत दूर समुद्र मे एक शार्क ने चारे बाले काँटे को मुँह से पकड़ लिया । अब तक पलनी या किसी दूसरे के काँटे मे इतना बड़ा शार्क नहीं फँसा था ।

चारा पकडते ही शार्क ने अपनी पूँछ से नाव को जोर से मारा । उस जगह समुद्र के पानी से हलचल मच गई । उस मार के जोर से बहुत ऊपर तक पानी के छाटे उठे । पूँछ से मारने के बाद शार्क आगे कूदा । पलनी ने उसे देखा । उसके मुँह से कॉट की रस्सी लगी दीख रही थी ।

उस तट पर इतना बडा मच्छ पहले-पहल उसीने पकड़ा था । पलनी खुशी के मारे चिल्ला उठा ।

तुरन्त उसे एक बात तथ करनी थी । रस्सी खीचकर शार्क को रोके या उसे इच्छानुसार भागने दे, कॉटा यदि ठीक उसके कण्ठ मे अटक गया होगा तब तो रस्सी को जरा-सा खीच देने से ही वह रुक जायगा । लेकिन यह भी सम्भव था कि वह उसी क्षण नाव को मारकर तोड़ दे । अगर उसे आगे अपनी गति से जाने दे तो नाव को भी खीच ले जायगा । उस तरह वह उसे कहाँ और कितनी दूर खीच ले जायगा ?

तट का पता नहीं था । एक हाथ से कॉटे की रस्सी पकड़े और दूसरे हाथ से डॉड संभालते हुए पलनी ने दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश की ओर देखा । लेकिन वह जिस नक्षत्र को देखना चाहता था वह दिखाई नहीं पड़ा । आकाश बादलों से आच्छादित हो गया था ।

अचिन्त्य द्रुत गति से पानी को चीरती हुई उसकी नाव चली जा रही थी । समुद्र शान्त था । लेकिन उसका रंग भयानक रूप से काला हो गया । पानी का बहाव किस ओर है, यह जानने के लिए पलनी ने पानी की ओर देखा । ध्यान से देखने पर भी कुछ पता नहीं चला ।

शार्क नाव को खीचता हुआ चला जा रहा था । वह कहाँ की यात्रा थी ? कितनी दूर खीच ले जायगा ?

दॉत पीसता हुआ पलनी चिल्ला उठा, “अरे ठहर ! मुझे समुद्र-माता के महल मे खीच ले जाने का समय अभी नहीं आया है ।”

पलनी ने रस्सी को जरा खीच दिया । नाव एकाएक रुक गई । पलनी ठाकर हँसा, “हा ! ह-हा हा ! ! ! हा ! ! ! ठहर जा रे, वही ठहर जा ।”

थोड़ी दूर पर असह्य प्राण-वेदना से शार्क पूँछ पटक-पटककर छटपटा रहा था। पलनी ने खुशी-खुशी रस्सी को और जोर से खोचा। वह समुद्री मच्छ ऊपर की ओर उछला और नीचे गिर गया।

नाव निश्चल थी। लेकिन वह चक्कर काटती-सी मालूम होने लगी। वह एक बहाव में पड़कर गोलाई में चक्कर काट रही थी। पलनी ने ध्यान से देखा। उसे डर लगा कि वह एक बड़ी भैंवर में फँस गया है। फिर एक बड़ी गोलाई का बहाव नजर आया। उस समय भी वह कॉटे की रस्सी को कसकर पकड़े हुए था।

पलनी ने आसमान की ओर देखा। एक भी तारा नहीं दिखाई पड़ा। चारों ओर बादल छाये हुए थे। बादलों के छां जाने से सब तारे अदृश्य हो गए थे।

नाव पर से पलनी ने चारों तरफ देखा। एक क्षण पहले तक चारों ओर जल-राशि शान्त दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब वह दृश्य बदल गया। उसे लगा कि वह चारों ओर से एक पहाड़ से घिर गया है और वह एक अगाध गढ़े मे है।

बीच समुद्र की तह मे ही समुद्र-माता का महल है, जहाँ देवी समुद्र-माता निवास करती है, पलनी उस महल का वर्णन कई बार सुन चुका था। वहाँ पहुँचने का रास्ता एक बड़ी भैंवर से है। एक ऐसी भैंवर, जिसके चक्कर मे सारा समुद्र सिमट जाता है।

पलनी को लगा कि चारों ओर पहाड़ की ऊँचाई बढ़ रही है। उसने रस्सी थोड़ी ढीली कर दी। नाव फिर द्रुत गति से भागने लगी।

पलनी उस भैंवर से बाहर निकला। उस पहाड़ को पार किया?

कही से एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। इतनी भयंकर आवाज पलनी ने पहले नहीं सुनी थी। वह एक तूफान की आवाज थी।

पहाड़-जैसी उत्तुग तरंगे उठी। वैसी तरंगे भी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तरंगे लम्बी-लम्बी लपेटों मे आगे नहीं बढ़ी, चरन् उसके चारों ओर मिलकर एक वृत्ताकार मे बढ़ो।

पलनी ने एक क्षण के लिए समुद्र की उस क्षुब्धि स्थिति पर विचार किया। उसे तरगों के ऊपर से नाव चलाना आता था। आँखें और तृफान से भी उसने लड़ना सीखा था। घनघोर अन्धकार में भी उसने नाव चलाई थी।

जोर से बिजली चमकी। मेघ का भयानक गर्जन हुआ। पलनी ने रस्सी को पूरी तरह ढीला कर दिया। रस्सी कसने से नाव के रुक जाने और शार्क की मार से टूट जाने की सम्भावना थी। इसलिए शार्क को अपनी इच्छानुसार जाने देने का ही उसने निश्चय किया।

ऊँची तरगों पर जब नाव चढ़ती थी तब नाव का भार कम करने के लिए वह डॉड पकड़े ऊपर उछल जाता था और तरगों की चोटी पर आते-आते वह नाव में गिर जाता था। चोटी पर से उतरते ही दूसरी तरगे उसे नाव सहित निगल जाने की तैयारी में मुँह खोले खड़ी मिलती।

समुद्र उस बेचारे मल्लाह पर मानो कुद्द होकर गरज रहा था। उस गर्जन से ऑधी अपनी श्रुति मिला रही थी और मेघ ताल देखे थे। कैसा पैशाचिक ताण्डव हो रहा था। वह एक छोटा-सा निस्सार मानव-प्राणी, था। उसका सर्वनाश करने के लिए समुद्र-माता को इतनी भयकर शक्तियों को लगा देना चाहिए? वह चाहती तो कितनी जल्दी उसे अपने ऊदर के अन्दर खीच ले जा सकती थी।

शायद यह तरगे सुदूर तट पर भी चढ़ गई होगी। वहाँ की झोपड़ियों के ऊपर भी बही होगी। जमीन पर इस समय जहरीले सांप भी लोटते होगे।

दूर पर कोई चीज ऊँचाई पर दीख रही है। क्या कोई असाधारण तरंग उठी है, जिसका शिखर दिखाई पड़ रहा है? या कोई भयानक जल-जन्तु सिर उठाकर अपना गुफानुमा मुँह खोले खड़ा है?

क्या पलनी की अजेय शक्ति समाप्त हो गई? एक तरग के आते ही उसने ऊपर उठने की कोशिश की। लेकिन उसका शरीर उठा नहीं। वह मुँह खोले बढ़ने वाली तरग उसके और उसकी नाव के ऊपर से उन्हें

लपेटती हुई निकल गई ।

जोर से बिजली कड़की । भयानक मेघ-गर्जन हुआ । ऐसा लगा मानो आसमान ही टूट पड़ा । ऐसा मालूम होता था कि समुद्र का सारा पानी सिमटकर एक ही जगह जमा हो रहा है । आँधी और तूफान का ऐसा रग-ढग था कि मानो सर्वनाश करके ही दम लेगा ।

बिजली की चमक मे एक तरग के ऊपर पलनी की नाव का छोर दिखाई पड़ा । उस तरग के नीचे आ जाने पर नाव से चिपटा पलनी भी दिखाई पड़ा, वह नाव को मजबूती से पकड़े हुए था । एक क्षण के लिए सौंस रोकते हुए वह चिल्लाया, 'करुत्तम्मा !'

पलनी की पुकार उस तूफान के गर्जन से भी बढ़कर ऊँची आवाज मे सुनाई पड़ी ।

उसने करुत्तम्मा को क्यो पुकारा ? उसमे कोई उद्देश्य था न ? समुद्र मे जाने वाले मल्लाह की रक्षा करने वाली देवी घर मे बैठी मल्लाहिन ही है न ? उसने करुत्तम्मा से उस आदि मल्लाहिन की तरह तपस्या करने की माँग की । वह प्रथम मल्लाह आँधी-पानी मे फॅस जाने पर भी, अपनी मल्लाहिन की तपस्या के फलस्वरूप बचकर घर लौट सका था न । पलनी को भी उसी प्रकार रक्षा पाने का विश्वास था । उसकी भी मल्लाहिन थी । उसने पिछले दिन भी तो प्रतिज्ञा की थी । वह जरूर तपस्या करती होगी ।

आँधी ने जोर पकड़ा । पलनी अपनी शक्ति-भर आँधी से लड़ा । आँधी तरगो से मिल गई, एक उत्तुग तरग की लपेट आगे बढ़ी ।

पलनी के मुँह से फिर 'कह ..' शब्द निकला, तब तक वह तरग उसके ऊपर से निकल गई ।

अब कुछ नही दीख रहा है । आँधी, तूफान, बिजली, मेघ-गर्जन सब मिल गए । सब शक्तियो के योग से सहार का काम पूरा हो रहा है ।

पानी आसमान तक उठा । सारा समुद्र एक गुफा-जैसा हो गया ।

तूफान भी नजर आने वाली चीज़ बन गई ।

बहुत दूर पर एक तरंग की छोटी पर वह नाव उलटी हुई दिखाई पड़ी ।  
उसे पकड़े पेट के बल पड़ा हुआ पलनी भी दीख पड़ा । इस समय भी वह  
नाव को पकड़े हुए था । लेकिन क्या उसका सिर फिर उठेगा ?

क्या उस दारुण सहार का काम समाप्त हो गया ?

एक भैंवर मे पड़कर वह नाव खड़ी-खड़ी नीचे की ओर खिच गई ।

एक नक्षत्र चमक उठा । वह था मछुआरो को दिशा का ज्ञान करने  
वाला नक्षत्र । मछुआरो का अरुन्धती ! किन्तु उसका तेज़ मन्द पड़ गया-  
सा लगता था ।

दूसरे दिन सुबह समुद्र का दृश्य बिलकुल शान्त था । मानो कुछ  
हुआ ही नहीं ।

दूर समुद्र में अच्छा 'बटीर' हुआ, ऐसा रात को जागने वाले कुछ  
मछुआरो का कहना था । तरंगे कुछ घरी के ऑगन तक चढ़ आई थीं ।  
तट की बालुका-राशि पर समुद्री साँप भी देखे गए ।

पचमी तट पर उस बच्ची को गोद मे लिये खड़ी-खड़ी रो रही थी  
और बच्ची माँ और बाप के लिए चौख-पुकार मचाये हुई थीं ।

'पचमी रोते-रोते बच्ची को भी चुप करा रही थी ।

दो दिन के बाद आलिगनबद्ध एक स्त्री और पुरुष के शरीर वहाँ  
किनारे लग गए । वे करूतम्मा और परी के शरीर थे ।

चेरियषिकल-तट पर काँटा निगला हुआ एक शार्क भी किनारे  
लगा था ।